CMYK

अधिकतम :31°C
न्यूनतम: 24°C

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

बरेली, शनिवार 20 सितम्बर 2025 बरेली संस्करण: वर्ष 22 अंक 296 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com | आश्विन कृष्ण पक्ष 14 विक्रमी सम्वत् 2082 | 27 रबी उल अव्वल 1447 हिजरी | नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



शिक्षामित्रों के मानदेय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त पेज 2

महिला क्रिकेट विश्वकप का आधिकारिक गीत 'ब्रिंग इट होम' जारी खेल टाइम्स

पीर अली खानः आजादी के इतिहास का अमर स्तम्भ सम्पादकीय

ईरानी चाबहार पोर्ट से जुड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाएगा अमेरिका पेज 12

स्कूबा डाइविंग हादसे में बॉलीवुड सिंगर जुबीन की मौत

शाह टाइम्स ब्यूरो

- इमरान हाशमी के या अली सॉन्ग से मिला था फेम
- सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे जुबीन गर्ग

नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। उन्हें गार्ड्स ने समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई।

जुबीन गर्ग को 2006 में आई इमरान हाशमी स्टारर फिल्म गैंगस्टर के सॉन्ग या अली से फेम मिला था। 52 साल के जुबीन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। जुबीन ने असमिया, बंगाली और हिंदी भाषा की फिल्मों में गाने गाए थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के प्रतिनिधि अनुज कुमार बोरूआ ने संवाददाताओं को बताया कि हमें बहुत दुख के साथ जुबीन गर्ग के निधन की खबर बतानी पड़ रही है। स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया। उन्हें बचाने की कोशिशों के बावजूद, उन्हें आईसीयू में दोपहर 2.30 बजे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने भी सोशल मीडिया पर सिंगर के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हमारे प्रिय जुबीन गर्ग के असामयिक निधन से गहरा दुःख हुआ। असम ने न केवल एक आवाज, बल्कि एक धड़कन भी खो दी है। जुबीन दा एक गायक से कहीं बढ़कर थे, वे असम और राष्ट्र के गौरव थे, जिनके गीतों ने हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारी आत्मा को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया। उनके म्यूजिक में पीढ़ियों ने आनंद, सांत्वना और पहचान पाई। उनके निधन से एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है, जो कभी नहीं भरेगा। असम ने अपना सबसे प्रिय सपूत खो दिया है, और भारत ने अपने सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक खो दिया है। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनकी विरासत सदैव प्रेरणा देती रहे। शांति

'बुकर' विजेता बानू मुश्ताक करेंगी मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन

शाह टाइम्स ब्यूरो

- बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव में बुलाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

कार्यक्रम 22 सितम्बर को होगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील दी कि किसी गैर-हिंदू व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उनके इस तर्क पर कहा कि खारिज। एडवोकेट सुरेश ने दलील दी कि मंदिर के अंदर पूजा को धर्मनिरपेक्ष कार्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक है। कोई कारण नहीं है कि उन्हें धार्मिक उत्सव के लिए मंदिर के अंदर लाया जाए। जस्टिस नाथ ने फिर दोहराया कि खारिज। सीनियर -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर: सुरक्षाबलों पर हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद, चार घायल

इम्फाल। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम अज्ञात हमलावरों ने असम राइफल्स की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रिम अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, घटना शाम करीब 6 बजे नम्बोल सबल लाइकाई इलाके में हुई, जब असम राइफल्स के जवान इम्फाल से बिष्णुपुर की ओर जा रहे थे। हमलावरों ने घात लगाकर वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल जवानों के लिए एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल रवाना किया। रिम अस्पताल में 4 घायल जवानों का इलाज जारी है। घायल जवानों की संख्या अभी बढ़ सकती है।

शरजील इमाम, उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितम्बर 2025 के संबंधित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जमानत मंजूर करने से इन्कार कर दिया गया था।

भारत का पहला मानवयुक्त मिशन 2027 में निर्धारित

बेंगलुरु। भारत का गगनयान कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत का पहला मानवयुक्त मिशन 2027 की अंतिम तिमाही में निर्धारित है। बेंगलुरु में हाइड्रोजन फ्यूल नेशनल वर्कशॉप के उद्घाटन के दौरान मीडिया के बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से जुड़े लगभग 80 से 85 प्रतिशत कार्य पहले ही कर लिए गए हैं।

'चुनाव का चौकीदार' जागता रहा, चोरी देखता रहाः राहुल

चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा: 36 सेकंड में दो वोटर मिटाओ फिर सो जाओ

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा।

राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो क्लिप शेयर की। कैप्शन में लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकेंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ- ऐसे भी हुई वोट चोरी! इससे पहले उन्होंने गुरुवार को इस मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। आरोपों के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटरों को भी पेश किया, जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। राहुल ने 18 सितम्बर को दिल्ली में वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें एक व्यक्ति को भी मंच पर बुलाया गया, जिसका नाम हटाया गया।

गिरिराज ने जेन-जी वाले बयान पर जवाब दिया, कहा: राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को राहुल के जेन-जी वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताशा में हैं। वे कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे, कभी जेन-जी की बात करेंगे। वे अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल के रूप में रिएक्ट करते हैं। राहुल ने कहा था कि देश के युवा देश के छात्र , देश के जेन-जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं आलंद चुनाव का पार्टी इन्चार्ज था, मुझे विश्वास था कि वह सीट भाजपा जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी वह सीट जीती ही नहीं थी। अगर वाकई वोट चोरी हुई है, तो कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार आलंद सीट जीती।

पाकिस्तान जो भी कहानी गढ़ता वही प्रचार करते हैं राहुल : रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जो भी कहानी गढ़ता है उसी प्रकार की कहानी गढ़ने का काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी कंपनी करती है। पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी और उनका ग्रुप जो कुछ कहता है, भारत-विरोधी ग्रुप और पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश का युवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ है। देश का गरीब, किसान, देश का हर एक लोग पीएम मोदी को देश का नेता मानता है। राहुल गांधी हो या कोई और बार-बार चुनाव हारने के बाद अपनी कमजोरी को छुपाकर संस्थाओं को ही गाली देंगे, तो कोई नहीं मानेगा। देश बदल चुका है और देश का मिजाज बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है और राहुल गांधी जैसे लोग देश के तेज गति से चलने वाले इंजन को रोकना चाहते हैं जो हो नहीं सकता है। देश उनको माफ नहीं करेगा।

पाक सोचता था हमलों से हम डर जाएंगे: रक्षा मंत्री

शाह टाइम्स ब्यूरो

- 1965 जंग की डायमंड जुबली कार्यक्रम में राजनाथ ने कहा: आतंकियों को हमने सबक सिखाया

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में 1965 की जंग के 60 साल पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भारतीय सेना ने आयोजित किया था।

पाकिस्तान को लगता था कि अचानक किए गए आतंकी हमलों से हम डर जाएंगे, वो ये नहीं जानते कि भारत का हर सैनिक देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ठान लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाने की ठानी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। कार्यक्रम में उन्होंने उन बहादुर सैनिकों और शहीदों के परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने 60 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत को जीत दिलाई थी। कार्यक्रम में जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, दिल्ली एरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार साथ ही अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की बहादुरी का जिक्र किया। अब्दुल हमीद ने आसल उत्तर की लड़ाई में अकेले ही पाकिस्तान के कई टैंकों को बर्बाद कर दिया था।

उप्र में बिजली गिरने से सात की मौत, मकान जला, हिमाचल में लैंडस्लाइड

- उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर में 3, कौशांबी में 2 और हमीरपुर-चंदौली में 1-1 की जान गई है। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर गांव में बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई, हालांकि काबू पा लिया गया है।

वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर में 18 सितम्बर की रात बादल फटा था। इसके बाद से 14 लोग लापता थे। कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। यहां पर 200 लोग प्रभावित हुए हैं। 35 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हैं। देहरादून-मसूरी रोड अभी भी क्षतिग्रस्त है। मसूरी में मौजूद 2 हजार के करीब टूरिस्ट्स सेफ हैं। इधर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध इस साल पांचवीं बार ओवरफ्लो हुआ। कौशांबी में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हुई। शिमला की लाइफ लाइन कहे जाने वाली सर्कुलर रोड बंद है। एडवर्ड स्कूल की दो दिन की छुट्टी की गई है। कुमारसैन की करेवथी में भी तीन मंजिला मकान धंस गया।

मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए अपनी मां का फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में उमर अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उमर अंसारी फिलहाल जेल में बंद हैं। जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ के समक्ष याची उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां के हस्ताक्षर किए हैं।

आर्यन मान बने डूसू अध्यक्ष, ABVP को 3 सीटें मिलीं

शाह टाइम्स ब्यूरो

- एनएसयूआई को मिली उपाध्यक्ष की सीट

नई दिल्ली। दिल्ली विश्व विद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए हैं। एबीवीपी ने इस बार तीन सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का पद शामिल है।

वहीं एनएसयूआई के राहुल झासला ने उपाध्यक्ष का पद जीता है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) को संयुक्त रूप से कोई सीट नहीं मिली। छात्र संघ के नए अध्यक्ष मान ने कहा कि उन्हें अपनी जीत पर 100 प्रतिशत भरोसा था। उन्होंने कहा कि मुझे सभी कॉलेजों के छात्रों का समर्थन प्राप्त था। मेरी पहली प्राथमिकता डीयू छात्रों के लिए मेट्रो रियायती पास की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा। इसके अलावा, सभी एथलीटों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना भी मेरी प्राथमिकता होगी। मान ने अपने समर्थकों से विजय उत्सव के दौरान शांतिपूर्ण रहने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, हमें किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है।

तीन गलतफहमियों के कारण 1965 की लड़ाई में पस्त हुआ था पाक

नई दिल्ली, वार्ता

- पूर्व सेना उप प्रमुख ले.जनरल नाम्बियार ने कहा: हमारे जवानों ने हौसले और जज्बे का दिया था परिचय

पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई में बहादुरी और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सतीश नाम्बियार ने कहा है कि पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों के टूटे मनोबल और हौसले सहित तीन गलतफहमियों के कारण इस लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी।

पूर्व सेना उप प्रमुख ले.जनरल नाम्बियार ने 1965 की लड़ाई के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को यहां आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में कहा कि उस समय पाकिस्तान को भारत तथा उसकी सेनाओं को लेकर तीन गलतफहमी थी और उसे इनकी कीमत हार के रूप में चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि पहले तो पाकिस्तान को लगा कि चीन से हार के बाद भारतीय सेनाओं का हौसला पस्त है, दूसरा उसे लगा कि कश्मीर के लोग उसका साथ देंगे और तीसरा उसे गलतफहमी थी कि वह अखनूर पर हमला कर कश्मीर से शेष भारत का सड़क मार्ग से संपर्क आसानी से तोड़ देगा। जनरल नाम्बियार ने कहा कि चीन के साथ 1962 की लड़ाई में भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेनाओं के हौसले पस्त हैं और जवानों का मनोबल टूटा हुआ है जबकि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती या गलतफहमी साबित हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने चीन के साथ बेहद प्रतिकूल और सीमित संसाधनों के बल पर लड़ाई लड़ी। भारत के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पुराने हथियार थे सेना के पास प्रतिकूल मौसम में जरूरी वर्दी तक नहीं थी। जनरल नाम्बियार ने कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत हुई, तो हमारे जवानों ने जिस हौसले और जज्बे का परिचय दिया पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिकों की बहादुरी और शौर्य के सामने टिक नहीं सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक और रणनीतिक भूल की कि वह कश्मीर के लोगों के मूड को नहीं समझ सका। उसे लगा था कि कश्मीर के लोग भारत के विरुद्ध हो जाएंगे तथा उसका साथ देंगे, लेकिन कश्मीर के लोगों ने हमारा साथ दिया और पाकिस्तानी सेना के बारे में समय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसका लड़ाई में फायदा मिला। तीसरा -शेष पृष्ठ दो पर

पतंजलि-डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस: पतंजलि को फटकार

- दिल्ली हाईकोर्ट बोला: हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि-डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में सुनवाई की। बाबा रामदेव ने इस विज्ञापन को चलाने पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच जज के आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि आपने बाकी सभी लोगों को यह कहकर बदनाम कर दिया कि वे नहीं जानते च्यवनप्राश क्या है और कैसे बनता है। बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने एड को अपमानजनक माना। यह अंतरिम आदेश है। जरूरी नहीं हम भी इस पर विचार करें। हम हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे। जरूरत पड़ी, तो जुर्माना लगाएंगे। जस्टिस हरिशंकर ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि यह आदेश आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप हर मामले में अपील दायर कर सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

वाराणसी घटना की मजिस्ट्रेटी जांच कराएं सीएम: बार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बीते दिनों अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुए विवाद को लेकर वकीलों के समर्थन में बार काउंसिल आफ उत्तरप्रदेश उतर आया है। काउंसिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के साथ ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि मांगों पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो अधिवक्ता समाज विवश होकर प्रदेश स्तरीय एक बड़ा आंदोलन करेगा।

चुनाव आयोग को हमसे परहेज क्यों: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग जब भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) तथा एक निजी कंपनी को डाटा दे सकता है, तो कांग्रेस को यह डाटा देने में परहेज क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक पेज में आयोग से सवाल किया है कि चुनाव आयोग से बार-बार डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन आयोग पार्टी को डाटा नहीं दे रहा है जबकि इससे पहले वह बीआरएस तथा एक निजी कंपनी को डाटा उपलब्ध करा चुका है। आयोग ने इस निजी कंपनी को पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन के लिए यह डाटा सौंपा था। पार्टी ने सवाल किया, चुनाव आयोग ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार और प्राइवेट कंपनी को वोटरों का डेटा दिया था। इसमें वोटरों की तस्वीर और उनका पता शामिल था। तेलंगाना सरकार ने 2019 में 'पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम' लॉन्च किया था और इस काम को एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया था।

छह साल से चुनाव न लड़ने पर 474 पार्टियां डीलिस्ट

नई दिल्ली, वार्ता

■ 359 पर एक्शन शुरू, चुनाव आयोग ने दो महीने में 808 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को 474 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया है। इन पार्टियों ने पिछले छह साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इस कार्रवाई के बाद पिछले दो महीने में अब तक 808 पार्टियों को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है।

आयोग ने बताया कि इससे पहले 9 अगस्त को भी 334 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। इसके अलावा आयोग ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 359 पार्टियों को भी चिन्हित किया है। इन पार्टियों ने तीन साल (2021-22, 2022-23 और 2023-24) से अपने ऑडिटेड अकाउंट्स और चुनावी खर्च की रिपोर्ट जमा नहीं की। ये पार्टियां चुनाव में उतरी थीं, लेकिन जरूरी रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की, जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ को इन पार्टियों को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पार्टियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। 26 अगस्त को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में रजिस्टर्ड 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को 2019-20 से 2023-24 के पांच साल में 4300 करोड़ चंदा मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए तीन चुनावों (2019, 2024 के दो लोकसभा और 2022 का विधानसभा) में इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे और इन्हें कुल 54,069 वोट मिले। इन दलों और इनके प्रत्याशियों की निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में खर्च महज 39.02 लाख बताया कि जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपये खर्च दर्शाया है। देश में नाममात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 2022-23 में 223 फीसदी बढ़ गई। यह जानकारी एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2764 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनमें से 73 फीसदी से ज्यादा (2025) ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक ही नहीं किया है। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा किया है।

रिपोर्ट में इन्हीं पार्टियों का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि गुजरात की ऐसी 5 पार्टियों की कुल आय 2316 करोड़ रही। इनमें एक साल की आमदनी 1158 करोड़ थी। जबकि बीते 5 सालों में हुए 3 चुनावों में इन्हें सिर्फ 22 हजार वोट मिले।

यूपी के शिक्षामित्रों के मानदेय मामले में हाईकोर्ट सख्त, अपर मुख्य सचिव तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्तूबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया।

हाईकोर्ट में 18 सितंबर 2025 को सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इनके हलफनामों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे लेकिन उन्होंने छूट के आवेदन के साथ अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। वहीं याची के अधिवक्ता सत्एंद्र चंद्र त्रिपाठी इस पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि पिछली बार भी समय मांगा गया था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्तूबर 2025 पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। वहीं अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है।

इतना बड़ा झूठ न बोलें- पद की गरिमा का रखें ख्याल: अखिलेश

लखनऊ, वार्ता

उत्तर प्रदेश में मेट्रो संचालन को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर पलटवार करते हुए कहा कि जिसका प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और जनता ने साक्षात अनुभव किया हो, उसको लेकर इतना बड़ा झूठ नही बोलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सफ़ेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है। शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा। इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि इंसान औरों की ही नहीं अपनी निगाह में भी गिर जाए। सफ़ेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है। सत्ता का ऐसा भी क्या लालच कि उस बात को झूठ बताना जिसके प्रमाण हर तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और जनता ने जिसका खुद साक्षात अनुभव किया हो। इतना बड़ा झूठ बोलना तभी संभव होता है, जब व्यक्ति या तो चेतना खो दे या सच्चाई या अपने आदर्श और सत्य के संस्कार। ऐसे महाझूठ वक्ता दरअसल अपने लोगों को महामूर्ख समझते हैं। वो मानते हैं कि उनके अनुयाई उनकी हर बात को सच ही मानेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

पं. दीन दयाल के स्मृति महोत्सव में बोले सीएम योगी

यूपी की युवा ऊर्जा ही देश को ले जाएगी आगे

शाह टाइम्स संवाददाता

■ पंडित जी के मंत्रों में असंभव को संभव में बदलने की शक्ति

मथुरा। सीएम योगी अन्त्योदय के प्रणेता और एकात्म मानव दर्शन के वक्ता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित चार दिवसीय स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि पंडित जी का सपना आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। पंडित उपाध्याय जी ने 1950 के दशक में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को जो दृष्टि दी थी, वही आज वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के रूप में मूर्तरूप ले चुकी है।

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में असंभव को संभव बनाया गया है, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण हो या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना हो। सीएम ने कहा कि जो कभी असंभव लगता था, वही आज देश की ताकत बन चुका है। यही पंडित जी के मंत्र का प्रभाव है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। योगी ने कहा कि आज का समय युवाओं का है। यूपी के पास सबसे बड़ी युवा ऊर्जा है और यही भारत को आगे ले जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएम युवा स्कीम के तहत सरकार 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त, गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करा रही है। जनवरी से अब तक 70 हजार युवाओं ने इसका लाभ उठाया है और लक्ष्य 1 लाख युवाओं तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा कि आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहा है। स्टार्टअप केवल आईटी सेक्टर में ही नहीं बल्कि व्वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और गो आधारित खेती जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मी हो, उसे मिनिमम मानदेय 16 से 20 हजार रुपए मानदेय हर हाल में मिलेगा, इसकी गारंटी सरकार देने जा रही है।

कांग्रेस-सपा पर सीधा हमला

सीएम योगी ने इस दौरान कांग्रेस और सपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भारत को ताकतवर बनाने की दिशा में 'असंभव' शब्द जुड़ा था। यूपी की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि आजादी के समय जीडीपी में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला राज्य 2017 तक देश की आठवीं अर्थव्यवस्था बनकर रह गया, लेकिन डबल इंजन सरकार ने यूपी को फिर से देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प पूरा किया है। सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर को कांग्रेस ओर उसके सहयोगियों ने देश के लिए नासूर बना दिया था। कभी लोग कहते थे कि धारा 370 हटाना असंभव है, लेकिन पीएम मोदी ने यह असंभव संभव कर दिखाया। इसी तरह राममंदिर को लेकर जो संकल्प था, वह भी मोदी सरकार ने पूरा किया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार हुआ, तो भारत बनेगा विश्व गुरु: मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मथुरा में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला 'विराट युवा सम्मेलन' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विजन साकार हुआ तो भारत विश्वगुरु बनेगा। फरह के नगला चंद्रभान में योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम इकाइयों से जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश मजबूत होगा। नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। चार दिवसीय स्मृति महोत्सव कार्यक्रम का 19 सितम्बर को शुभारंभ किया गया है।

सेंसेक्स 82626.23
निफ्टी 25327.05

सोना रु. 111330
प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट)

अर्थ व्यापार

चांदी रु. 128000
प्रति किलो

शेयर बाजारों में तेजी थमी, सेंसेक्स लुढ़का

मुंबई, वार्ता

घरेलू शेयर बाजारों में ऊंचे स्तर पर हुई बिकवाली से शुक्रवार को गिरावट रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संसेक्स 387.73 अंक (0.47 प्रतिशत) लुढ़क कर 82,626.23 अंक पर बंद हुआ। बाजार में आज शुरू से ही गिरावट रही। पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली से सेंसेक्स 67.92 अंक टूटकर 82,946.04 अंक पर खुला और एक समय 500 अंक से अधिक गिर गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी.50 सूचकांक भी गुरुवार के मुक.ाबले 96.55 अंक यानी 0.38 प्रतिशत नीचे 25,327.05 अंक पर बंद हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में सबसे अधिक 1.52 प्रतिशत की गिरावट रही। आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी एक प्रतिशत से अधिक टूटे। भारतीय स्टेट बैंक में 0.91 प्रतिशत की तेजी के अलावा भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक भी सेंसेक्स में मुनाफा कमाने वाली 11 कंपनियों में रही। मझौली कंपनियों में भी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप.50 सूचकांक 0.04 प्रतिशत और निफ्टी मिडकैप.100 सूचकांक 0.15 प्रतिशत टूट गया। छोटी कंपनियों में लिवाली से निफ्टी स्मॉलकैप.100 में 0.15 प्रतिशत की तेजी रही। विदेशों में एशियाई बाजार दबाव में रहे। जापान का निक्केई 0.57 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.30 प्रतिशत फिसल गया, जबकि हांगक.ांग काहैंगसेंग सपाट रहा। यूरोप में शुरुआती कारोबार में जर्मनी डेक्स 0.26 प्रतिशत लुढ़क गया जबकि ब्रिटेन का एफटीएसई सपाट रहा।

विदेशी मुद्रा भंडार फिर 700 अरब डॉलर के पार

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 सितम्बर को समाप्त सप्ताह में 4.698 अरब डॉलर बढ़कर 702.966 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा उच्चतम स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार का अब तक का उच्चतम स्तर 704.885 अरब डॉलर है, जो 24 सितम्बर 2024 को समाप्त सप्ताह में दर्ज किया गया था। लगातार तीन सप्ताह की तेजी के साथ अब यह एक बार फिर उसके करीब पहुंच गया है। इससे पहले, गत 05 सितम्बर को समाप्त में विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 4.038 अरब डॉलर बढ़कर 698.268 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 12 सितम्बर 2025 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 2.537 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई और यह 587.014 अरब डॉलर हो गया। साथ ही स्वर्ण भंडार भी 2.120 अरब डॉलर बढ़कर 92.419 अरब डॉलर रहा।

सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी

नई दिल्ली। शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम बढ़ गए। देश में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड के दाम 160 रुपये बढ़कर 1,11,330 रुपये पर आ गए। वहीं चांदी के रेट में भी 2000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। गुड रिटर्न्स के डेटा के मुताबिक देश में सिर्फ ओवरआल सोने के भाव नहीं बढ़े हैं, बल्कि देश के बाकी शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में भी सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। चांदी की चमक भी बढ़ गई है। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सोने और चांदी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए 1,11,480 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 1 किलोग्राम चांदी के लिए 1,11,480 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर मुंबई की बात करें, तो गोल्ड और सिल्वर के दाम वहां भी बढ़े हैं।

चावल-चीनी मजबूत, गेहूं नरम, खाद्य तेलों में घट-बढ़, दालों के भाव टूटे

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में शुक्रवार को चावल के दाम बढ़ गए, जबकि गेहूं में मंदी रही। चीनी के दाम भी बढ़ गए। दालों में नरमी देखी गई, जबकि खाद्य तेलों में उतार.चढ़ाव का रुख रहा। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का दिसंबर वायदा 11 रिंगिट टूटकर 4,424 रिंगिट प्रति टन बोला गया। अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50.88 डॉलर के भाव बोला गया।

घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल की औसत कीमत दो रुपए बढ़कर 3,863.78 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। गेहूं तीन रुपए टूटकर 2,857.15 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की मजबूती रही और यह 3,319.08 रुपए प्रति क्विंटल बिका। खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया। सरसों तेल औसतन 43 रुपए और मूंगफली तेल 18 रुपए प्रति क्विंटल फिसल गया। पाम ऑयल में भी 10 रुपए प्रति क्विंटल अधिक की गिरावट रही। सूरजमुखी तेल की औसत कीमत दो रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई। सोया तेल में 31 रुपए और वनस्पति 16 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हुआ। दाल-दलहनों में आज नरमी रही। तुअर दाल की औसत कीमत 40 रुपए प्रति क्विंटल टूट गई। उड़द दाल में छह रुपए और मूंग दाल में 18 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। मसूर दाल छह रुपए प्रति क्विंटल सस्ती हुई, जबकि चना दाल के भाव में कमोबेश टिकाव रहा। गुड़.चीनी : मीठे के बाजार में आज गुड़ की औसत कीमत चार रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई। चीनी भी तीन रुपए प्रति क्विंटल महंगी हुई। सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे :.दाल-दलहन: दाल चना 7967.25 रुपए, मसूर काली 8168.25 रुपए, मूंग दाल 10123.90 रुपए, उड़द दाल 10453.65 रुपए, अरहर दाल 10625.28 रुपए प्रति क्विंटल। अनाज : (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2857.15 रुपए और चावल 3863.78 रुपए प्रति क्विंटल।

प्रथम पृष्ठ के शेष...

'बुकर' विजेता...

एडवोकेट ने फिर आरोप लगाया कि आमंत्रित अतिथि मुश्ताक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच.ाने वाली कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। जस्टिस नाथ ने कहा कि मामला खारिज कर दिया गया है। हमने तीन बार खारिज कहा है। और कितनी बार खारिज करने की जरूरत है? दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16 सितम्बर को कहा था कि किसी विशेष धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति का किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में शामिल होना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा उत्सव के लिए कर्नाटक सरकार ने मुख्य अतिथि बनाया है। 62 साल की बानू मुश्ताक कन्नड़ लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान आंदोलनों और कन्नड़ भाषा आंदोलनों से जुड़ी रही हैं।

मई 2025 में उन्होंने अपनी कहानी संग्रह एडेया हनाटे के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्थ ने किया था। राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने उनके साहित्यिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए इस बार दशहरा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि बानू के लिए हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना गलत होगा। क्योंकि इन अनुष्ठानों में पवित्र दीप जलाना, देवता को फल-फूल चढ़ाना और वैदिक प्रार्थनाएं करनी होती हैं। यह भी कहा गया था कि ऐसी प्रथाएं केवल एक हिंदू ही कर सकता है। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा था कि यह राज्य का समारोह है, किसी मंदिर या धार्मिक संस्थान का नहीं। इसलिए धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। पहले भी वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, लेखकों और स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि मुश्ताक को बुलाने का फैसला कमेटी का है। इसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और और विभिन्न सरकारी अधिकारी शामिल थे।

तीन गलतियों के...

पाकिस्तान को लगा था कि वह अखनूर पर हमला कर कश्मीर का सड़क मार्ग से शेष भारत के साथ संपर्क खत्म कर देगा, लेकिन यह उसकी रणनीतिक भूल साबित हुई और इसके लिए चलाया गया उसका ऑपरेशन जिबाल्टर विफल हो गया। उन्होंने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट दे दी थी कि दुश्मन को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। इसके बाद सेना ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया। जनरल नाम्बियार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की इन तीनों गलतियों का फायदा उठाया और पाकिस्तान को लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी।

त्योहारों में क्यूआर कोड से मिलेगा रेलवे टिकट

नई दिल्ली, वार्ता

यूटीएस ऐप टिकटिंग को बढ़ावा देने को रेलवे कर्मचारियों ने क्यूआर कोड वाली जैकेट पहनी

यात्रियों की सुविधा और अनारक्षित टिकटों की सुविधा.जनक खरीद सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन में भीड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर स्टेशन क्षेत्रों में यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकटों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड स्टिकर के साथ रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट पेश किए हैं।

दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने कहा कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट खरीदे गए हैं, जिनके पीछे क्यूआर कोड स्टिकर मुद्रित हैं, जिन्हें यूटीएस ऐप या रेल वन ऐप के माध्यम से स्कैन करके अनारक्षित टिकट खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जैकेट उन लोगों द्वारा पहने जाएंगे, जिन्हें स्टेशन परिसर, प्रवेश या निकास द्वार और टिकट काउंटरों के बाहर जैसे अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में यूटीएस मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए तैनात किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के सीप.ीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि महाकुंभ मेले के दौरान एनसीआर रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली की शुरुआत की थी, जो भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ यात्रियों को परेशानी मुक्त टिकट प्रणाली प्रदान करने में एक बड़ी सफलता थी। त्रिपाठी ने कहा कि भारी सफलता को देखते हुए अन्य रेलवे ज़ोन भी त्योहारों के दौरान जैकेटों पर क्यूआर कोड लागू कर रहे हैं। एनसीआर भी जरूरत पड़ने पर ऐसे क्यूआर कोड युक्त जैकेट का इस्तेमाल करता है। यात्री जैकेट के पीछे दिए गए क्यूआर कोड को यूटीएस या रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी लोगों को एप्लीकेशन के उपयोग और यूटीएस ऐप के माध्यम से टिकट खरीदने के लाभों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे टिकट काउंटरों पर कतारें कम करने में मदद मिलेगी और कैशलेस, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।

शाह टाइम्स क्लासीफाईड्स Sale

स्त्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है
आज ही इलाज करा लेना खोई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करने के लिए आज ही मिलें या फोन करें।
काजीजादा, अमरोहा-UP
हाशमी दवाखाना
9997161320, 8272800800

काम कोर्स उदास क्यों?
अधिक संतुष्टि, हैरतअंगेज पावर, शीघ्रपतन, नपुसकता, बचपन की गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा।
फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।
ऋषि इन्टरनेशनल
08899787114
09808917010

Cipzer
HEALTH WITH CARE
जॉन्डिस क्योर
लिवर का जिगरी दोस्त
भूख की कमी, बदहज़मी जॉन्डिस, फैटी लीवर, एल्कोहलिक लिवर डिजीज आदि से लड़ने की ताकत देता है ताकि आप रहे फिट एण्ड एक्टिव
प्रमुख मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध।
86 8484 5757 info@cipzer.com

वैधानिक सूचना
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें तथा उचित सलाह ले लें। कोई भी अभिदाता जो इस अखबार में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संदर्भ में कोई राशि भेजता है, किसी चिकित्सीय सलाह पर कोई कार्यवाही या खर्च करता है या कोई वचन देता है, तो ऐसा वह स्वविवेक, बुद्धि तथा जोखिम पर करेंगे। कम्पनी, प्रकाशक या उसका कोई कर्मचारी विज्ञापनदाता या उसके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन नहीं देते तथा ऐसे विज्ञापनों विश्वास करके किसी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ गरजे शिक्षक

कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली के आवाहन पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अमरोहा के द्वारा टीईटी अनिवार्यता के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के नाम जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया जिसमें एकदिवसीय धरना भी सम्मिलित था जिला महामंत्री एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में टेट शामिल नहीं था अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय टेट के संबंध में दिया गया है वह निराधार है इस निर्णय को केंद्र सरकार संसद में अध्यादेश लाकर वापस करें इस अवसर पर सुशील नागर जिला अध्यक्ष, सतपाल सिंह मांडलिक मंत्री, अजय सिंह जिला कोषाध्यक्ष, कमल कुमार शर्मा, रामकिशोर सिंह शमीम अहमद जमशेद अली शाहनवाज खान करतार सिंह ओम प्रकाश त्रिपाठी नरेंद्र सिंह अशोक कुमार महेंद्र सिंह जितेंद्र पाल सिंह चेतेंद्र पाल सिंह चूनम देवी सर्वेश पवार पूनम रानी शर्मा ज्योति चौधरी राकेश चहल राघवेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह रणवीर सिंह जगबीर सिंह योगेश कुमार वरुण सिंह रजनी रानी करतार सिंह अजीम अख्तर लक्ष्य त्यागी कुलद. ीप त्यागी मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे।

युवक पर हमला, चार पर मुकदमा

शाह टाइम्स ब्यूरो जोया। डिडौली थाना क्षेत्र के कनपुरा गांव निवासी फैसल ने गांव के चार लोगों पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।पीड़ित का कहना है कि बीती वुद्धवार की शाम वह अपने घर जा रहा था। रास्ते में गांव के ही जुलेफकार, मोहम्मद शानू, शारुख खान और मोहम्मद सुबहान ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो सभी हमलावर आग बबूला हो गए और जानसे मारने की धमकी दीद्य चारो लोगों ने हमलावरों ने लाठी-डंडों व सरियों से पीटा। शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। पीड़ित की तहरीर पर ने पुलिस ने गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पांच बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार

बच्चों का रो रोकर बुरा हाल, पति ने दी तहरीर

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। पांच बच्चों की मां प्रेमी युवक के साथ फरार हो गई। महिला तीन बच्चों को भी अपने साथ ले गई है। मां की याद में घर में मौजूद दोनों बेटियों का रोते हुए लगता बुरा हाल है। पुलिस को पति द्वारा तहरीर दे दी गई है।

कहते हैं कब किससे प्यार हो जाये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली क्षेत्र के हल्का नंबर निवासी एक मजदूर लखनऊ में वेल्डिंग का काम करता है। उसकी पत्नी पांच बच्चों के साथ गांव में रहती थी। इस दौरान महिला की रहरा थाना इलाके के गांव निवासी एक युवक से आंखें लड़ गई। महिला के पति को जब पता चला तो उसने पत्नी को समझाने के साथ ही उसके प्रेमी को भी समझा दिया था। उस समय प्रेमी ने महिला से मिलने से साफ मना कर दिया था। उसके बाद महिला का पति काम करने के लिए वापस लखनऊ चला गया। लेकिन दो दिन पहले महिला रिश्तो को तोड़ते हुए लोक राज छोड़कर प्रेमी युवक के साथ फरार हो गई। पत्नी के फरार होने की सूचना मिलने पर पति लखनऊ से वापस घर लौट आया। उसके बाद पीड़ित पति दोनों बेटियों व रिश्तेदारों के साथ कोतवाली पहुंच गया तथा पत्नी को बरामद करने की गुहार लगाई। मां की याद में दोनों बेटियों का रोते-रोते बुरा हाल है। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद जांच करनी शुरू कर दी है।

सड़क निर्माण की मांग को प्रदर्शन

शाह टाइम्स ब्यूरो नौगांवा सादात। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाये जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत जर्जर सड़क को बनवाये जाने की मांग की है। शुक्रवार को कासम सराय के ग्रामीणों ने धनौरा फीना मार्ग से लिंक रोड पाखराबाद से पारा खालसा अहरौला माफी होते हुए कासमा सराय तक जाने वाला रोड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 2017 में मरम्मत कार्य करवाया गया था। लेकिन इस मार्ग में गड्ढे हो चुके है। यह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन भेजने वालों में चंद्रशेखर, खेड़ा सिंह, कुलदीप सिंह, राजकुमार, सतवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुखवीर सिंह, टेकचंद, लाखन सिंह, विजयपाल सिंह, प्रदीप कुमार, अंचल कुमार, बाबू खां, जबर सिंह, अंचल कुमार आदि मौजूद थे।

चालक की हत्या में मजदूर को उम्रकैद

शराब के नशे में गाली देने के विवाद पर कर दी थी हत्या

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। ट्रैक्टर चालक की हत्या में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि उस पर एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

वारदात गजरौला थाना क्षेत्र के गांव गुलालपुर में वर्मा फार्म हाउस पर अंजाम दी गई थी। बुलंदशहर जिले के स्याना थाना क्षेत्र के गांव घंसूरपुर निवासी मोनू किराए पर ट्रैक्टर चलाता था। मोनू ने नोएडा के गांव कामबक्शपुर में रहने वाले नरेंद्र कुमार के साथ गजरौला क्षेत्र में गंगा किनारे गुलालपुर स्थित वर्मा फार्म हाउस ठेके पर ले रखा था। जिसमें गांव तिमारपुर के दिनेश प्रधान व गणपत गुर्जर भी साझेदार थे। 25 अप्रैल 2019 को मोनू फार्म हाउस में गेहूं की कटाई के लिए आया था। वहीं, दिनेश प्रधान और गणपत भी अपने गांव के कुछ मजदूरों को लेकर फार्म हाउस आए थे। इन मजदूरों में गांव तिमारपुर का रहने वाला योगेंद्र फौजी भी था। हत्याकांड वाले दिन योगेंद्र फौजी ने सुबह से ही शराब पी रखी थी और बेवजह लोगों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। मोनू ने जब इसका विरोध किया तो वह मारपीट करने लगा। साथी मजदूरों ने योगेश फौजी को समझाकर अलग भेज दिया। मामूली कहासुनी के बाद मोनू फार्म हाउस परिसर में ही एक जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर सो गया। दोपहर में नरेंद्र प्रधान, गणपत व अन्य लोग खाना बना रहे थे। उसी दौरान योगेंद्र फौजी ने कुल्हाड़ी से मोनू की गर्दन पर वार कर दिए थे। शोर मचाने पर योगेंद्र फौजी वहां से भाग गया था। नरेंद्र व गणपत ने खेत में काम कर रहे मजदूरों की मदद से घायल मोनू को गाड़ी से गढ़मुक्तेश्वर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन घटनास्थल गजरौला थाना क्षेत्र का था। लिहाजा, मामले में गजरौला पुलिस ने मृतक मोनू के तहेरे भाई प्रेमपाल की तहरीर पर योगेंद्र फौजी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल योगेंद्र फौजी जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत में मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन किया। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि योगेंद्र फौजी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

देहरादून में डूबे प्रीतम व पुष्पेन्द्र के शव बरामद

हथिनी कुंड बैराज के पास मिले शव

शाह टाइम्स संवाददाता

रहरा। देहरादून में नदी से बजरपुर निकालते समय पानी के तेज बहाव में बहे दोनों मजदूरों के शव बरामद हो गये है। पोस्टमार्टम होने के बाद युवकों के शवों को गांव लाया जा रहा है उत्तराखंड के देहरादून में रहरा थाना क्षेत्र से 11 मजदूर रक्षाबंधन से दो दिन बाद बजे वाला गांव गये थे। वह यहां नदी से बजरपुर निकालने का काम कर रहे थे। काम के दौरान तीन मजदूर नदी में बह गये। इन तीनों में रहरा के पुष्पेंद्र, पीतम और पंकज शामिल थे। पकंज का शव बरामद हो गया था। मजदूरी करते समय पानी के तेज बहाव में डूबा पंकज 27 वर्षीय का शव परि. जनों के मुताबिक 60 किलोमीटर दूर मिला था। पंकज की शादी 2 साल पहले बिहार से हुई थी। नदी के बहाव में डूबे पीतम पुत्र गंगावासी का शव सहारनपुर के हथिनी कुंड बैराज व पुष्पेंद्र का शव सहारनपुर के करीब से बरामद हो गया है। पीतम पुष्पेंद्र के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद पीतम के शव को गांव लाया जा रहा है।

शार्ट सर्किट से मोबिल ऑयल की दुकान में लगी आग, 50 लाख का सामान राख

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। एक मोबिल ऑयल की दुकान में आग लगने से पचास लाख से अधिक के नुकसान का अंदेशा है। आग बुझाने के प्रयास में दुकान स्वामी भी झुलस गया। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशमन विभाग की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दूर दूर तक आग की लपटें और धुंआ उठता दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौका मुआयना किया।

जानकारी के अनुसार नगर के बस्ती स्थित स्व.रमाशंकर कौशिक स्मृति पार्क (अवंतिका पार्क)के सामने सोनू चौधरी की मोबिल ऑयल की दुकान है। दुकान के पीछे ही उनका मकान है। बीती रात आठ बजे वह दुकान बंद कर घर में चले गए थे। गुरुवार रात लगभग दो बजे दुकान में आग लग गई। आग लगते देखकर वे बाहर आए और उन्होंने अग्निशमन विभाग को घटना को सूचना दी। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। आग बुझाने के प्रयास में दुकान स्वामी सोनू चौधरी स्वयं भी झुलस गए। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशमन विभाग की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग ने दुकान का सारा सामान जलाकर राख कर दिया। सोनू चौधरी के अनुसार अग्निकांड में पचास लाख का नुकसान हुआ था। आग के कारण के पीछे उन्होंने बताया कि शार्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। सीएफओ अनिल कुमार ने बताया कि शार्ट सर्किट की वजह से आगे लगने की जानकारी मिली है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

■ अमरोहा। पालिका बोर्ड की बैठक को संबोधित करते अधिशासी अधिकारी डा. ब्रजेश कुमार।

शहर को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प

पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 02 अक्टूबर तक प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा-2025 पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है।

नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को सफाई के बेहतर तरीको की जानकारी, पालिका द्वारा नगरीय सफाई व्यवस्था मे किये जा रहे नये तथा बेहतर और उन्नत प्रयासों, कार्यों से जोड़ा जा रहा है। ये कार्यक्रम सम्पूर्ण देश मे इस पखवाड़े मे मनाये जायेंगे। नगर पालिका परिषद ने इस अति महत्वपूर्ण आयोजन को पालिका बोर्ड बैठक संकल्प /प्रस्ताव पास कर प्रत्येक वर्ष 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक पूरे हर्षोल्लास एवं भव्य तरीके से आयोजित किये जाने का संकल्प लिया गया। जिसके लिए इस प्रस्ताव/संकल्प को बाकायदा बोर्ड की कार्यवाही मे सम्मिलित किया गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया की ऐसा प्रस्ताव पास करने वाली प्रदेश मे एकमात्र निकाय नगर पालिका परिषद अमरोहा बनी है। बैठक मे पालिका अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सभासद, पालिका अधिकारियो व कर्मचारियों को स्वछता की शपथ दिलाई गयी। बैठक में सभासद फहीम शाहनवाज आदि मौजूद रहे।

सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बायकाट किया

शाह टाइम्स संवाददाता अमरोहा। पालिका के 11 सभासदों ने बोर्ड की बैठक का समय न बदलने के विरोध में बायकाट किया। नगर पालिका के 11 सभासदों ने अधिशासी अधिकारी डा. ब्रजेश कुमार को ज्ञापन देकर कहा था कि बोर्ड की बैठक शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के समय रखी गयी है। बैठक का समय बदला जाये। परन्तु बोर्ड की बैठक अपने निर्धारित समय पर हुई। परन्तु 11 सभासदों ने पालिका पर मनमानी का आरोप लगाते बोर्ड की बैठक का बायकाट किया। बायकाट करने वालों में सभासद रूबी, आमिर आफताब, शमीम उद्दीन, मुरसलीन मंसूरी, यासिर अंसारी, श्रीमति आसमा, जुबैर सैफी, अंसार मलिक, सलमान, शमशेर व मौहम्मद शहजाद शामिल हैं।

सर्पदंश से बीडीसी सदस्य की पत्नी की मौत

खेत में काम करते समय अचानक डसा

शाह टाइम्स संवाददाता

मंडी धनौरा। खेत में काम कर रही बीडीसी सदस्य की पत्नी को अचानक सांप ने डस लिया। उपचार के अभाव में कुछ ही समय बाद महिला की मौत हो गई। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

गांव निवासी बाबू सैनी की पत्नी वीरवती (48 वर्ष) सुबह अपने खेत पर काम कर रही थीं। बताया गया कि घास काटते समय झाड़ियों में छिपे जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। चीख सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और तुरंत परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में उन्हें घर लाया गया, लेकिन तब तक हालत बिगड़ चुकी थी। परिजन महिला को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी सांसें थम गईं। मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में जहरीले सांपों के बढ़ते आतंक पर ध्यान दिया जाए और समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गांव के लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में खेतों और कच्चे घरों में सांपों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार और एंटी-स्नेक वैक्सीन तक आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती।

धूमधाम से निकाली शिव की भव्य बारात

शाह टाइम्स संवाददाता

मंडी धनौरा। शुक्रवार को नगर की गलियां भक्ति और उत्साह से गूंज उठीं, जब रामलीला प्रबंध समिति मंदिर महादेव के तत्वावधान में भगवान शिव की बारात बड़े ही धूमधाम और शोभा के साथ निकाली गई। इस दौरान शिवजी की झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बारात का शुभारंभ गढ़ी मंदिर धर्मशाला से हुआ, जहां पालिकाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। जैसे ही शिव बारात नगर के प्रमुख मार्गों पुराना स्टेट बैंक चौराहा, अग्रसेन बाजार, हरदेव बाजार, कंचन बाजार से होती हुई रामलीला मैदान की ओर बढ़ी, जगह-जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। नंदी पर सवार शिवजी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद व अन्य देव रूपी झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चों और बुजुर्गों में विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरा नगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रामलीला मैदान पहुंचने के बाद

आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान समिति अध्यक्ष जागेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अवनीश अग्रवाल, सचिव पवन गुप्ता, समाजसे. ‍वी राजू बादशाह, विमल प्रकाश, वीरेंद्र शर्मा, अक्षय अग्रवाल, पंकज सिंघल, ओंकार गर्ग, सुनील प्रजापति, शंकर सैनी, सुमित अग्रवाल, अमरजीत कोहली, सचिन अग्रवाल समेत नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं का कहना था कि ऐसे आयोजन नगर के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं और पीढ़ियों को अपनी परंपराओं से जोड़े रखते हैं

बदमाशों ने बाइक व 43 हजार की नकदी लूटी

गंगा एक्सप्रेस के समीप दिया लूट की वारदात को अंजाम

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। बाइक से मां को मामा के घर छोड़कर आ रहे युवक से बदमाशों ने मोबाइल व 43000 रुपये की नगदी को लूट लिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना गजरौला क्षेत्र के गांव बिडला निवासी भारत पुत्र सतपाल सिंह गुरुवार की शाम अपनी मां श्रीमती देवेंद्री को अपने मामा के घर ग्राम क्रियावली थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर से छोड़कर गंगा तट बांध के रास्ते बाइक से अपने लौट रहा था। गांव सिरसा गुर्जर गंगा एक्सप्रेसवे के समीप मोटर साइकिल रोड पर खड़ी करके तीन बदमाश बियर पी रहे थे। तीनों बदमाशों ने भारत को रोक लिया तथा उससे मोबाइल व उसकी जेब में रखी 43000 की नगदी को लूट लिया। उसके बाद बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए मौके तो फरार हो गये। जैसे तैसे कर पीड़ित कोतवाली पहुंचा तथा पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने अपना पुराना खेल खेलते हुए मोबा. इल व 43000 छीनने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मानसिक तनाव से बचने के उपाए बताए

शाह टाइम्स ब्यूरो रजबपुर। जीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन में शुक्रवार को छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज निदेशक डॉ. हरीश कुमार और ग्रुप अध्यक्ष शाहनवाज अली ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान निदेशक डॉ. हरीश कुमार ने कहा कि आज का दौर अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है, जिसमें सबसे अधिक दबाव छात्र झेलते हैं। परीक्षा परिणाम करियर की असुरक्षा और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव का बड़ा कारण है। ग्रुप अध्यक्ष शहनवाज अली ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है। जितना शारीरिक स्वास्थ्य। यदि मन स्वस्थ रहेगा तो हर परिस्थिति का सामना सहजता से किया जा सकता है। इस मौके पर डॉ. संतोष चौधरी, डॉ. जफर अली, डॉ. साहिल चौधरी, अनीस अहमद, राखी, मनस्वी, सचिन, आदिल, मोनू वशिष्ठ, सागर और अजीत सहित कई सदस्यों का विशेष योगदान रहा

भाकियू ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। बिजली विभाग द्वारा किसान नेता के खिलाफ तहरीर दिये जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर ने भी बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनता को परेशान करने वाले बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी के खिलाफ विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने एकजुट होकर गुरुवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बिजली कर्मचारियों को धमकाये जाने गलत काम करवाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की थी। शुक्रवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गये। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं व महिलाओं के साथ अभ्रदता की गई है। हमने बिजली विभाग द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों को उजागर किया है। कहा कि पीड़ित एफिडेविट के साथ बिजली कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दे रहे है। उनकी भी रिपोर्ट दर्ज की जाये। यदि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की तो किसान ट्रैक्टर ट्रालियों से कोतवाली को भर देंगे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये। इस मौके पर अनिल, जयपाल सिंह, सुनील, देवेंद्र, राजेश, टीकम, राजवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मेवा सिंह, जगपाल, विजयपाल, आनंद, कुलदीप आदि मौजूद थे

छेड़छाड़ में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट

शाह टाइम्स संवाददाता हसनपुर। विवाहिता को धमकाकर जबरदस्ती उसके मोबाइल पर फोन पर दबाव बनाये जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुक. दमा दर्ज कर लिया है। थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव तरारा निवासी एक विवाहिता का पड़ोसी गांव तरारा ऊपर वाला का अशोक पुत्र हेम. राज पीछा करता था। उसके मोबाइल पर फोन लगाकर जबरदस्ती दबाव बनाता था। मना करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। 17 सितंबर को जब विवाहिता घर पर अकेली थी। तब अशोक घर के भीतर घुस आया तथा जबरदस्ती उसे बुरी नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। विवाहिता द्वारा जब शोर मचाया गया तो आरोपी जान से जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने महिला की तहरीर पर अशोक पुत्र हेमराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रामलीला के लिए भूमि पूजन

शाह टाइम्स ब्यूरो

जोया। कस्बे में रामलीला मैदान में 22 सितंबर से शुरू होने वाले रामलीला मंचन के लिए कमेटी के पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया 26 सितंवर को निकलने वाली राम बारात में बाहुबली हनुमान राम बारात में आकर्षण का केंद्र होंगे। शुक्रवार को इकोदा रोड पर स्थित रामलीला मैदान पर चमुंडा मन्दिर के पुजारी विजय तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कराया धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मयंक कुमार मोनू ने बताया की 22 सितंबर से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा 26 सितंबर को कस्बे के विभिन्न मार्गों से राम बारात निकाली जायगी रामबारात में 12 फिट के बाहुबली हनुमान के अलावा विभिन्न आकर्षक झांकिया शामिल होगी 3 सितंबर को रावण दहन किया जायगा इस मौके पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष मयंक कुमार मोनू विजय पांडेय सुभाष गुप्ता चन्द्रभान तोमर राजू चौधरी सिद्धार्थ पांडेय विपिन गुप्ता मोहन सिंह तोमर अनिल त्यागी महेश गुप्ता आशुतोष उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह संजीव तोमर बबलू गुप्ता गुड्डू गुप्ता आदि मौजूद रहे।

बीझलपुर में विधायक ने किया रामलीला का उद्घाटन

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बीझलपुर में रामलीला का उद्घाटन विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने फीता काटकर कर दिया।

बीती रात विधायक खड़गवंशी ने रामलीला का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि रामलीला हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। जो हमें भगवान राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों से जोड़ती है। उन्होंने आयोजकों और ग्रामवासियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी युवा पीढ़ी को हमारी परंपराओं से परिचित कराते हैं और उन्हें संस्कारवान बनाते हैं। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जिनमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल, आदमपुर मंडल अध्यक्ष राजीव गोयल, उझारी मंडल अध्यक्ष कल्याण सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हेमराज सैनी और संजय शर्मा शामिल थे। इनके अलावा, मंडल महामंत्री संजय राणा, मंडल मंत्री नंदन खड़गवंशी, अंकित सागर, यादराम चौकीदार, कमेटी अध्यक्ष प्रवेश कुमार अग्रवाल, डॉ. जितेंद्र, ग्राम प्रधान नौशाद, जयपाल डीलर, नेपाल मुंशी, तुषार अग्रवाल, विनय अग्रवाल, वासुदेव, कुमरपाल, श्योराज सिंह और बंटी राणा भी उपस्थित रहे

रामलीला के लिए हुआ भूमि पूजन

गजरौला। शुक्रवार की शाम श्री रामलीला समिति रेलवे स्टेशन गजरौला के पदाधिकारियों द्वारा ध्वज पूजन कर रामलीला के मंचन के लिए भूमि पूजन किया गया। रामलीला का मंचन 21 सितम्बर से प्रारंभ होकर 03 सितम्बर तक होगा। जिसके लिये समिति के पदाधिकारियों द्वारा सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। समिति के अध्यक्ष मनोज गर्ग ने कहा कि सभी नगर वासियों के सहयोग से रामलीला का मंचन इस बार भी भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रबंधक पूर्व सांसद प्रतिनिधि कुलवंत सिंह, नवीन अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टरएलसी गहलोत, उपाध्यक्ष प्रदीप चौहान, महामंत्री सोनू कश्यप, एडवोकेट मनमोहन सिंह सेन , मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा , कोषाध्यक्ष बबलू रस्तोगी, विपिन वर्मा, दीपक गुप्ता, कुलदीप कश्यप, प्रीतम सिंह चौहान, मनी सिंह, संजय कुमार, पंडित हर तिवारी, अंकित कुमार, राजू कुमार, मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे।

लवी सागर बने जाटव सभा के अध्यक्ष

शाह टाइम्स संवाददाता हसनपुर। जाटव सभा हसनपुर का लवी सागर को सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। नवनियुक्त कार्य कारिणी का स्वागत किया गया। शुक्रवार को दिनेश गौतम की एजेंसी पर जाटव सभा की मीटिंग सम्पन्न हुई। जिसमें सर्व समाज की सम्मति से लवी सागर को जाटव सभा के अध्यक्ष चुन लिया गया। मोनू जिद्दी पंकज कुमार को कार्यकारिणी अध्यक्ष दिनेश गौतम को कोषाध्यक्ष अजब सिंह एडवोकेट को महामन्त्री अमित हाली को महासचिव, दिनेश जाटव सुशील भगत जी मुकुल जाटव प्रेम लाला को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इस मौक पर अरविन्द कुमार अन्ना, चंचल सागर, बदन सिंह गौतम, विजेंद्र डीलर, हरस्वरूप डीलर, संस्थापक अतर सिंह नेता. जी, अंबेडकर उद्यान समिति के अध्यक्ष विजय गौतम, पिंटू जाटव, गुडडू नेता जी, फतेहचंद, पवन राज, पवन जाटव समेत जाटव समाज के लोग मौजूद रहे।

महिला संबंधी अपराधों में शत प्रतिशत सजा कराएं

शाह टाइम्स ब्यूरो, अमरोहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद की उपस्थिति में अभियोजन कार्यो एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान डीएम द्वारा समस्त अभियोजकों को अधिक से अधिक मामलों में सजा कराने, विशेष तौर पर महिलाओं से संबंधित अपराधों व पास्को एक्ट से संबंधित मामलों में शत-प्रतिशत सजा कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया। डीएम ने कहा कि गंभीर धाराओं में वांछित अपराधियों को कतई बख्शा न जाए कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, एएसपी अखिलेश भदौरिया, उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारीगण सहित थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।

प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का संकल्प

आईएम इंटर कालेज में हुआ कार्यक्रम

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत प्रथम सत्र में आईएम कॉलेज के सभा कक्ष में प्रधानाचार्य डॉ जमशेद कमाल की उपस्थिति में शिक्षकों छात्रों के सुझाव प्राप्त के लिए विचार-विमर्श एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शुक्रवार को प्रधानाचार्य डा. जमशेद कमाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 पीएम मोदी की एक दूरदर्शी पहल है। जिसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने सुशासन, नारी शक्ति को प्रबल बनाने, सभी को समान अवसर प्रदान करने और एक समर्थ एवं विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण मुहिम प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की महती भूमिका होगी। आने वाले

समय की बागडोर हमारी युवा पीढ़ी के हाथों में होगी। मौके पर उपस्थित प्रधानाचार्य, शिक्षकों, छात्रों ने शपथ ली। इस मौके पर सतीश शर्मा, अनवर नकवी, इरफान बाकरी, मुजाहिद अब्बास नकव्वी, आफताब हसनैन आदि शिक्षक रहे। संच. ालन मोहम्मद हुसैन ने किया।

बुखार की चपेट में आकर युवक की मौत

शाह टाइम्स संवाददाता हसनपुर। ब्लॉक क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द में 19 वर्षीय धर्मेंद्र की मेरठ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वह पिछले तीन दिनों से बुखार से पीड़ित था। गुरुवार शाम को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उसे मेरठ ले गये। जहां शुक्रवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया। धर्मेंद्र अपने दो भाईयों में सबसे बड़ा था। और नगर में एक सर्राफा की दुकान पर काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। परिजनों के अनुसार उसकी शादी दो महीने बाद ही पास के एक गाँव में तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों के बीच इस दुखद खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया है। शुक्रवार दोपहर को गमगीन माहौल में परिजनों ने गंगा घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की आकस्मिक मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर है।

डीआईओएस के आश्वासन पर भाकियू का धरना समाप्त

पूर्व प्रधानाचार्य के घोटालों की जांच की मांग

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। आदर्श इंटर कॉलेज कुटी दौलतपुर में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन इंडिया के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा की गई कथित अनियमित्ताओं के विरोध में आयोजित किया गया था। जिसमें वित्तीय गड़बड़ी और कॉलेज प्रशासन में मनमानी शामिल थी। धरने की सूचना पाकर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवेश कुमार यादव मौके पर पहुंच गये। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उठाये गये सभी

मुद्दों का समाधान अगले दो से तीन दिनों के भीतर कर दिया जायेगा। डीआईओएस ने इस मामले में तत्काल जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। घ्जिला विद्यालय निरीक्षक के इस ठोस आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारियों ने धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगर तय समय-सीमा के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन इंडिया के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें लो. केश विधूड़ी, दिमाक सिंह, श्याम सिंह चौधरी, रमेश सिंह, मलखान सिंह, संजय कुमार, किरन पाल सिंह, वीर सिंह, सौदान सिंह, सुदेश रामपाल सिंह, अरविंद ब्रह्मचारी और अमित कुमार शामिल थे। इन सभी नेताओं ने कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और छात्रों तथा अभिभावकों के हितों की रक्षा करने की मांग की है।

चारपाई पर सो रही मौसी व भांजे को सांप ने डसा

गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। एक चारपाई पर सो रही महिला व उसकी भांजी को सांप ने डस लिया। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने हॉयर सेंटर रेफर किया है। तहसील क्षेत्र के गाँव लठीरा माफी में एक दुखद घटना सामने आई है। जहाँ गुरुवार रात छत पर सो रहे दो लोगों को साँप ने डस लिया। 22 वर्षीय सीमा निवासी लठीरा माफी और उनके 13 वर्षीय भांजे नवनीत, जो गढ़मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। परिजन के अनुसार, सीमा और नवनीत रात में एक चारपाई पर सो रहे थे। तभी एक जहरीले साँप ने उन्हें काट लिया। घटना के तुरंत बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें लेकर तुरंत हसनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गये। केंद्र में मौजूद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. ध्रुवेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन दोनों पीड़ितों को गंभीर हालत में लेकर आए थे और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। इसलिए बिना देरी किए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल भेजा गया है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन सीमा की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है।

मस्जिद के बाहर से बाइक चोरी

शाह टाइम्स ब्यूरो जोया। थाना रजबपुर क्षेत्र के हैबतपुर गांव निवासी जहीर आलम की बाइक मंगलवार को मस्जिद के बाहर से चोरी हो गई। जहीर आलम ने बताया कि वे कस्वा जोया के मुहल्ला खेड़ा स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने मस्जिद के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर दी थीद्य लेकिन नमाज पढ़कर लौटने पर देखा कि उनकी बाइक गायब है।

युवती से छेड़छाड़ में युवक पर रिपोर्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो जोया। डिडौली थाना क्षेत्र के एक निवासी युवती ने अमरोहा निवासी युवक पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसकी जान-पहचान अमरोहा निवासी नजर राजा नकवी नामक युवक से मोबाइल नंबर के जरिए हुई थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। पीड़िता के अनुसार गुरुवार को देर शाम युवक ने उसे बुलाया। जब वह गांव के बाहर पहुंची तो युवक ने जबरन पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर युवक ने धमकी दी कि यदि उसने इस घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसे जान से मार देगा। किसी तरह खुद को छुड़ाकर युवती घर पहुंची और घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद वह अपनी मां के साथ थाने पहुंची और तहरीर दी,पुलिस ने युवती की तहरीर पर अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी नजर रजा नकवी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

अपना ही नुकसान करता है क्रोध: गिरि

श्री राम कथा का श्रवण करने उमड़ रहे भक्त

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। जीवन दीप सत्संग मंडल अमरोहा के तत्वावधान में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरि के श्री मुख से हो रही श्री राम कथा का श्रवण करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को जेएस हिन्दू इंटर कॉलेज में आयोजित श्री राम कथा में कथावाचक ने प्रभु राम जी का विश्वामित्र के पास जाना, ताड़का मारीच सुबाहू का वध, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, राम जी क वन गमन आदि प्रसंगों को भावपूर्ण शैली में श्रवण कराया। इस अवसर पर भक्त जनों ने झूम-झूम कर आनंद लिया। कथा को सुनाते हुए कहा की परमात्मा चाहिए तो हमें अनुभव करना चाहिए, कथा को संत ही क्रोध को शंकर ही शांत कर सकता है। विश्वामित्र मन में विचार आया कि क्यों न जन जन तक पहुंचाया जाए। जन जन की कोष की सुख-दुख को पहचाने ऐसा राम चाहिए, उन्होंने कहा कि विश्वामित्र कोई साधारण संत नहीं इसलिए उन्होंने राम उन्होंने राम को शत्रुओं को समाप्त करने के लिए आगे किया है। शत्रुओं का नाश करना है, 18 दिन के भीषण युद्ध में रावण मारा गया जो जगत को दुख देने वाला था। श्री गुरु जी ने कथा में बताया कि रावण पैदा ही करने को हुआ क्रोध को शांत रखने के लिए क्रोध अपना ही नाश करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि क्रोध जब आए तो स्थान बदल लें, गुस्सा शांत होता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुरादाबाद नगर के विधायक रितेश गुप्ता, शिक्षक विधायक डॉ.हरि सिंह ढिल्लों, गन्ना समिति के अध्यक्ष कमल चौधरी, नगर पालिका की अध्यक्ष शशि जैन, चंद्रपाल खड़कवंशी, ब्लॉक प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों, सुरेश कुमार विरमानी, शिशुपाल सिंह चौहान, कुलदीप वर्मा, मीनाक्षी वर्मा, सुरेश कुमार विरवानी, राजकुमार करनवाल, रजनी करनवाल, रमेश कलाल, राकेश शर्मा, राहुल चौहान, दिनेश चौहान राहुल चौहान, सिद्धार्थ अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

आवश्यकता है

बी0ए0(सभी विषय),बी0एड, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0काम0, बी0एस-सी गृह विज्ञान, बी0एस-सी (PCM/ZBC) एम0ए0(सभी विषय), एम0एड0, एम0काम0, एम0एस-सी गृह विज्ञान, एम0एस-सी (PCM/ZBC) योग्यता एवं वेतन यू.जी.सी. मानकानुसार। योग्य अभ्यर्थी 21 दिन के भीतर बायोडाटा सभी प्रमाण पत्रों एवं पेनकार्ड, आधार व 4 फोटो सहित आवेदन करें

हाशमी एजुकेशनल ग्रुप

सम्बद्ध- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

बिजनौर रोड, अमरोहा (उ0प्र0)

collegehashmi@gmail.com

05922-260755, 9917285040

सुभासपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग

एमआईएम ने एसपी को ज्ञापन सौंपा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के कार्यकर्ताओं ने सुभासपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सभी लोग एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष पर की जा रही टिप्पणियों से खफा हैं और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इन दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। प्रदेश मुख्य महासचिव शमीम अहमद तुर्क एडवोकेट और जिलाध्यक्ष साजिद अली चौधरी की अगुवाई में शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम पुलिस कार्यालय पहुंचा। यहां एसपी अमित कुमार आनंद से मुलाकात कर पार्टी पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभद्र टिप्पणियां कर रहे। उन्हें जान से

मारने की धमकी दे रहे। बलिया में सुभासपा नेता ने हाजी शौकत अली की जीभ काटने वाले को ग्यारह लाख रुपए और पीयूष मिश्रा ने जूता मारने वाले को इक्यावन हजार एक सौ ग्यारह देने का ऐलान किया है। जिससे एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं भारी रोष है। इस दौरान एससी/एसटी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉ टीपी सिंह, इरफान सिद्दीकी, जाने आलम, महताब शेख, आदिल अंसारी, नईम मंसूरी, निजाम नश्तर, साहिल सलमानी, हारून सैफी, डॉ फारूख अली, उस्मान सलमानी, जीशान मंसूरी, मुरसलीन सैफी, इरामुद्दीन सैफी, रजा अली, सुहेल अंसारी, खालिद मंसूरी, शुऐब खान, सद्दाम चौधरी, तलहा सैफी, इसरार सैफी, दिलशाद अली, फहीम अहमद, अल्ताफ अंसारी, छुन्नन शाह, सलीम सैफी, राशिद अली, मोहम्मद चांद, अफजल सैफी आदि मौजूद रहे।

सफेद हाथी साबित हो रहे हैं क्षेत्र में बने प्रसव केंद्र

शाह टाइम्स संवाददाता

वजीरगंज। विकासखंड क्षेत्र वजी. रगंज के गांवो में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ता एवं सुलभ उपचार के लिए गांव-गांव बनाए गए प्रसव केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की मनमानी की वजह से जहां गांवो के लोग सस्ती एवं जल्द मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा से वंचित है गांव गांव बनाए गए यह स्वास्थ्य उप केंद्र ग्रामीणों के लिए सफेद हाथी के समान प्रतीत हो रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर सरकार द्वारा बनाए गए इन प्रसब स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को जब गांव-गांव बनाया गया तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में सरकार द्वारा मिलने वाली निशुल्क स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए बहुत ही प्रसन्नता हुई शुरुआत में इन उप स्वास्थ्य केदो पर महिला पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई जिससे कुछ समय के लिए ग्रामीणों को लाभ पहुंचा लेकिन धीरे-धीरे यह व्यवस्था भी चरमरा गई महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों का रुख धीरे-धीरे इन इन उप स्वास्थ्य केन्द्रो से मन भंग होने लगा इसी का परिणाम है कि आज गांव में बने यह उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लग चुके हैं गांव गांव भाजपा पदाधिकारी की लंबी फौज होने के बावजूद भी इस और ना तो अधिकारियों का ध्यान है और ना ही सरकार की उपलब्धि गिरने वाले नेताओं की।

नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर एक माँ

शाह टाइम्स संवाददाता

उघैती। उघैती एक मां अपनी नाबा. लिग बेटी की बरामदगी के लिए प्रयासरत है। स्थानीय पुलिस से लेकर एसएसपी तक शिकायत करने के बाद अब उसने मुख्यमंत्री को फैक्स भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है।पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव का अजय उर्फ गौरव पुत्र नरेंद्र, अपने बहनोई अवनीश पुत्र छोटे (निवासी अल्लापुर, थाना इस्लामनगर) और राहुल की मदद से उसकी नाबालिग बेटी को चंडीगढ़ से बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़िता ने पहले चंडीगढ़ के राजपुरा थाने में शिकायत की थी, लेकिन वहां की पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। इसके बाद, पीड़िता ने उघैती थाने में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और बेटी की बरामदगी की मांग की।

हालांकि, आरोप है कि थाना पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसएसपी बदायूं को शिकायत पत्र भेजा और मुख्यमंत्री को फैक्स के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई।पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि दो दिन पहले जब उसने आरोपियों से बेटी के बारे में पूछा, तो वे बौखला गए। उन्होंने पीड़िता के पति के साथ मारपीट की, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से इस मामले में भी कार्रवाई करने की अपील की है। इस संबंध में उघैती थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संज्ञान में आते ही मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आरोपी युवक अजय उर्फ गौरव की शादी एक वर्ष पूर्व बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।

बिल्सी में होगा संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

शाह टाइम्स ब्यूरो

बदायूं। जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार को तहसील बिल्सी में जिलाधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।

सीएचसी पर जन्में बच्चों को दिए गिफ्ट

आई एम खान, शाह टाइम्स

बिसौली। जायंट्स ग्रुप ऑफ बिसौली रॉयल्स द्वारा जायंट्स सेवा सप्ताह के तीसरे दिन बेटियों की सुरक्षा उनकी महत्ता दर्शाने हेतु सीएचसी बिसौली पर नवजात बच्चियों को प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं वस्त्र, निपल, डाइपर, बिस्कुट एवं फल आदि देकर सम्मानित किया गया।साथ ही ग्रुप की उपाध्यक्ष पिंकी द्वारा प्रत्येक बच्ची के माता-पिता उसके परिजनों को बेटी के महत्व को समझाया गया। पिंकी वार्ष्णेय ने बताया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से काम नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियां अपनी योग्यता दर्शा रही हैं और बढ़ चढ़कर नाम कमा रही है। इसलिए बेटियों के जन्म लेने पर उदास बिल्कुल ना हो बल्कि गर्व से कहे कि हमारे घर बेटी आई है हमारे घर की शान आई है। इस अवसर पर डा. सुविधा माहेश्वरी, डा. शिवानी वार्ष्णेय, ग्रुप के अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेय, पिंकी वार्ष्णेय, साक्षी वार्ष्णेय, अंजलि वार्ष्णेय, महेश वार्ष्णेय आदि उपस्थित रहे।

पीजी छात्रों के लिए अब अनिवार्य होगा डिजिटल लॉगबुक

शाह टाइम्स ब्यूरो

बदायूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज (G M C) बदायूँ और Dr E &LogBook के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (M o U) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत अब कॉलेज के स्नातकोत्तर (Post Graduate) छात्रों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (N M C) की गाइडलाइन के अनुसार अपना डिजिटल लॉगबुक (Dr E & LogBook) प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेंटेन करना होगा। प्राचार्य का वक्तव्य कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार ने कहा: "राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ सदैव यह प्रयास करता है कि हमारे छात्र नवीनतम तकनीक और उच्चतम शैक्षणिक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डिजिटल लॉगबुक को अनिवार्य किया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गहन अध्ययन और समीक्षा के बाद क्त म-स्वहठववा को लागू करने का निर्णय लिया। यह पहल हमारे संस्थान को पेप. रलेस, अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगी। मुझे विश्वास है कि यह व्यवस्था छात्रों के संपूर्ण शैक्षणिक व क्लिनिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित व व्यवस्थित रखने में एक मील का पत्थर साबित होगी।" Dr E&LogBook के मुख्य लाभ N M C & अनुपालन (NMC&Compliant): एनएमसी द्वारा निर्धारित सभी मानकों के अनुरूप। लाइव ट्रैकिंग (Live Tracking): वास्तविक समय पर निगरानी। आसान पहुँच (W eb o Mobile): कहीं भी, कभी भी उपयोग। पेपरलेस प्रबंधन: कागजी लॉगबुक की आवश्यकता समाप्त। ऑनलाइन मूल्यांकन सुविधा: संकाय को प्रगति ट्रैक करने में सहूलियत। सुरक्षित प्लेटफॉर्म: डेटा का संपूर्ण संरक्षण। पूरी पीजी यात्रा का रिकॉर्ड: क्ंल-1 से सभी गतिविधियों का डिजिटल संग्रह। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम Dr E & LogBook को डमक Techpro Solutions ने विकसित किया है, जिसका नेतृत्व सुरज उपाध्याय (IITian) कर रहे हैं। यह पहल मेडिकल शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है और भविष्य में देशभर के मेडिकल संस्थानों

डीएम ने अमृत सरोवर व पुलिया का किया निरीक्षण

शाह टाइम्स ब्यूरो

बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों के साथ दातागंज में अमृत सरोवर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्तापरक कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

डीएम ने अधिकारियों के साथ पुलिया का भी निरीक्षण किया। अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद दातागंज ने बताया कि अमृत सरोवर कार्य के लिए सीएनडीएस को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। अमृत सरोवर का इस कार्य की लागत 3.50 करोड रुपए है। एरिया लगभग 5 एकड़ है, इसमें पानी के शुद्धिकरण के लिए फिल्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन

आतिफ निसार जैनू, शाह टाइम्स

सहसवान। सहसवान तहसील परिसर में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अभ्यास का उद्देश्य कर्मचारियों को अग्निकांड जैसी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए जागरूक करना तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण देना था कार्यक्रम एसडीएम साई आश्रित शाखमुरी के नेतृत्व में हुआ उनके साथ अग्निशमन प्रभारी पीएल सोलंकी ने अपनी टीम के अभ्यास के दौरान प्रायोगिक रूप से आग लगाकर आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले आवश्यक उपायों का प्रदर्शन किया गया इसमें आग बुझाने की तकनीक सुरक्षित निकासी और प्राथमिक उपचार जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल रही मॉक ड्रिल में कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया उन्होंने न केवल अग्निशमन उपकरणों को प्रत्यक्ष रूप से देखा बल्कि उनसे संबंधित तकनीकी जानकारी भी प्राप्त की और सवाल पूछे इस अवसर पर अग्निशमन पीएल सोलंकी प्रभारी ने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल से न केवल जागरूकता बढ़ती है बल्कि आपदा की स्थिति में घबराने की बजाय सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है इस मौके पर एसडीएम साई आश्रित शाखमुरी, सीओ कर्मवीर सिंह, थाना प्रभारी राजेंद्र बहादुर सिंह, तहसीलदार यदि समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

21 सितंबर को होगा रक्तदान शिविर का आयोजन

आई एम खान, शाह टाइम्स

बिसौली। गायत्री परिवार द्वारा 21 सितंबर रविवार को बिल्सी रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। गायत्री परिवार की टीम द्वारा डोर टू डोर जाकर नगर वासियों से इस रक्तदान शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उक्त जानकारी देते हुए गायत्री शक्तिपीठ बिसौली के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी सुखवीर सिंह भदौरिया ष्पूर्व सैनिकष ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ बिसौली में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के 99 वें जन्म दिवस एवं अखंड दीप के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में 20 सितंबर को सर्व देव पूजन एवं सामूहिक अखंड गायत्री जाप सुबह 5:00 बजे एवं विराट दीप यज्ञ के साथ पूर्णाहुति सायं 5:00 बजे। रविवार 21 सितंबर को प्रतिपक्ष समापन के उपलक्ष में तर्पण एवं पिंडदान प्रात: 7:00 बजे एवं गायत्री यज्ञ प्रात: 8:00 बजे संपन्न होगा। श्री भदौरिया ने बताया कि 22 सितंबर सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ पर प्रतिदिन प्रात: 6:00 बजे एवं सायं 5:00 बजे आरती होगी। रविवार 5 अक्टूबर को नवरात्रि समापन के उपलक्ष में पांच कुंडलीय गायत्री यज्ञ प्रात: 8:00 बजे संपन्न होगा। दोपहर 1:00 बजे भोजन प्रसाद (विशाल भंडारे) का आयोजन किया जाएगा।

स्कूली खिलाड़ियों की शर्ट हुई लांच

शाह टाइम्स संवाददाता

उघैती। बदायूं-सिद्व बाबा इंटर कालेज शरह बरौलिया के स्कूली छात्रों की टीम को पहली बार नई शर्ट लॉन्च की। इस दौरान कालेज के प्रबन्धक अमित पाठक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबन्धक अधिक लाल मांझी, उप-प्रबन्धक सुधीर कुमार प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कालेज के प्रबन्धक अमित पाठक ने कहा कि कालेज के छात्र विभिन्न प्रतियोगिता में जीत कर कालेज का नाम रोशन करेंगे। प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने नई शर्ट के बारे में कहा, कालेज के खिलाड़ियों के लिए यह शर्ट सम्मान की बात है ओर खिलाड़ियों में जीत के प्रति उत्साह प्रदान करेगी। इस अवसर पर नीरज चौहान, विपलव भारती, क्रीड़ा प्रभारी रामौतार मौर्य, प्रवीण मिश्रा, डा प्रमोद शर्मा, अनमोल शर्मा आदि उपस्थित रहें।

रेसिपी प्रतियोगिता थीम आधारित कार्यक्रम किया आयोजित

शाह टाइम्स संवाददाता

बिसौली। बिसौली ब्लॉक क्षेत्र के कस्बा मुड़िया धुरेकी में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल विकास परियोजना विभाग की जिला समन्वयक पूजा चंद्रा के निर्देशन में संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने पोषण माह के उपलक्ष्य में पूरक आहार रेसिपी प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें जिला समन्वयक पूजा चंद्रा ने ई सी सी ई विषयक महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर एक रैली का भी आयोजन किया गया। यह रैली प्राथमिक विद्यालय से लेकर स्थानीय सरकारी अस्पताल तक मुख्य रस्ते से निकाली गई। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना विभाग की जिला समन्वयक पूजा चंद्रा सहित संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिकाओं सहित नन्हें मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाग लिया। यह जानकारी बाल विकास परियोजना विभाग की जिला समन्वयक पूजा चंद्रा ने दी।

मॉक ड्रिल का तीनों तहसीलों में चला रेस्क्यू अभ्यास

फैक्ट्री में आग व स्कूल में भूकंप का परिदृश्य, दमकल, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से दिखाई तत्परता

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। शुक्रवार को जनपद में भूकंप और अग्निकांड से निपटने की व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित हुई। तीनों तहसीलों में आयोजित इस अभ्यास ने प्रशासनिक तैयारी, विभागीय समन्वय और आपदा प्रबंधन की क्षमता को परखा। अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा की देखरेख में हुए इस अभ्यास ने साबित कर दिया कि जिला प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे अभ्यास की निगरानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा की गई।

बड़ौत तहसील के सराय रोड स्थित जेपीएस प्लास्टिक फैक्ट्री को औद्योगिक अग्निकांड की मॉक ड्रिल के लिए इंसिडेंट साइट चुना गया। निर्धारित समय पर जैसे ही आग लगने की काल्पनिक सूचना प्रसारित हुई, तत्काल इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय किया गया। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुँचीं और फोम टेंडर व अन्य अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। लपटों को नियंत्रित करने के साथ ही फैक्ट्री के भीतर कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया भी सम्पन्न हुई। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने घटनास्थल पर ही ट्रायज क्षेत्र स्थापित कर घायलों की प्राथमिक जाँच शुरू की। अभ्यास के दौरान दो घायलों को मौके पर ही उपचार दिया गया, जबकि चार गंभीर घायलो को, दो झुलसे और दो बेहोश को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौत भेजा गया। यहाँ पहले से तैयार आठ-बिस्तर वाला फील्ड हॉस्पिटल सक्रिय कर दिया गया, जहाँ चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल आपातकालीन उपचार प्रदान किया। पुलिस विभाग ने पूरे क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन सम्भालते हुए बचाव कार्य को निर्बाध बनाए रखा। इस अभ्यास ने यह दर्शाया कि औद्योगिक क्षेत्र में संभावित आपदा की स्थिति में विभागीय समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है।

खेकड़ा तहसील में इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल को मॉक ड्रिल के दौरान भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। काल्पनिक स्थिति में विद्यालय भवन के ध्वस्त होने और छात्रों व शिक्षकों के घायल होने का परिदृश्य बनाया गया। सूचना मिलते ही बचाव दल सक्रिय हुआ और घटनास्थल को इंसिडेंट साइट मानते हुए राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किए। स्वास्थ्य विभाग ने विद्यालय परिसर के समीप ही ट्रायज क्षेत्र स्थापित किया, जहाँ चार घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं पाँच गंभीर घायलों जिनमें एक छात्र का हाथ टूटा, एक का पैर फैक्चर हुआ, एक को सिर की चोट और एक को हाथ में गम्भीर चोट को एम्बुलेंस द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेकड़ा स्थित फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया। यहाँ आठ-बिस्तर की अस्थायी चिकित्सा इकाई में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने आपातकालीन उपचार प्रदान किया। ड्रिल की गंभीरता को और यथार्थपूर्ण बनाने के लिए दो शवों को शव वाहन से पोस्टमार्टम गृह भेजा गया। इस बीच पुलिस बल ने भीड़ नियंत्रण और यातायात का मोर्चा सँभाला। वहीं, एनडीआरएफ जैसी शैली में प्रशिक्षित बचाव दल ने जेसीबी और क्रेन की मदद से मलबे में दबे छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाला। इस अभ्यास से यह सन्देश गया कि आपदा की घड़ी में त्वरित समन्वय और आधुनिक संसाधनों का प्रयोग ही जीवन रक्षा की कुंजी है। बागपत तहसील में आयोजित आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल के लिए राजकीय कन्या इंटर कॉलेज को इंसिडेंट साइट चुना गया। काल्पनिक परिदृश्य के अंतर्गत पहले भूकम्प के तीव्र झटकों की स्थिति बनाई गई, जिसमें भवन के क्षतिग्रस्त होने और छात्रों-शिक्षकों के घायल होने का दृश्य प्रस्तुत किया गया।

प्रशासन की सराहनीय तैयारियाँ

ड्रिल में स्टेजिंग एरिया तैयार किया गया, जिसमें रेस्क्यू टूल्स, मेडिकल किट, फायर सेफ्टी उपकरण और संचार साधन उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और एंबुलेंस तैनात किए। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर भीड़ नियंत्रण और बचाव कार्यों में सहयोग दिया। पंचायती राज विभाग और जल निगम ने राहत शिविरों और टेंट की व्यवस्था की, जबकि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जनपद के विभिन्न हिस्सों से आपदा मित्रों, एनसीसी कैडेट्स एवं माय भारत स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। इन वॉलंटियर्स ने घायलों की भूमिका निभाकर अभ्यास को यथार्थपूर्ण बनाया। उन्होंने बचाव दलों के मार्गदर्शन में घायल व्यक्तियों को ट्रायज क्षेत्र तक पहुँचाने, स्ट्रेचर पर लादने और प्राथमिक उपचार के लिए फील्ड हॉस्पिटल तक ले जाने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान ट्रायज सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत घायलों को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। दमकल विभाग ने आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर औद्योगिक आग पर काबू पाने और धुएँ को नियंत्रित करने की तकनीक दिखाई। वहीं, बिजली विभाग ने तारों की आग बुझाने और आपातक. ालीन पावर कट का अभ्यास किया। मौके पर मौजूद लोगों को यह संदेश दिया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में घबराएँ नहीं, धैर्य बनाए रखें और प्रशासनिक टीमों के निर्देशों का पालन करें। साथ ही, अफवाहों से बचते हुए केवल अधिकृत एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। नागरिकों को समझाया गया कि आपदा की घड़ी में संयमित व्यवहार और प्रशासनिक सहयोग ही सुरक्षित निकासी तथा राहत कार्यों को प्रभावी बना सकता है। ड्रिल की निगरानी कर रहे अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा ने कहा आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और विभागीय तालमेल ही जीवन बचा सकता है। इस तरह की मॉक ड्रिल से प्रशासन की तैयारियाँ परखी जाती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी वास्तविक आपदा की स्थिति में हम तत्परता से कार्य कर सकें। इस अवसर पर तीनों तहसीलों के एसडीएम बागपत तहसीलदार अभिषेक सिंह जनपद के सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

छात्र-छात्राओं को भूकंप और आग से बचने के बताए उपाय

शाह टाइम्स संवाददाता

नवाबगंज। क्षेत्र के अटल आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को अग्निशमन कर्मियों ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आग के साथ ही भूकंप से बचने के उपाय बताए।

विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मार्कड्रिल के जरिए छात्र-छात्राओं को इसकी जानकारी दी, इसमें तहसीलदार दुष्यन्त प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार सत्यवीर सिंह, एडिशनल एसीएमओ प्रशांत रंजन, फायर ब्रिग्रेड के सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र कुमार, एनसीसी के सूबेदार गोविन्द सिंह के साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

विद्यालय में किए गए इस मार्कड्रिल के लिए विद्यालय प्रशासन ने सभी का आभार व्यक्त किया।

दूसरे दिन भी अस्पतालों पर चला पालिका का हंटर

- **मैक्स हॉस्पिटल पर बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने के लिए लगाया पांच हजार का जुर्माना**

शाह टाइम्स संवाददाता

बहेड़ी। नगर पालिका ने पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अपनी नकेल कसना शुरू कर दिया है। लगातार दूसरे दिन बाईपास रोड, बहेड़ी स्थित मैक्स हॉस्पिटल पर बायो मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने का गंभीर मामला सामने आया। अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी के नेतृत्व में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अहमद हसन ने अस्पताल की लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए 5000 रुपये का भारी जुर्माना वसूला। इस कार्रवाई ने न केवल अस्पताल प्रशासन को हिलाकर रख दिया, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामी पर भी सवाल खड़े कर दिए।

आरोप है कि मैक्स हॉस्पिटल द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित नियमों के तहत निस्तारण करने के बजाए खुले में फेंका जा रहा था, जो पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नगर पालिका की इस सख्त कार्रवाई ने स्वास्थ्य विभाग की उस लचर व्यवस्था को भी उजागर किया, जो अस्पतालों पर निगरानी रखने में नाकाम रही है।

अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से भी जवाब तलब किया है कि आखिर क्यों ऐसी गंभीर लापरवाही पर पर्दा डाला जा रहा है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाए और नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर लगाम कसे।

नगर पालिका ने स्पष्ट किया कि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी और अस्पतालों की मनमानी पर सवाल उठता है कि क्या अब भी जिम्मेदार विभाग अपनी नींद से जागेगा।

एक नजर

महिला के मिलने के लिए न आने पर बदनाम करनी की दी धमकी

आरोपी युवक पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

शाह टाइम्स संवाददाता

बहेड़ी। एक महिला ने एक युवक पर फोन पर उसे फोन करके परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि युवक उससे बार-बार मिलने के लिये कहता है, और उसके मना करने पर धमकी देता है कि अगर मिलने नहीं आई तो वह उसे बदनाम कर देगा। युवक से परेशान होकर महिला ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जिसपर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्राम जाम सावंत जनूबी निवासी एक महिला का कहना है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। महिला का कहना है कि जयदेव सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम टांडा मीरनगर थाना बहेड़ी पिछले तीन दिन से उसे फोन कर रहा है। उक्त युवक फोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हारा शुभ चिन्तक हूं। युवक ने कहा कि तुम चाहो तो बहेड़ी वाले मकान पर आकर मिल लो या थाने आ जाओ, वह थाने पहुंच रहा है। मना करने पर धमकी दी कि अगर मिलने नहीं आई तो सबको बता दूंगां कि तुमने गांव में गन्दगी फैला रखी है।

महिला का कहना है कि उक्त युवक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर गलत आरोप लगा रहा है। इस मामले में तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी युवक जयदेव सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम टांडा मीरनगर थाना बहेड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रंजिशन कार में युवकों ने लगाई आग, रिपोर्ट दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

कार में आग लगाने के आरोप में चार लोगों पर मुकदमा

बहेड़ी। कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने गांव के चार लोगों पर रंजिशन उसकी कार में आग लगाने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि इससे पूर्व उक्त लोगों ने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश कि थी जिस पर वह किसी तरह वहां से निकल आया था। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्राम अर्सियाबोझ मजरा जटपुरा थाना बहेड़ी निवासी जितेन्द्र कुमार पुत्र सोहन सिंह गंगवार का कहना है कि बीती 16 सितम्बर को वह अपनी टाटा पंच कार मॉडल 2025 से अपने घर आ रहा था। शाम के करीब 07 बजे गांव के ही डिल्लीधर उर्फ वीरू पुत्र शिव दयाल व भगवानदास पुत्र वांके लाल व तेजपाल व खेमकरन पुत्रगण भगवान दास ने एक राय होकर गांव के नजदीक पुलिया पर उसे घेर लिया, जिसपर वह किसी तरह बचकर अपने घर आ गया। जब उसकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी तब उक्त विपक्षीगणों ने एक राय होकर रात्रि करीब 12:55 बजे उसकी कार में आग लगा दी। गाड़ी में आग लगने पर वह व उसके घर वाले व आसपास के लोग इकठ्ठा हो गए। कार में आग लगाने की घटना के बाद पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जिसपर पुलिस ने डिल्लीधर उर्फ वीरू पुत्र शिव दयाल व भगवानदास पुत्र वांके लाल व तेजपाल व खेमकरन पुत्रगण भगवान दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हमें सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए: तौकीर रजा

- **मौलाना तौकीर बोले- नेपाल-श्रीलंका से ज्यादा भारत में मुसलमान, सड़कों पर आ गए तो...**

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर भाजपा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तौकीर ने कहा कि रसूल आजम के लिए आई लव मोहम्मद कहने पर जुर्म बना दिया गया है। इस पर मुकदमे लिखा जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जबकि मुस्लिम बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब हद हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में नेपाल-बांग्लादेश-श्रीलंका जैसे हालात नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इन तीनों मुल्कों में जितने मुसलमान की आबादी है उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। अगर यह मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुल्क में क्या हालात बनेंगे, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए हमें सड़कों पर आने को मजबूर ना किया जाए।

तौकीर रजा ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमान के साथ ज्यादती की है और रसूल आजम की शान में गुस्ताखियां की हैं। ऐसे लोगों में गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। अगर ऐसे लोगों पर एक सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सड़कों पर आने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। हमारी खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी न समझा जाए, कोई मुसलमान किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता तो किसी दूसरे को भी यह अख्तियार नहीं कि वह हमारे मजहब पर टिप्पणी करें।

मौलाना ने कहा कि हिंदूवादी संगठन और कथित हिंदूवादी नेता मुस्लिम बहन-बेटियों पर लंबे वक्त से टिप्पणी करते रहे हैं। मुसलमान सड़क से लेकर संसद तक सुरक्षित नहीं है। संसद के अंदर मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी जाती हैं। यही समझ नहीं आता कि यह लोग क्या चाहते हैं। रसूल-ए-आजम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। दुनिया का मुसलमान सब कुछ सहन कर सकता है मगर रसूल-ए-आजम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता।

आचार्य रामभद्राचार्य पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम सबसे ज्यादा औरतों को इज्जत देता है। इस्लाम मजहब पर औरतों को लेकर टिप्पणी करने वाले अपने धर्म में लिखी बातों को देखें। हमें इस बात से मतलब नहीं की किस धर्म में क्या लिखा है ठीक है।

अखिल विश्व गायत्री परिवार साधना पर्व, रक्तदान व दीपयज्ञ का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

फतेहगंज पश्चिमी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के आहवान पर जिले में विभिन्न आध्यात्मिक और सामा. जिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार साधना और प्रेम पर आधारित संगठन है। इसकी संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष 1926-2026 के रूप में मनाया जा रहा है।

जिला समन्वयक दिनेश पांडे ने बताया कि 20 सितंबर 2025 को माता जी का 99वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर बरेली जिले के ललिता देवी मंदिर, मणीनाथ, मनसा देवी मंदिर, कर्मचारी नगर सहित 20 गांवों में प्रात: 5 बजे से शाम 5 बजे तक अखंड गायत्री मंत्र जप साधना होगी। समापन पर सभी स्थलों पर दीपयज्ञ का आयोजन



किया जाएगा। इसी क्रम में 21 सितंबर को पीड़ा पतन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में रक्तदान का आवाहन किया गया है। बरेली में गायत्री चेतना केंद्र, मुंशी नगर पर प्रात: 10 बजे से रक्तदान शिविर आयोजित होगा। जिला स्तर पर सभी ट्रस्टी परिवार और कार्यकर्ता इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं से आहवान किया गया है कि वे इस साधना पर्व को पूरे उल्लास के साथ मनाएं। यह अवसर केवल साधना का नहीं, बल्कि समाज कल्याण और लोकमंगल का भी पर्व है। उल्लेखनीय है कि माताजी की जन्म शताब्दी के साथ ही शांतिकुंज में 1926 से प्रज्वलित अखंड दीपक का भी शताब्दी वर्ष है। पूज्य गुरुदेव युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी की साधना का भी शताब्दी वर्ष 2026 में पूर्ण होगा।

इस अवसर पर पूरे वर्ष देशभर में विविध लोकमंगलकारी कार्यक्रम होंगे। शांतिकुंज हरिद्वार से माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ज्योति कलश यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। बरेली में यह यात्रा 11 मार्च को पहुंचेगी। जिले के मीरगंज में ज्योति कलश यात्रा का भव्य एवं दिव्य स्वागत करने की तैयारियां जोरों पर हैं।

ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवक घायल

शाह टाइम्स संवाददाता

नवाबगंज। तेज रफ्तार से जाते एक ट्रैक्टर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीन युवक गम्भीर रुप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि टक्कर मारने वाला ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। जनपद पीलीभीत के कस्बा बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कबूलपुर के रामवीर की हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव संतोषपुर में ससुराल है। शुक्रवार को वह अपने भाई अमित और गांव के ही अनिल के साथ बुलेट बाइक से अपनी ससुराल जा रहे थे कि पीलीभीत हाईवे पर हरदुआ तिराहे के निकट पेट्रोल पम्प के पास पीछे से तेज गति से आते एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गयी। जिससे उस पर सवार रामवीर, अमित व अनिल गम्भीर रुप से घायल हो गए। उधर से गुजर रहे राहगीरों ने उन्हें उपचार के लिए कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं टक्कर मारने वाला ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया।

मुख्यमंत्री से शिकायत का हुआ असर राजस्व कर्मियों ने की पनघेली नदी की नपत

शाह टाइम्स संवाददाता

नवाबगंज। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष प्रेमलता राठौर द्वारा कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नगर से निकली पनघेली नदी के चारों ओर हो रहे अवैध कब्जों को तत्काल हटाए जाने के साथ ही नदी का सौन्दर्यकरण कराए जाने की मांग की थी। पालिका अध्यक्ष की इस मांग का नगर में असर होने लगा है। नगर पालिका परिषद की टीम को साथ लेकर राजस्व कर्मियों ने एक सप्ताह पहले ही नगर की पश्चिमी दिशा से पनघेली नदी के पानी का रुख दूसरी ओर किए जाने को लगाए गए रेत भरे कट्टों को जेसीबी से हटवाया था। इसके साथ ही राजस्व कर्मियों ने शुक्रवार को नदी के पूरब दिशा में इसकी पैमाईश की। राजस्व कर्मियों की इस पैमाईश किए जाने से नदी किनारे कब्जा कर निर्माण कार्य कराने वालों में खलवली मच गई है। पैमाईश करने वालों में नायब तहसीलदार सत्यवीर सिंह, कानूनगो लाला राम गंग. वार, शहर के लेखपाल प्रेमपाल गंगवार, विजय कुमार, योगेश कुमार के साथ ही नगर पालिका परिषद की टीम शामिल थी। राजस्व कर्मियों ने बताया कि नदी की पैमाईश कल भी की जाएगी।

तहसील बहेड़ी में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण आयोजित

शाह टाइम्स संवाददाता

बहेड़ी। तहसील बहेड़ी में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में एसडीआरएफ टीम ने भाग लिया और आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्य के बारे में जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान हॉस्पिटल या स्कूल में फंसे बच्चों को निकालने की तकनीक के बारे में टीम को बताया गया। इसके अलावा क्षेत्र में आई बाढ़ से बचाव और राहत कार्य के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव, तहसीलदार और थाने की फोर्स मौजूद रही। एसडीएम प्रशासन अजय कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान तहसील परिसर में अग्निशमन टीम, एम्बुलेंस सेवा और पानी की सुविधा रखी गई थी।

एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से हम आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

उमरा कर लौटे इमाम का हुआ जोरदार इस्तकबाल

शाह टाइम्स संवाददाता

सेंथल। मदीने से आका मोहम्मद सल्ललल्लाहो अलैहि वसल्लम के मजार की जियारत कर लौटे हाफिजगंज की मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना अरमान अंसारी का आज अपने शहर सेंथल पहुंचने पर रजा एक्शन कमेटी के मेंबरान ने मौलाना को हार फूल पहनाए और धार्मिक नारों से इस्तकबाल किया। स्वागत करने वालों में मोहम्मद मुमताज, फारूक, रिहान सिद्दीकी, साहिर खान, वसीम खान, इमरान खान, जावेद मलिक, नाजिम खान, अफरोज अहमद, मौसम खान, सुराज सिद्दीकी, ईसन खान, जमाल खान, महबूब, निजाकत आदि सहित तमाम लोग थे।

जीआईसी ऑडिटोरियम परिसर में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी बन रही आकर्षण का केंद्र

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व एवं न्यू इंडिया 2047 तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं व उपलब्धियां विषयक जीआईसी ऑडिटोरियम परिसर में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी आज 19 सितम्बर को भी आम जनमानस द्वारा अवलोकन किया गया।

प्रदर्शनी में वोकल फोर लोकल, स्वच्छ भारत मिशन, अंतर्देशीय जल मार्गों सम्बन्धी, जल जीवन मिशन, विश्वकर्मा सम्मान योजना, प्रदेश में दुरुस्त कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई एयर कनेक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश में सुदृढ़ होती व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है।

यह प्रदर्शनी 02 अक्तूबर 2025 तक प्रात: 10 बजे से सायंकाल 05 बजे तक लगी रहेगी, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना है।

डीएम ने कलक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न अनुभागों व पटलों का किया औचक निरीक्षण

- **कार्यालय में कार्य के प्रति बेहतर माहौल बनाने तथा जनसामान्य से संबंधित कार्यों को तत्परता से कराने के दिए निर्देश**

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। डीएम अविनाश सिंह ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न अनुभागों/पटलों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने रिकार्ड रूम, अभिलेखागार, शस्त्रागार, इंग्लिश कार्यालय, ई-डिस्ट्रिक कार्यालय, कंट्रोल रूम सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों की स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालयों में अभिलेखों एवं पंजि. काओं के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अभिलेख सुव्यवस्थित एवं श्रेणीबद्ध तरीके से सुरक्षित रखे जाएं, जिससे आवश्यकतानुसार उनकी त्वरित

उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी अपरिचित आदमी रिकार्ड रुम आदि में प्रवेश न करें और सीसीटीवी कैमरे से पूरा रूम कवर कराया जाए। दस्तावेजों का रखरखाव बेहतर तरीके से और सुरक्षा के साथ किया जाए।

निरीक्षण के दौरान डीएम जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंचे और वहां जानकारी ली कि कर्मचारी समय से आते है या नहीं। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका भी मांगी, जिसपर अवगत कराया गया कि कार्यालय में बायोमैट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होती है तथा समस्त कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कार्य के प्रति बेहतर माहौल बनाने तथा जनसामान्य से संबंधित कार्यों को तत्परता से कराए जाने के निर्देश दिए, साथ ही कार्यालय की साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी रामजन्म यादव, नाजिर कलेक्ट्रेट त्रिवेणी सहाय सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहेड़ी (बरेली)

संख्या-1308 /न०पा०प०ब० /कर/2025-26 दिनांक-12.09.2025

नोटिस अन्तर्गत धारा 147(2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम

इस पालिका परिषद के सीमान्तगर्त एक आराजी-215 वार्ड-8 जो मोहल्ला बाजार में स्थित है एवं पालिका के कर अभिलेखों में श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री राम भरोसे लाल के नाम से दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक-26.03.2004 के द्वारा श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री राम भरोसे लाल निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली ने श्री कुमकुम अग्रवाल पत्नी श्री अरूण अग्रवाल निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली को विक्रय कर दिया गया है। श्रीमती कुमकुम अग्रवाल पत्नी श्री अरूण अग्रवाल निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली ने अनापत्ति प्रमाण पत्र व उपरोक्त साक्ष्यों को सलंग्न कर आराजी को अपने नाम से पालिका के कर अभिलेखों मे दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को भी उपरोक्त नामान्तरण/परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर विधि द्वारा मान्य साक्ष्य एवं सम्बन्धित अभिलेखों आदि के साथ प्रस्तुत करें। अन्यथा वाद गुजरने म्याद इस कार्यालय स्तर से उचित आदेश निर्गत कर दिये जाएगें और कोई आपत्ति विचरणीय नहीं होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बहेड़ी (बरेली)

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहेड़ी (बरेली)

संख्या- 1306 /न०पा० प०ब०/ कर/ 2025-26 दिनांक-12.09.2025

नोटिस अन्तर्गत धारा 147(2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम

इस पालिका परिषद के सीमान्तगर्त आराजी-61 वार्ड-09 जो मोहल्ला गोदाम (माथुर रोड) कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली में स्थित है एवं पालिका के कर अभिलेखों में श्री रामनाथ पुत्र श्री बलदेव के नाम से दर्ज है। उक्त आराजी को विक्रय पत्र दिनांक-29.11.2013 के द्वारा श्री छोटे लाल व राम आसरे पुत्रगण श्री रामनाथ निवासी मोहल्ला गोदाम कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली ने श्री मोहित पुत्र राम कुमार निवासी महावीरगंज हलद्वानी को विक्रय कर दिया गया है। इसके उपरान्त उक्त आरा. जी को विक्रय पत्र दिनांक-29.11.2013 के द्वारा श्री छोटे लाल व राम आसरे पुत्रगण श्री रामनाथ निवासी मोहल्ला गोदाम कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली ने श्रीमती शिल्पी पत्नी मोहित निवासी महाव. रिगंज हल्द्वानी जिला नैनीताल को विक्रय कर दिया गया है। इसके उपरान्त उक्त आराजी को विक्रय पत्र दिनाक-30.07.2025 के द्वारा श्री मोहित कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार व श्रीमती शिल्पी गुप्ता पत्नी मोहित कुमार गुप्ता निवासी महावीरगंज हल्द्वानी जिला नैनीताल ने श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी गौरव गुप्ता निवासी मोहल्ला रामलीला कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली को विक्रय कर दिया गया है। श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी गौरव गुप्ता निवासी मोहल्ला रामलीला कस्बा व तहसील बहेड़ी जिला बरेली ने उपरोक्त साक्ष्यों को सलंग्न कर आराजी को अपने नाम से पालिका कर अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को भी उपरोक्त नामान्तरण/परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर विधि द्वारा मान्य साक्ष्य एवं सम्बन्धित अभिलेखों आदि के साथ प्रस्तुत करें। अन्यथा वाद गुजरने म्याद इस कार्यालय स्तर से उचित आदेश निर्गत कर दिये जाएगें और कोई आपत्ति विचरणीय नहीं होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बहेड़ी (बरेली)

अकीदतमंदों ने बरेली में लगाए आई लव मोहम्मद के पोस्टर

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। शहर के तमाम इलाकों मोहल्ला जखीरा नाला, आजम बिहारीपुर नगर, कोहाड़ा पीर, गुलाब नगर, शाहमतगंज, किला, जोगी नवादा, फरीदपुर रोड, डेलापीर, किला हजियापुर, गुलशन नगर, सैयदाना, सैटेलाइट, करबला रोड धौंरा टांडा आदि में जमात-ए-रजा-ए-मुस्तफा के पदाधिकारी मोइन खान के दिशा-निर्देश पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाये गये।

मोइन खान ने कहा कि यह मुहब्बत और अकीदा का पैगाम है, किसी भी व्यक्ति, मजहब या समाज के खिलाफ नहीं।

उन्होंने कहा कि हमारा मकघ्सद केवल इतना है कि हम अपने नबी-ए-करीम से मोहब्बत का इजहार करें और उनकी सीरत-ए-पाक पर चलने की को. शिश करें। नबी की सीरत हमें अमन, इंसाफ, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का सबक देती है।

उन्होंने कहा कि कानपुर की हालिया घटना के बाद हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा हर अमल संविधान और कानून के दायरे में है। हम शांति, मोहब्बत और राष्ट्रीय एकता के साथ अपने आका से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे।

हम सभी से अपील करते हैं कि समाज में भाईचारा, मोहब्बत और अमन बनाए रखें, अफवाहों से बचें और कानून का सम्मान करें। यही सच्ची मोहब्बत है और यही नबी की सीरत का पैगाम भी है।

आखिर में उन्होंने कहा कि आइए मिलकर बरेली शहर को अमन और मोहब्बत की मिसाल बनाएं।

शाह टाइम्स आपके साथ....

हमें बताएं अपने इलाके की समस्या

प्रिय पाठक, शहर में यदि आपके घर के आसपास या इलाके में सड़क टूटी होने, कूड़ा न उठने जैसी कोई ऐसी समस्या है जो तमाम लोगों को परेशान कर रही है तो फोटो के साथ हमें लिख भेजें। हम आपकी समस्या को प्रमुखता से अपने अगले अंक में प्रकाशित करेंगे। शाह टाइम्स के व्हाट्सएप नंबर 9720775874 पर अपनी समस्या आप हमें भेज सकते हैं।

डीएम ने जनपद के नागरिकों से की देश व प्रदेश के विकास के लिए अपने अमूल्य सुझाव देने की अपील

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। डीएम अविनाश सिंह ने जनपद वासियों से अपील की है कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में शुरू हुआ 'समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047' अभियान को सफल बनाने हेतु जगह-जगह लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से अपने बहुमूल्य सुझाव भेजें।

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की एक दूरदर्शी पहल विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के अन्तर्गत भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से समावेशी विकास, तकनीकी नवाचार और सतत प्रगति के मिशन को आधारित किया गया है। इस मिशन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक प्रबुद्ध समान और वैश्विक स्तर पर सम्मानित राज्य का निर्माण करने हेतु अपने सुझाव अवश्य भेजें। विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, शताब्दी संकल्प 2047 एवं समृद्धि का शताब्दी वर्ष के मिशन को दिशा प्रदान करने एवं पथ प्रदर्शन हेतु एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाना प्रस्तावित है। यह विजन डॉक्यूमेंट 03 थीम-अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति एवं 12 सेक्टर-कृषि एवं संबद्ध, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास आईटी एवं इमेजिंग प्रौद्योगिक, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तैयार किया जाएगा, जिस हेतु कोई भी जनमानस https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर क्यूआर स्कैन करके अपना बहुमूल्य सुझाव दें सकते हैं।

समाचार एवं विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
मो. इरफान मुनीम जिला प्रभारी (बरेली)
मो0- 9456212547 8077380691
Email: irfanggnewslive@gmail.com

उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बताया आतंकवाद अलगाववाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद की अम्मा

पीलीभीत। एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और जनपद स्तरीय अधिकारियों के संग बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद भ्रष्टाचार नक्सलवाद अलगाव बात की अम्मा बताया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए तड़प रही है मगर उनके यह मुंगेरीलाल के सपने पूरे नहीं होंगे जनता ने उन्हें नकार दिया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर से पर "सेवा पखवाड़ा" के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का एक–एक कार्यकर्ता पदाधिक. री "सेवा पखवाड़ा" में अपनी सहभागिता देते हुए विभिन्न सेवा करने का अवसर ले रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में सपा के साथ सभी विपक्षियों की जमानत जब्त करानी है राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अपनी भाषा शैली और कार्य को दिखा रहे हैं मगर माननीय प्रधानमंत्री जी पर जनता का असीम आशीर्वाद प्राप्त है। विपक्षीय को एक चीज खटकती है वह है प्रधानमंत्री अखिलेश यादव का बयान आता है बांटो और राज करो 2047 तक आप का नम्बर नहीं आने वाला है ना राहुल गांधी का इनके गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। मतदाता सूची में नाम दो जगह है तो उसका कटना आगे बढ़ रहा है कमल का फूल खिलेगा तो सभी सुख रहेंगे, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा में खाने दूंगा जो खाएगा उसकी जांच कराऊंगा। देश की जनता मोदी जी के साथ है सपा और कांग्रेस में जो हवा भर गई थी वह फूस हो गई बिहार में भाजपा का गठबंधन जीतने जा रहा है। 2027 बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमारे पीछे दुनिया चलनी चाहिए ऐसा भारत बनाइए जो अभियान चल रहे हैं उसको सफल बनाइए। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक फार्मेसी कॉलेज के प्रबंधक अमित मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलों का हार पहनाकर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा चाहिए भ्रष्टाचार से मुक्त भारत

डीएम ने रवाना किया कृषि प्रचार वाहन

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। शुक्रवार को डीएम श्रुति ने किसानों को पराली व कृषि अवशेष न जलाने को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि किसान पराली बिल्कुल भी न जलाएं, यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। किसानों को फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता को होने वाले नुकसान एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा प्रचार वाहन से जिले में प्रचार प्रसार किया जाएगा। डीडी बबलू कुमार ने बताया कि प्रचार वाहन द्वारा किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान, उर्वरक क्षमता को होने वाली हानि, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए दी अनुदान पर दिए जा रहे उपकरणों के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार वाहन को घुमाया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम वित्त राजस्व अभिषेक सिंह व डीएओ रामकुमार यादव उपस्थित रहे।

विदेश में जॉब का झांसा दे लाखों ठगे

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन निवासी एक व्यक्ति की विदेश में कुक की जॉब दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठग लिए गए। पीड़ित को दिल्ली बुलाकर कई बार इंटरव्यू लिए गए। रुपये लेने के बाद आरोपियों ने कोई जॉब नहीं दिलाई और ऑफिस भी बंद कर फरार हो गए। नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में पुलिस लाइन निवासी गिरीश कुमार पुत्र धीरजपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 21 जनवरी 2023 को उसके मोबाइल पर एक महिला ने कॉल कर उससे विदेश में जॉब के लिए प्रयासरत होने के बारे में जानकारी ली। पीड़ित द्वारा महिला को बताया गया कि वह कुक की जॉब के लिए प्रयासरत है। जिस पर महिला ने उससे सारे कागजात अपने नंबर पर मंगा लिए। इसके बाद उसे दिल्ली जाकर सौरभ कुमार बनर्जी नामक शख्स से मिलने के लिए कहा गया। दिल्ली में उसे दो लाख रुपये रजिस्ट्रेशन और साढ़े पांच लाख रुपये अतिरिक्त खर्चा बताया गया। आरोपियों द्वारा उसके तीन इंटरव्यू कराए गए। 14 अप्रैल 2023 को उसने दिल्ली जाकर दो लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी आरोपियों द्वारा उसे कहीं जॉब नहीं दिलाई गई और न ही उसके रुपये वापस किए। अब उसे मालूम चला है कि दिल्ली में आरोपियों का ऑफिस भी बंद हो गया है। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपियों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

खेत में मिला मजदूर का शव

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव रनियावली में एक मजदूर का शव बाजरे के खेत में पड़ा हुआ मिला। मजदूर की गर्दन और सीने पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरनिया थाना क्षेत्र के रनियावली गांव निवासी श्याम वीर सिंह ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले उनके 40 वर्षीय भतीजे ध्यानपाल उर्फ गुड्डू गांव दशहरा में स्थित एक कंपनी में मजदूरी करता था। गुड्डू की पत्नी नोएडा में स्थित कपड़े की फैक्टरी में सिलाई का काम करती है। गुरुवार की रात करीब नौ बजे गुड्डू को गांव में देखा गया। जिसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दिया और घर भी वापस नहीं आया। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने जानकारी दी कि गुड्डू का शव राजकुमार के खेतों में पड़ा हुआ है। शव के ऊपर पटिया पड़ी थी। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित कर स्थिति से अवगत कराया। सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर घटना की जानकारी नोएडा में रहने वाली गुड्डू की पत्नी और गाजियाबाद में रहने वाले बड़े भाई अनिल सिंह को दी। सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की जा रही है। तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

छात्रों के दो गुटों में मारपीट, छात्र घायल

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। शुक्रवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल के मैदान में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के छात्रों ने दूसरे पक्ष के दो छात्रों को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि दोनों छात्रों पर बेल्ट और नुकीली वस्तु से भी हमला किया गया। जिससे छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। घायल छात्रों का अस्पताल में उपचार कराया गया है। देर शाम तक मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में काफी वक्त से तनातनी चल रही है। शुक्रवार की सुबह स्कूल के मैदान में दोनों गुट के छात्रों में कहासुनी हुई। जिसके बाद एक गुट के छात्रों ने लोहे के पंच, लात घूंसे, डंडे आदि से दूसरे गुट के दो–तीन छात्रों पर हमला कर दिया। दो छात्रों को बुरी तरह मारापीटा गया। जिससे उनके सिर फट गए और वह लहूलुहान हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी छात्र फरार हो गए। दोनों घायल छात्रों का अस्पताल में उपचार कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जांच कर आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मंडी से पहले सड़क पर बिखर गए किसान के सपने

मथुरा। किसान के सपने सडक पर बिखर गये। उसका अनाज सडक पर फैल गया। किसान की हालत गंभीर है। छाता तहसील क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार गोहारी के पास गांव भदावल निवासी किसान रामफल धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कोसी मंडी जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के दो टुकड़े हो गए और सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया। हादसे में किसान रामफल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे ने न सिर्फ किसान की जान को खतरे में डाल दिया बल्कि उनकी सालों की मेहनत भी बर्बाद कर दी। ट्रॉली में भरा धान सड़क पर बिखर गया। परिवारजनों ने बताया कि यही फसल उनके पूरे साल की कमाई का सहारा थी। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहन चालक आए दिन किसानों और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई रोक टोक नहीं है। घायल किसान के भाई धनीराम ने बताया कि भाई रामफल ने कड़ी मेहनत से यह फसल तैयार की थी। अब यह हादसा उनके पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि ऐसे लापरवाह वाहन चाल. कों पर सख्त कार्रवाई की जाए

भूकंप व अग्निकांड से बचने को मॉकड्रिल

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में भूकंप, अग्निकांड समेत गैसों के रिसाव से निपटने के लिए बुलंदशहर समेत खुर्जा, डिबाई और सिकंद. राबाद के पांच स्थानों पर मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के दौरान सड़कों पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही बिल्डिंग से तेजी से धुआं निकलने लगा और सायरनों की गूंज सुनाई दी तो लोग चीखते-चिल्लाते बाहर भागते नजर आए। हवा में जैसे ही खतरे की गंध फैली। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर दौड़ीं और स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस भी सायरन बजाते हुए पहुंच गई। इस दौरान लोगों को बचाव के टिप्स दिए। जिससे ऐसी घटना होने पर बचाव किया जा सके। एडीएम वित्त एवं राजस्व अभिषेक कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डीमरी के नेतृत्व में टीम मॉकड्रिल को एमएमआर मॉल में पहुंची। इस दौरान मॉल में धुआं छोड़ा गया। जैसे ही सायरन बजा तो राहत टीम बचाव के लिए पहुंची। टीम ने एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने और अग्निशमन टीम ने आग बुझाने का रिहर्सल किया। इस दौरान भूकंप, अग्निकांड, गैस रिसाव पर खोज एवं बचाव का प्रदर्शन करते हुए आम जनमानस, स्कूल छात्रों और विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आपदा के समय क्या करें, क्या न करें पर जागरूक किया गया। वहीं डिबाई के पला कसेर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और तहसील में मॉकड्रिल की गई। एनडीआरएफ की टीम ने छात्राओं को भूकंप के दौरान होने वाली आपदा से कैसे बचाव किया जाए। इसकी विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार ने बताया कि सुबह दस बजे भूकंप के झटके महसूस किए कमरे पंखे हिलने लगे, छात्राओं में हलचल हुई, सायरन की आवाज के साथ कुछ ही समय में छात्राओं विद्यालय भवन से दौड़कर अपने सिर पर बैग रख खुले स्थान पर दौड़ लगाई। 25 छात्र भागदौड़ में घायल हुई, फोन द्वारा एनडीआर एफ की टीम को बुलाया गया। जिसके बाद बचाव के टिप्स दिए गए। वहीं सिकंदराबाद के मदान कैमिकल, खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल में मुख्य अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ गाजियाबाद 8वीं वाहिनी, पावर कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, नगर पालिका समेत कई विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।

मॉर्निंग रेड से पकड़ी बिजली चोरी

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। विद्युत विभाग चीफ इंजीनियर के निर्देश पर लाइन लॉस को कम करने के लिए टीम लगातार मॉर्निंग और नाइट रेड कर बिजली चोरी पकड़ जा रही हैं। औरंगाबाद में टीम ने 30 घरों में करीब 40 किलोवाट तक की बिजली चोरी पकड़ी है। टीम ने इन सभी के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। औरंगाबाद शहर में एक्सईएन सुप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने मॉर्निंग रेड कर बिजली चोरी पकड़ी। यहां सीधे केबिल डालकर, मीटर से पहले कट समेत विभिन्न तरीके से बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने 30 घरों में बिजली चोरी पकड़ी है। बिजली चोरी के मामले में इन सभी के खिलाफ हाइडिल कॉलोनी स्थित बिजली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। चेकिंग के दौरान टीम में एसडीओ कुलदीप सिंह और एसडीओ विनेश सिंह मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का किया स्वागत

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। शुक्रवार को गुलावठी टोल प्लाजा पर प्रदेश सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अनिल सिसोदिया ने गुलदस्ता व फूलमाला पहनाई। जिला महामंत्री अजय त्यागी, जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रधान, शरद त्रिवेदी, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोज गर्ग, मंडल अध्यक्ष भीष्म सिसोदिया, जिलाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा किशोर लोधी, त्रिभुवन, नीरज चौधरी, सुभाष भाटी, पंकज सिंह ब्लॉक प्रमुख, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, लो. केश प्रताप सिंह, मनोज खंडेलवाल, नितिन सोनी, अरविंद चौहान, हरेंद्र बीडीसी आदि मौजूद रहे।

यातायात पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

शाह टाइम्स ब्यूरो

बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र में बीते दिनों रूट डायवर्जन के दौरान सड़क किनारे गड्ढों को खुद मिट्टी डालकर भरने वाले यातायात पुलिसकर्मियों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया गया है। बता दें कि बीते दिनों अडौली कट से भूड़ चौराहे के बीच अपर गंगा कैनाल पर स्थित पुल की मरम्मत के लिए ट्रैफिक डायवर्जन कराया गया था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में धूं-धूं कर जली कबाडा एम्बूलेंस

कोसीकलां। शेरगढ रोड स्थित सीएचसी में खाली पडे स्थान पर खडी कबाडे की तीन एम्बूलेंसों में अज्ञात कारणों से आग लग गयी। आग की खबर से स्वास्थ्य केन्द्र पर अफरातफरी मच गयी। मामले की सूचना फायर विग्रेड एवं नगर पालिका को दी, लेकिन फायर विग्रेड फायर विग्रेड तो नहीं पहुंची। इससे पहले पालिका के एक टैंकर एव फायर बिग्रेड की गाडी ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे परिसर में सफाई नहीं होने के कारण हास्पीटल के पीछे स्थित जर्जर विल्डिंग के पास खाली पडे एक स्थान पर कूडे के ढेर पर खडी कबाडे की तीन एम्बूलेंसों में अचानक आग लग गयी। आग लगते ही उसने पास खडी कबाडे की अन्य 2 एम्बूलेंसों को चपेट में ले लिया। तीनों एम्बूलेंस धूंधूं कर जलने लगी। आग की सूचना सीएचसी प्रभारी ने फायर विग्रेड व पालिका नगर पालिका प्रशासन को दी।

सूचना के दो घंटे बाद भी फायर विग्रेड की कोई भी गाडी घटना स्थल पर नहीं पहुंची। लेकिन पालिका का एक टैंकर घटना स्थल पर पहुंच गया, जिसने बमुष्किल आग पर काबू पाया। बाद में फायर बिग्रेड की गाडी भी स्वास्थ्य केन्द्र पहुंच गयी लेकिन आग बुझने के बाद खानापूर्ति कर वापस लौट गयी। गनीमत रही कि आग की लपटें ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं पहुंची, जिससे बडा हादसा टल गया। सीएचसी प्रभारी डॉ जीपी सिंह बताया ने यह कार्य असामाजिक तत्वों का हो सकता है।

संस्कृति विवि के विद्यार्थियों का एड-टेक कंपनी लर्निंग रूट में हुआ चयन

मथुरा। संस्कृति विश्व. विद्यालय के एमबीए, बीबीए और बीसीए के विद्यार्थियों को प्रसिद्ध एड–टेक कंपनी लर्निंग रूट प्रा.लि. ने अपने यहां अच्छे वेतनमान पर नौकरी के लिए चयनित किया है। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान हुए विद्यार्थियों के इस चयन पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर्ष व्यक्त करते हुए चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी है। कंपनी से आए धीरज छाबड़ा ने बताया कि ''लर्निंग रूट्स'' एक भारतीय स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2017 में सूरज मिश्रा और करण सेमटा ने की थी। यह गुरुग्राम में स्थित है और पेशेवर छात्रों के लिए प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, और विभिन्न अन्य विषयों में ऑनलाइन डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रदान करती है। यह प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी करके कामकाजी पेशेवरों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। लर्निंग रूट्स एक शिक्षण प्लेटफार्म है जो विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह कामकाजी पेश. वरों और छात्रों को उनके करियर में प्रगति करने में मदद करती है। इसका मिशन छात्रों और पेशेवरों को सफल होने के लिए सही शैक्षणिक समाधान प्रदान करना और उनके लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करना है। संस्कृति ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड अनुराग तिवारी ने बताया कि कंपनी द्वारा विवि के बीबीए, एमबीए और बीसीए के छह विद्यार्थी बीसीए विभाग की शिवानी, जितिन बघेल आदि रहे।

भारत गैस एजेंसी थोप रही जबरन पाइप

कोसीकलां। नगर में संचालित गैस एजेन्सियां पर घटतोली के मामले तो सामने आते रहते है, लेकिन अब एक एजेन्सी पर नया मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेन्सी संचालक उन्हें सिलेन्डर के साथ एक पाइप जबरन दे रहे हैं, यदि पाइप नहीं लिया तो डायरी पर लिखकर दे रहे हैं कि ''अब आप भारत गैस के उपभोक्ता नहीं है।'' ऐसे में उपभोक्ता क्या करें। उल्लेखनीय हो कि नगर में इण्डेन गैस की 2 और भारत गैस की 1 एजेन्सी संचालित है। बताते चलें कि अभी तक हॉकरों द्वारा गैस सिलेडरों में घटतोली के सामने आते रहीं हैं, लेकिन अब श्रीजी भारत गैस एजेन्सी पर एक नया कारनामा शुरू हो गया है जिससे लोगो को रसोई के लिए सिलेंडर नही मिल पा रहे है, उपभोक्ता बताते हैं कि इन दिनों जब भी उपभोक्ता सिलेडर लेने जाते हैं तो उनको एजेन्सी द्वारा जबरन एक पाइप देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

25 हजार का इनामी लुटेरा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

मथुरा। थाना सुरीर पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में 25 हजार के इनामी अन्तर्राज्यीय लुटेरे को मुठभेड के दौरान पैर में गोली लगी है। गोली लगने घायल हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कब्जे से एक तमंचा, दो जिन्दा कारतूस व दो खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल एवं एक आईफोन बरामद किये है। इनामी अन्तर्राज्यीय लुटेरा बन्टू उर्फ बलराम पुत्र जयसिंह जाट निवासी बासीखुर्द थाना सेवर जिला भरतपुर राजस्थान उम्र करीब 27 वर्ष के साथ थाना सुरीर पुलिस एवं स्वाट टीम की तेहरा अन्डरपास से लमतौरी की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर मुठभेड़ हुई। अभियुक्त बन्टू उर्फ बलराम को उपचार के लिए सीएचसी नौहझील भिजवाया गया है। बंटू थाना नदबई जिला भरतपुर में 25000 रुपये का ईनामिया है। अभियुक्त के विरूद्ध जीआरपी भरतपुर पर पांच अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। कार्यवाही करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा थाना सुरीर, एसआई मानकचन्द्र शर्मा, एसआई अमित कुमार, एसआई गौरव

चाहल, एसआई विनोद कुमार, एसआई मनोज कुमार, प्रबल प्रताप, एसआई रजनीश नैन, एसआई सुनीत कुमार, एसआई नितिन तेवतिया, एसआई भूपेन्द्र सिरोही, एसआई विनित दांगी थाना सुरीर आदि थे।

रावण: राज्य की हुई मुनादी भ्रमण पर लंकेश

कोसीकलां। जगमग करते रथ पर वेदों का ज्ञानी दशानन अपने परिवार और सेनापतियों के साथ नगर भ्रमण पर निकला। उसकी गर्जना से नर–नारी कांप उठे। बैंडबाजों और ढोल–नगाड़ों के साथ रावण के सेवक सम्राट होने की दुहाई दे रहे थे। यह दृश्य देखने के लिए बाजार में काफी भीड़ रही। रामलीला महोत्सव में लंकापति की शोभायात्रा शुक्रवार शाम करीब छह बजे तालाबशाही स्थित रामभवन से शुरू हुई। जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई रामभवन पर संपन्न हुई। सवारी के आगे–आगे रावण के सेवक रावण राज्य शुरू होने का एलान करते चल रहे थे।

मेले के दौरान शनिवार को गणेश जी की सवारी के साथ रामलीला मैदान में नारद मोह लीला का मंचन किया।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक एस.एन. राना द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजडू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं मौहल्ला सूफी टोला शाहजहांपुर रोड बरेली, उप्र. से प्रकाशित।

सम्पादकः एस.एन. राना

*कार्यकारी सम्पादक आनन्द बत्रा 'सुमन'

☎0581-2562222 (बरेली)

मुख्यालयः मोबाइल-9720007290

R.N.I. No UPHIN/2003/11165

www.shahtimesnews.com

email:shahtimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

शिकायत की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

नर्सिंग होम संचालक नर्सिंग होम बन्द कर हुआ फरार

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी। नगर के एक युवक ने नर्सिंग होम संचालक पर आरोप लगाते हुए जिलाअधिकारी व मुख्य चिकित्सका अधिकारी से आठ सितंबर को शिकायत की थी कि सक्लेनी नर्सिंग होम अनट्रैंड लड़कियो के सहारे चल रहा है सक्लेनी नर्सिंग होम महिलाओ की जिन्दगी से खिलवाड कर रहा है।

नवेद ने अपनी शिकायत मे कहा था कि नगर का सक्लेनी नर्सिंग होम अनट्रैंड लड़कियो के सहारे चल रहा आये दिन इस अस्पताल पर अनट्रैंड लड़किया जच्चा बच्चा की जिन्दगी से खिलवाड करती रहती है शिकायत करने के बाद भी इस अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नही करी इसकी शिकायत जिला अधिकारी से कर इस नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी बिजार खाता मार्ग पर सक्लेनी नर्सिंग होम है।

इस नर्सिंग होम पर एमबी बी एस कोई डॉक्टर नही रहता है इस नर्सिंग होम पर डिलीवरी करने के लिए अनट्रैंड लड़किया कक्षा दस व बारहा की छात्रा महिलाओ की डिलीवरी कराती है जो जच्चा बच्चा दोनो की जिन्दगी को खतरा बना रहता है दो महा पूर्व इस नर्सिंग होम पर शिशू के इलाज की व्यवस्था न होने पर एक शिशू की मौत भी हो चुकी है अगले दिन महिला की भी मौत होगई थी मामला

पैसे ले देकर रफा दफा कर दिया गया इस नर्सिंग होम पर मरीजो के लिए कोई सुविधा नही है।

इस नर्सिंग होम की पूर्व मे भी शिकायत की गई लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नही की इसकी शिकायत नगर निवासी नवेद हुसैन ने जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अधिकारी अमन देवल से कर कार्रवाई की मांग की थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नवेद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर दिवेश चौधरी को सक्लेनी नर्सिंग होम की जांच के आदेश दिये लेकिन सूचना लीक होने के कारण नर्सिंग होम संच. ालक नर्सिंग होम बन्द कर फरार होगया जांच को गई स्वास्थ्य विभाग की टीम नर्सिंग होम की जांच किये बिना ही वापस हो गई।

अस्वास्थ्यकर जीवनशैली बन रही है बीमारी का प्रमुख कारण

पीएमश्री केन्द्रीय विधालय सीआरपीएफ में कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दिया गया स्वास्थ्य परामर्श

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। पीएमश्री केन्द्रीय विधालय सीआरपीएफ में कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। इस दौरान संविदाकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच के दौरान स्वास्थ्य परामर्श देते हुए आयुर्वेद मनोचिकित्सक कुलदीप सिंह चौहान ने कहा कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, जो हृदय

रोग, मोटापा, मधुमेह, और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों को तेजी से जन्म दे रहा है।

असंतुलित आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू और शराब का सेवन प्रमुख अस्वास्थ्यकर आदतें आज लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बनी हुई हैं, जो स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं। इन जोखिमों से बचने के लिए नियमित संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचना, तथा पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रधानाचार्य अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पीएमश्री केन्द्रीय विधालय के दिशानिर्देशनुसार दस कर्मचारियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद स्वास्थ्य परामर्श दिया गया है।

ताजपुर के जंगल से अल्टीनेटर चुराते दो चोरों को पकड़ पुलिस को सौंपा

शाह टाइम्स संवाददाता

सैफनी/रामपुर। पुलिस ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को चोरी करते समय किया गिरफ्तार थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि अनस पुत्र हनीफ व सुलेमान पुत्र अली अहमद निवासीगण मोहल्ला भजनपुर कस्बा व थाना सैफनी जनपद रामपुर को ग्राम ताजपुर बेहटा के जंगल में वादी का अल्टीनेटर चुराते समय वादी द्वारा व अन्य व्यक्तियों की सहायता से पकड़कर मय अभियुक्तों की बाईक हीरो स्प्लेंडर सहित थाना लाया गया जिसमें दोनों अभियुक्तों को मय माल सहित पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर बरामदगी के आधार पर थाना सैफनी पर मु0अ0सं0 172/2025 धारा 303(2)/317(2) बी एन एस में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की।

टाइगर क्लब ने 3-2 के अंतर से मैच जीत अगले राउंड में किया प्रवेश

शाह टाइम्स संवाददाता

टांडा/रामपुर। नगर के मंसब अली स्पोर्टस स्टेडियम में चल रहे खान कप फुटबाल टूर्नामेंट के मैच में टाइगर क्लब ने शाइनिंग क्लब से 3-2 के गोल के अंतर से मैच जीत कर, अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है।

मैच के पहले हाफ शुरू होते ही शाइ. निंग क्लब ने ताबड़तोड़ आक्रमण करना शुरू किया और मैच के दूसरे मिनट में ही शाइनिंग क्लब के फुजैल ने अरफात के पास द्वारा पहला गोल किया। पलट पलटवार करते हुए टाइगर क्लब के खिलाड़ी नफीस ने गोल कर मैच बराबरी पर खड़ा कर दिया। दूसरे हाफ में शाइनिंग क्लब ने गोल कर दो गोल की बढ़त बनाई, लेकिन अंतिम समय में टाइगर क्लब के नफीस ने गोल कर मैच बराबरी पर कर दिया।

मैच मैदान में 2=2 गोल के साथ बराबरी पर समाप्त हुआ।

मैच रेफरी सगीर गुड्डू ने पांच-पांच पेनाल्टी शूट लगवाने का फैसला लिया जिसमें टाइगर क्लब ने 3-2 के गोल के अंतर से मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। मैच का श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार टाइगर क्लब के तीन गोल करने वाले खिलाड़ी नफीस को दिया गया। मैच रेफरी सगीर गुड्डू, लाइन मैन शहाब. ुद्दीन और शुएब रहे। कमेंट्रेटर मुहम्मद सईद सागर, जहीर जिया, वसीम अकरम रहे।

आयोजक दाऊद, सगीर गुड्डू, राहत अली, जुबैर आलम, ताहिर बफन, महफूज मुन्ना, कारी रिजवान, जैद कुरैशी, मकसूद, अब्दुल आदि मौजूद रहे।

भूकंप रासायनिक हादसों पर मॉक एक्सरसाइज कार्यक्रम का हुआ आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक /रामपुर। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में तहसील मिलक के साम. ुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में मिलक में शुक्रवार को भूकंप, औद्योगिक (रासायनिक) दुर्घटनाओं और अग्नि सुरक्षा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा।

उप जिलाधिकारी आनंद कुमार कनौजिया ने बताया कि मॉक एक्सरसाइज के सभी चरणों के संच. ालन हेतु तहसील स्तर पर संबंधित उपजिलाधिकारी आनंद कुमार कनौजिया अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी तहसील क्षेत्र में इस अभ्यास को सुनिश्चित कराएं।

तहसील मिलक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलक पर उप जिलाधिकारी मिलक के निर्देशन में सुबह 11 बजे से 12:00 बजे तक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित बचाव और राहत कार्यों की तैयारी को परखना और जनमानस में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी आनंद कुमार कनौजिया क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह परिहार तहसीलदार सीमा गंगवार नायब तहसीलदार अंकित अवस्थी सीएचसी प्रभारी डॉ बासित अली सहित अग्निशमन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्री सनातन रामलीला कमेटी का उद्धघाटन विधायक शफीक अंसारी ने फीता काटकर कर किया

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार। श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी की और से स्वार में भव्य श्री राम लीला मंचन शुरू हुआ जिसका स्वार टांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी ने फीता काट कर शुभारंभ किया इस मौके विधायक शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि भगवान श्री राम जी सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं हमें उनके पथ चिन्हों पर चल कर ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं उनके उपदेश हमें भाईचारे से जीने व ऊच नीच मिटाने की सीख देते हैं राम लीला में आये अतिथिगणों को श्री राम लीला कमेटी की तरफ सम्मानित किया गया।

इस मौके पर श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शंकर लाल राठौर, व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी, विधायक

सलाहकार दीपक नागर, शिव औतार सक्सैना उर्फ मन्नू, दीप सिंह राही, अजेन्द्र राठौर, धर्मेंद्र शर्मा, अर्जुन शर्मा, सुशील गुप्ता, सोरन सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अनवर अली, राजेश शर्मा, हाजी अकील अंसारी सभासद, हाजी टीपू मेम्बर, हामिद अल्वी, इस्माल मुल्ला जी,फारुक प्रधान, मो आरिफ प्रधान, डॉ प्रेमपाल, ठाकुर नूरहसन व मीडियम प्रभारी इदरीस खा आदि लोग मौजूद रहे।

सैफनी पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर की विधिक कार्यवाही

शाह टाइम्स संवाददाता

सैफनी /रामपुर। थाना पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार बताते चले कि एक वारंटी प्रेमपाल पुत्र भीमसेन निवासी ग्राम चौकोनी थाना सैफनी जनपद रामपुर को संबंधित केस नंबर 6763/14 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गिरफ्तार करने बाली टीम उप0नि0 शिशुपाल सिंह का0 लोकेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

रामपुर में नई आशाओं का प्रशिक्षण हुआ संपन्न

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। चादर वाला बाग स्थित डीआईओएस कार्यालय मीटिंग हॉल में 29 नवीन आशाओं का आठ दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए। जनपद के सात ब्लॉक से ग्राम पंचायत द्वारा नामित नवीन आशाओं को अपने गांव की एह हजार आबादी की महिलाएंक्र नवजात शिशु एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु 29 नवीन आशाओं का आठ दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर मूल्यांकन उपरान्त प्रमाण पत्र वितिरित करते हुए सीएमओ डा. दीपा सिंह ने कहा कि आशाएं अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य विभाग की सभी प्रकार की नि:शुल्क योजानाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। गर्भवती महिलाओं की सभी जांचे अपने निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में करवाएं

एवं सरकारी संस्थान में ही प्रसव करवाना सुनिश्चित करें।

कोई भी प्रसव प्राईवेट संस्थान में आपके माध्यम से नहीं जाने चाहिए। यदि इस बारे में किसी भी आशा की शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। डीसीपीएम प्रभात कुमार ने कहा कि यह नवीन आशाएं निष्क्रीय आशाओं के स्थान पर चयनित की गई है। यदि किसी भी क्षेत्र की आशा द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उससे सेवाएं लेना बन्द की जाएगी और पंचायत को सूचित कर नई आशा चयनित करने को कहा जाएगा। नोडल डा.संतोष कुमारक्र राज्य प्रशिक्षक डा. कुलदीप सिंह चौहानक्र डा.ओमकारक्र सीता देवी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार मौजूद रहे।

श्रद्धा, भक्ति और रंगारंग झलकियों से सजा श्री रामलीला महोत्सव का चौथा दिन

सुबह की रासलीला में झलकी प्रेम और भक्ति की अनुपम छटा

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। उत्सव पैलेस रामलीला ग्राउंड में चल रहे श्री रामलीला महोत्सव का चौथा दिन श्रद्धा, कला और मनोरंजन का अनोखा संगम बन गया। सुबह से ही वातावरण भक्तिमय रहा और देर रात तक रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों को बांधे रखा।

दिन की शुरुआत प्रात: 9 बजे रासल. ीला और श्रीकृष्ण की निकुंज लीलाओं से हुई। मंच पर जब कलाक. ारों ने भगवान कृष्ण की बाल और

युवा लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया तो दर्शक भाव-विभोर होकर झूम उठे। प्रेम, भक्ति और दिव्यता से ओतप्रोत इन प्रस्तुतियों ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के हृदय को छू लिया। शाम ढलते ही जैसे ही मंच पर रंगीन रोशनियां बिखरीं, महोत्सव का आकर्षण और बढ़ गया। रात 8:30 बजे वृंदावन से आए कलाकारों ने भव्य मंचन के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री राम जन्म, बाल लीलाएं, श्री जानकी जन्म, शिव-कागभूषण संवाद और शंकर-कौशल्या संवाद जैसे प्रसंगों का जीवंत प्रदर्शन देखकर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर दृश्य पर दर्शकों की भावनाएं उमड़ पड़ीं और उनकी आंखों में भक्ति और आस्था झलकने लगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश गुप्ता, संजय गुप्ता और प्रीति अग्रवाल का कमेटी द्वारा पुष्पगुच्छ और शॉल पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मंच से आयोजित विशेष लकी ड्रा ने समारोह में उत्साह का नया रंग भर दिया, जिसमें विजेताओं के नाम स्वयं अतिथियों ने घोषित किए। उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष विष्णु शरण अग्रवाल, महामंत्री वीरेंद्र कुमार गर्ग, सह-अध्यक्ष सुनील कुमार गोयल 'सोनी ताऊ', उपाध्यक्ष हरीश चन्द्र अग्रवाल, सुभाष चन्द्र अग्रवाल, ईश्वर सरन अग्रवाल, विना. ेद कुमार गुप्ता, वेद प्रकाश वर्मा, अरविन्द कुमार अग्रवाल, डॉ. सौरभ गुप्ता, जुगेश अरोड़ा, डॉ. अजय कुमार अग्रवाल, अनिल वशिष्ठ, इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार गोयल समेत बड़ी संख्या में गणमान्यजन मौजूद रहे। चौथे दिन का यह भव्य आयोजन न केवल भक्तिरस से सराबोर रहा बल्कि दर्शकों की उम्मीदों को भी और ऊंचा उठा गया। लोग उत्सुकता से अगली प्रस्तुतियों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि रामलीला महोत्सव की यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा उन्हें और यादगार अनुभव दे सके।

मोटरसाइकिल की चपेट में आने से वृद्धा की हालत गंभीर अस्पताल में कराया भर्ती

मसवासी। बिजारखाता में स्वार बाजपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक वृद्धा सड़क पर गिरकर चोटिल हो गई जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई परीजनो ने स्थानीय चिकित्सक के पास भर्ती कर गया है। शुक्रवार को दोपहर बिजारखाता निवासी वृद्धा चंदों उम्र 90 पत्नी स्वर्गीय सफिया अपने बेटे के घर जाने के लिए स्वार बाजपुर मार्ग पर कर रही थी की विपरीत दिशा से आ रहा बाइक सवार वृद्धा से टकरा गया वृद्धा बाइक से टकराकर मार्ग पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई परीजनो ने घायल वृद्ध को उठाकर स्थानीय चिकित्सक के पास भर्ती कराया जहा पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

फतेहगंज प. में सड़क हादसे में मिलक के युवक की मौत

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक /रामपुर। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा के पास मिलक के बाइक सवार युवक की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तहसील मिलक के ग्राम सुनारखेड़ा निवासी अंकुश गंगवार पुत्र छोटेलाल (30वर्ष)हाल निवासी नगर के साहू जी नगर बरेली की एक एजेंसी में जॉब करता था और नगर के अपने घर से रोज बाइक से ही आता जाता था अंकुश गंगवार रोज की तरह बरेली एजेंसी पर काम करने के लिए घर से आज सुबह लगभग 9:30 बजे बरेली को अपनी बाइक से जा रहा था फतेहगंज पश्चिमी टोल के पास किसी अज्ञात वाहन ने अंकुश की बाइक में टक्कर मार दी टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना की सूचना राहगीरो पुलिस को दी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामभर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को सूचना पाकर मृतक अंकुश गंग. वार के घर में कोहराम मचा हुआ है मृतक का एक छोटा बच्चा भी है मृत्यु की सूचना पर गांव तथा परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण न्यायालय तहसील स्वार, रामपुर

बाद सं.-1271 सन् 2025
साजमा बनाम फरमान आदि
धारा-12 घरेल हिंसा अधिनियम
थाना-स्वार, रामपुर
सम्मन बनाम विपक्षीगण

1. फरमान पुत्र मतलूव
2. हासमीन पत्नी मतलूव
3. मतलूव पुत्र नामालूम
4. फुरकान पुत्र मतलूव
5. महरवान पुत्र मतलूव
6. अब्दुल कादिर पुत्र मतलूव
7. फैज बी पुत्री मतलूव
8. गुड़िया पुत्री मतलूव समस्त निवास. ीगण ग्राम मुकरमपुर थाना स्वार जिला रामपुर।
9. सदाकत पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम कुआंखेड़ा थाना टाण्डा जिला रामपुर।

प्रकाशन हेतु
याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा-12 के अधीन आवेदन फाइल किया है।
आपको यह कारण बताने के लिये क्यो न आवेदक द्वारा मांगे गये अनुतोष को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाये। व्यक्तिगत रूप से या इस न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत काउंसिल के मार्फत 23.09.2025 को 11 बजे पूर्वाहन मे इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमें असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्रामीण न्यायालय तहसील स्वार, रामपुर।

जल ही जीवन है

न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज (जू.डि), जिला रामपुर उ.प्र.

मूल वाद संख्या-303 सन 2019
प्रीतम सिंह बनाम गुरपाल सिंह आदि
नोटिस बनाम
गुरपाल सिंह रन्धावा पुत्र गुरदेव सिंह रन्धावा निवासी ग्राम पिपलिया अहला तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर
2. श्रीमती हरेन्द्र कौर पत्नी स्व. यादविन्दर सिंह निवासी ग्राम पिपलिया अहला, तहसील- बिलासपुर, जिला रामपुर
3. अमरीक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह चौहान, तहसील न्यायालय परिसर एस.डी.एम. कोर्ट, तहसील- बिलासुर जिला रामपुर।
......प्रतिवादीगण संख्या-1, 2 व 5
हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत निरस्ती बयनामा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की बिक्री हेतु दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि वे वतारीख हस्वजैल का असालतन या मार्फत के जो हालात मुकदमा से करार वाकई वाकिफ किया गया है और जो कुल अहम मुताल्बिक मुकदमा का जवाब दे सके या जिनके पास कोई शख्स हो जो जवाब ऐसे हवालात दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा भी करें और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तेमाल करना चाहते हो।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा गैर हाजिरी आपका मसमुआ फैसला होगा।
दस्तखत मेरे और मोहर के आज बतारीख 17/09/2025 ई. जारी किया गया।
तारीख वास्ते दाखिल करने जवाब-03-10-2025
तारीख वास्ते मुकर्ररी तनकीह-03/10/2020

मुन्सरिम, न्यायालय अपर सिविल जज, (क.ख.) रामपुर।

भगवान वाल्मीकि जी शोभा यात्रा के पद अधिकारियों का गठन

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार। शुक्रवार को भावाधस के राष्ट्रीय महासचिव दीप सिंह राही ने भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के लिए भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी का गठन किया जिसको भावाधस 7अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।गठन में भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी में सुनील वाल्मीकि, अध्यक्ष सर्वेश चौधरी उपाध्यक्ष, महेंद्र वाल्मीकि सचिव , कपिल वाल्मीकि एडवोकेट कोषाध्यक्ष, प्रदीप राजहंस प्रचार मंत्री, कैलाश एक लव्य संरक्षक, प्रमोद वाल्मीकि उपसचिव , प्रवेश वाल्मीकि सलाहकार, गौरव, विनोद, रितिक,राजा, अशोक, अजय,पूरन, सुधीर, राजू, रवि, आदि बनाये गये।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार। नगर में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मुकर्रम मिया के आवास पर एक बैठक आहूत हुई।जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित ने कार्यकर्ताओं की बैठक में हस्ताक्षर अभियान प्रारम्भ किया।जिसमें उन्होंने बोलते हुए उन्होंने कहा मतदान लोकतंत्र की आत्मा है।

हर नागरिक को मत डालने का मौलिक अधिकार है जिसके लिए जनता को सदैव जगरूक रहना होगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बोट चोरी की साजिश से सतर्क रहना होगा।उन्होंने अभियान के राष्ट्रीय महत्व पर विस्तार पर प्रकाश डालते हुए। जनता से अपील की हस्ताक्षर

अभियान में ज्यादा से ज्यादा जुड़कर सफल बनायें। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष एहसान खा उर्फ राजू खा, जिला सचिव दानिश अंसारी,नगर अध्यक्ष मुकर्रम मियां, साहिर रजा खां, नुमान खा, मुमताज,मुकीम उर्रहमान, मो शाहिद अली, आरिफ खा, फईम मियां, असलम अंसारी, असगर खा, मन्सूर अली आदि मौजूद रहे।

ज्वाला नगर में रामलीला शुरू, नारद मोह का मंचन

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। ज्वाला नगर में शुक्रवार को रामलीला मंचन प्रारंभ हुआ।

अतिथियों की ओर से पूजा-अर्चना की गई।

भगवान श्रीराम के जयकारों के साथ राधिका कृष्ण कला मंडल वृंदावन मथुरा के कलाकारों ने रामलीला का मंचन प्रारंभ किया।

मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने ज्वाला नगर रामलीला का फीता काटकर उद्घाटन किया।

विशिष्ट अतिथि शहर विधायक आकाश सक्सेना, सूर्य प्रकाश पाल (दर्जा राज्यमंत्री), हरिशंकर दुबे, अनिल वशिष्ठ, ख्यालीराम लोधी, योगेन्द्र चौहान, हरीश गंगवार, प्रेम तिवारी आदि मौजूद रहें।

इसके बाद मनोज पंडित द्वारा पूरे विधि विधान से गणेश जी का पूजन किया गया।

तत्पश्चात नारद मोह का मंचन शुरू हुआ नाटक में, देवर्षि नारद को माया के जाल में फंसकर विवाह के लिए व्याकुल होते हुए दिखाया गया। जब देवर्षि नारद भगवान विष्णु से उनके स्वरूप की मांग करने गए, तो उन्होंने विष्णु से कहा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुवेगि दास मैं तोरा।

भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें बंदर का रूप दिया।

नारद तब माया नगर गए और एक माया कन्या से विवाह किया।

इससे क्रोधित होकर नारद ने भगवान

विष्णु को भी अपनी पत्नी से अलगाव में भटकने का शाप दिया।

उसी समय, विष्णु के अनुयायी जय विजय को राक्षस बनने का शाप मिला।

श्री रामलीला का मंचन रात 8 बजे शुरू हुआ और देर रात तक जारी रहा।

इस अवसर पर सुरेश अग्रवाल, अवधेश शर्मा, डॉ तेजवीर यादव, त्रिभुवन पंडित, अनुज सक्सेना, आशु गुप्ता, डॉ अनिल सक्सेना, शकुंतला लोधी, देवेश गुप्ता, अन्नु सक्सेना, मोहित मल्होत्रा, चितरंजन श्रीवास्तव, सुभाष सक्सेना, पुनीत अग्रवाल, संजू प्रजापति, रामेंद्र गुप्ता, नवनीत सक्सेना, संजू बाबा, दिनेश कश्यप, विनोद कश्यप, संजीव दयाल सक्सेना, प्रेमपाल यादव, अरुण कीर्ति सक्सेना ,धर्मवीर यादव, सचिन सिंह, संतोष प्रसाद, अन्नु गंग. वार, राजीव लोचन, मुन्ना हरि, अमित दिवाकर, राजेश नायक, देवेंद्र श्रीवास्तव, रवि रामपुरी, भूकनलाल सैनी, जागन लोधी, मिंटू गुप्ता, नंद किशोर शर्मा, पीयूष कुमार, विक्की सक्सेना, राहुल शर्मा, नरेंद्र सक्सेना, सोनू शर्मा, दिनेश सक्सेना आदि समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

डीएम ने विकास खंड चमरौआ स्थित निर्माणाधीन पशु चिकित्सा केंद्र का किया निरीक्षण

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। शुक्रवार को जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने विकासखंड चमरौआ के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय व विकास खंड में निर्माणाधीन पशु चिकित्सा केंद्र का औचक रूप से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी को भवन की रंगाई पुताई कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने 59 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन पशु चिकित्सा केंद्र, पनवड़िया के निर्माण कार्य को तीव्रगति से कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दिये।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये और सभी कार्य मानक के अनुरूप ही करायें।

जिलाधिकारी ने पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि पशु चिकित्सालय में आने वाले पशुओं के लिए शेड अच्छी गुणवत्ता का बनवाया जाये और चारा-पानी आदि की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र जायसवाल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामलखन सहित बीडीओ चमरौआ मौजूद रहे।

किसानों की फसल का लाखों रुपये मारकर बैठे हैं आधा दर्जन मंडी के आढती

■ **अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डिफाल्टर आढ़तियों के खिलाफ कार्यवाही कर पैसा दिलाने की मांग की**

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। नगर की मंडी समिति के आधा दर्जन आढती किसने की फसलों के लाखों रुपयों को मारकर बैठे हैं। मंडी समिति के सचिव ने आधा दर्जन आढ़तियों को डिफाल्टर घोषित किया है और किसानों से इन डिफाल्टर आढ़तियों अपनी फसल न बेचने की अपील की गई है। इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डिफॉल्टर आढतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने उपजिलाधिकारी मिलक को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि मण्डी समिति मिलक में, क्षेत्र के हजारों किसान अपनी उपज को बेचने के लिए आते हैं, ऐसे में कई आढ़ती ऐसे भी हैं जिनका व्यवहार किसानों के प्रति बहुत ही बढ़िया है, और किसानों की उपज का समय से भुगतान भी किया जाता है। उन व्यापारी भाईयों से किसानों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन मण्डी समिति मिलक में कई ऐसे आढ़ती हैं जिन्होंने किसानों की लाखों रुपए की उपज खध्रीद कर उनका पैसा नहीं दिया है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। इसी सम्बन्ध में सचिव मण्डी समिति मिलक के सचिव द्वारा मण्डी समिति मिलक में सूचना बोर्ड पर एक सूचना लिखा दी है जिसमें कहा गया है कि कुल 06 ऐसे आढ़ती हैं जो कि किसी न किसी रूप में मण्डी समिति के तथा किसानों की उपज का पैसा नहीं देने के कारण उन्हें डिफाल्डर घोषित किया गया है और किसान भाईयों से अपील की गई है कि कोई भी किसान भाई अपनी उपज इन 06 डिफाल्टर आढ़तियों को न बेचें। इनके नाम रिंकू गुप्ता जय श्री श्याम इंटरप्राइजेज, जय सिंह यादव श्री कृष्णा राइस मिल,,सीताराम गुप्ता सीताराम गुप्ता एण्ड संस, हजारी लाल गुप्ता लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, . सुनील रुहेला रुहेला ट्रेडिंग कंपनी और सुखनन्दन गंगवार जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज इन 06 आढ़तियों को सचिव मण्डी समिति मिलक द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया है। पत्र में आग्रह किया गया है कि सभी 06 आढ़तियों से किसानों की उपज का बकाया पैसा अति शीघ्र दिलाए जाने हेतु सम्बंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनकी सम्पत्ति को नीलाम कराकर गरीब किसानों का पैसा दिलाया जाए, साथ ही दुकान का लाइसेंस अति शीघ्र निरस्त कराकर उनकी दुकानों को मण्डी समिति के कब्जे में लिया जाए। जिससे कि भविष्य में कोई भी आढ़ती किसानों की उपज का पैसा रोकने की कोशिश न कर सके।

इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता में लड़कियां रहीं आगे

■ **कुबारा, काशिफा और शिफा ने दिए सही जवाब, ईनाम पाकर चेहरे खिले**

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता में लड़कियां आगे रहीं। उन्होंने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही जवाब देकर ईनाम और शाबाशी हासिल की। ग्राम प्रधान संगठन के जिला उपाध्यक्ष काशिफ खां ने पुरस्कार बांटे। ईनाम पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे।

ग्राम पंचायत मनकरा स्थित मदरसा प्रांगण में जुमे की नमाज के बाद आयोजित कार्यक्रम में इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता में विजयी कुबरा पुत्री असलम खां, काशिफा अख्तर अली और शिफा पुत्री इस्ताक हुसैन को राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के जिला उपाध्यक्ष काशिफ खां ने ईनाम से नवाजा। उन्होंने बताया कि हाफिज अब्दुल कदीर, शहजान खां,

मुनीर अहमद, शुऐब खां, यामीन, शानू और शावेज रजा के प्रयासों से इस्लामी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में इस्लामी विषयों, पैगंबरों की सीरत, कुरान, हदीस, इस्लाम के स्तंभों और अन्य धार्मिक शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। विजेताओं को नकद पुरस्कार के अलावा मेडल, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिए गए।

कार्यक्रम में काशिफ खां ने दीनी और दुनियावी तालीम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की सही जानकारी हासिल करना भी जरूरी है ताकि नई पीढ़ी सही रास्ते पर चल सके।

लोगों ने दो चोरों को मय सामान के पकड़कर पुलिस को सौंपा

शाह टाइम्स संवाददाता

सैफनी/रामपुर। नगर गुरुवार की देर रात को लोगों ने दो चोरों को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। जानकारी के अनुसार कमल कुमार पुत्र रमेश चंद्र निवासी खसरा मंदिर थाना सैफनी जनपद रामपुर गुरुवार को ताजपुर ग्राम के जसिन्दर पुत्र अमर सिंह अपने बेटे को देखने अस्पताल जा रहे थे तब उन्होंने पीड़ित के प्लॉट के सामने एक बाइक को खड़े देखा।

जब जंसिन्दर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा दो लड़के मोटरसाइकिल पर जनरेटर की अल्टरनेटर को अपनी मोटर साइकिल पर रखकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो जसिंदर ने अंकित व उनके भतीजे मोंटी को दौड़कर मोटर साइकिल पर भागने की को. शिश कर रहे दो लोगों को पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम अनस पुत्र हनीफ वह दूसरे ने अपना नाम सुलेमान पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम भजनपुर थाना सैफनी बताया दोनों चोरों को पकडकर पुलिस के हवाले किया पीड़ित ने तहरीर दे कर कार्यवाही की माँग की है। पुलिस ने मुकदमां दर्ज कर कार्यवाही की है।

सर्वहितकारी इंटर कॉलेज के छात्र अंकुर जोशी न

जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में प्राप्त किया प्रथम स्थान

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी। नगर पंचायत मसवासी के सर्व हितकारी इंटर कॉलेज के कक्षा 6 के छात्र अंकुर जोशी ने जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता मे भाग लिया जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर मसवासी के सर्वहितकारी इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया उनके प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सभी अध्यापकजनों तथा परिजनों में हर्ष का माहौल है तथा एक दूसरे का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया तथा अपनी खुशी का इजहार किया तथा सर्वहितकारी इंटर कॉलेज में भी उस बच्चे की काफी प्रशंसा की गई।

फलावदा में रामलीला का शुभारंभ

■ **अतिथियों ने हवन के साथ किया भूमि पूजन**

शाह टाइम्स संवाददाता

फलावदा। नगर में श्री आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में गुरुवार को सर्व प्रथम हवन के साथ भूमि पूजन किया गया। उसके उपरांत रामलीला का विधिवत मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभ आरंभ कराया।

नगर के श्री बूढ़ा शिव मंदिर के परिसर में श्री आदर्श रामलीला कमेटी तत्वाधान में रामलीला का उद्घाटन विधिवत्त पूजन के साथ मुख्य अतिथि अश्वनी बिश्नोई, व्यापारी नेता अजय शर्मा, आदि व्यापारियों ने श्री राम दरबार चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर आरंभ कराई है। प्रभु श्री राम की रामलीला

प्रोजेक्टर पर्दे पर नारद मोह की लीला के साथ प्रस्तुत की गई है। इस दौरान कमेटी के प्रधान शरद चौधरी, उप प्रधान धीरज चौधरी, योगेश धीमान, वरुण भारद्वाज, नरेंद्र खटीक, योगेंद्र कुमार, कृष्ण गोपाल उर्फ पप्पू सैनी, गुड्डू उर्फ विपिन रस्तोगी, विकास पाल बजरंगी, छात्र नेता अश्वनी चौधरी, सुरेंद्र बिश्नोई, रमेश धीमान, भोपाल चौधरी, महेंद्र चौधरी, बिश्नोई, लोकेंद्र, अमित चौधरी, मास्टर टीकम आर्य आदि उपस्थित रहे।

शाह टाइम्स की खबर का असर

नींद से जागी नगर पालिका सरधना बैरून सराय में निर्माण कार्य शुरू

शाह टाइम्स संवाददाता

सरधना। जिस वार्ड के लोग पिछले एक वर्ष से नगर पालिका परिषद में अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए चक्कर काट रहें थे, शुक्रवार को शाह टाइम्स में खबर प्रकाशित होते ही नगर पालिका की नींद टूट गई।

पालिका की टीम ने शुक्रवार सुबह से ही वार्ड में पहुंचकर नालियों के निर्माण शुरू कर दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। नगर के वार्ड नंबर 19 के लोग पिछले एक साल से नालियों में जमा पानी की समस्या से काफी परेशान थे, जिसकी शिकायत नगर पालिका परिषद में की जा चुकी थी, लेकिन पालिका की तरफ से कोई भी कार्यवाही नही की गई। नालियों में जमा पानी की वजह से कई मकानों में दरारें आ गई थी, जो गिरने की कगार पर पहुंच चुके है। इस मामले को शाह टाइम्स ने शुक्रवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर छपते ही हरकत में आई नगर पालिका की टीम ने सुबह पहुंचते ही नालियों का निर्माण शुरू कर दिया। वार्ड के लोगों ने शाह टाइम्स की टीम को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दर्जनों शिकायतों के बाद भी पालिका ने इस तरफ कोई ध्यान नही दिया था, लेकिन नगर पालि. का ने खबर छपते ही मामले का संज्ञान लिया। पालिका ने वार्ड की कई गलियों में निर्माण शुरू कर दिया है।

सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी की दी तहरीर

शाह टाइम्स संवाददाता

फलावदा। लखनऊ में तैनात सिपाही ने कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर सहारनपुर के एक युवक से डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए। तमाम प्रयासों के बावजूद सिपाही रुपए वापस नहीं लौटा रहा है। पीड़ित ने थाने में सिपाही के खिलाफ तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक कस्बे का एक युवक पुलिस में तैनात है। फिलहाल उसकी तैनाती लखनऊ चल रही है। सहारनपुर के गांव खेड़ा निवासी लक्की पुत्र रामनाथ ने फलावदा थाने पहुंचकर एक तहरीर देते हुए बताया कि करीब 8 महीने पहले कस्बे के मूल निवासी लखनऊ में तैनात चल रहे सिपाही ने कोर्ट में चल रही वैकेंसी का जिक्र करते हुए नौकरी लगवाने का प्रलोभन दिया। नौकरी लगवाने के नाम पर उससे डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि उसने एक लाख रुपए नकद तथा पचास हजार रुपए ऑनलाइन वसूल किए। इसके बावजूद सिपाही ने उसकी नौकरी नहीं लगवाई।

सलावा गांव जा रहे लोकदल के नेताओं को पुलिस ने रोका

■ **मुस्लिम पक्ष से पुलिस ने कराई होटल में मुलाकात**

शाह टाइम्स संवाददाता

सरधना। थाना क्षेत्र के गांव सलावा में हुए चार दिन पूर्व ठाकुर व मुस्लिम समाज के पक्ष के बीच विवाद के बाद गांव में शांति वार्ता के लिए जा रहें लोकदल के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने दौराला गंगनहर पुल चौकी के पास ही रोक लिया। पुलिस ने पास के एक होटल में मुस्लिम समाज के पक्ष के लोगों को बुलाकर उनसे वार्ता कराई। वार्ता के बाद लो. कदल के नेताओं ने शांति का माहौल बनाने व निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिलाया।

ज्ञात है कि गांव सलावा में चार दिन पूर्व मंगलवार रात्रि में ठाकुर व मुस्लिम समाज के पक्ष के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर बवाल हो गया था। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुस्लिम पक्ष के आठ लोगों को जेल भेज दिया था। इस मामले में

गुरूवार को प्रशासन की तरफ से आरोपियों के घर पर अवैध निर्माण बताकर दो मकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही की थी। मामला प्रदेश व केन्द्र की सरकार में हाइलाइट होने के बाद राजनीतिक दल भी इस मामले में कूद पड़े थे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से शुक्रवार को एक प्रतिनिधि मंडल दोनों पक्षों से मिलने जाने के लिए गांव में जाना था। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पार्टी के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय महासचिव राजेन्द्र शर्मा, सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद, जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़, सरधना विधानसभा प्रभारी सदस्यता आतिर रिजवी, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ संगीत दोहरे, क्षेत्रीय महासचिव गौरव जिटौली, महासचिव संजय पनपाड़ी, जिला पंचायत सदस्य अनिकेत भारद्वाज, सरधना विधानसभा प्रभारी सदस्यता आतिर रिजवी, सतेन्द्र तोमर आदि के साथ प्रतिनिधिमंडल की टीम गांव जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बैरीकैडिंग लगाकर रोक लिया। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह के समझाने के बाद प्रतिनिधिमंडल गांव में जाने से रूके, और वार्ता के लिए पास के ही एक होटल में बैठने की व्यवस्था कराई गई। जहां पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता कराई। जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर वहां मौजूद विधायक गुलाम मोहम्मद ने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की बात कही। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि मामले में पुलिस की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई की गई है, साथ ही गांव से किसी का भी पलायन नही होने दिया जायेगा। पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को ठाकुर समाज से मुलाकात कराने के लिए दो दिन का समय भी मांगा। गांव में शुक्रवार को भी पुलिस की तरफ से भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई।

दबंग पर कार्रवाई की मांग को लेकर कप्तान ऑफिस पहुंची भीम आर्मी

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। थाना खरखौदा के गांव बिजौली में दबंग प्रवर्ती के लोगो ने क्षेत्र के रहने वाले धीरज वाल्मीकि को बुरी तरह पीटा, पीड़ित के पांव और हाथो की हड्डीया तोड़ी गई। जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दोषियों का 151 में चालान कर दिया। जमानत मिलते ही नीरज वाल्मीकि को और उनके परिवार को आरोपी दबंग प्रवृत्ति के लोग जान से मारने की धमकी दे रही है इसी मामले को लेकर

भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बिजेंदर सूद ने अपनी टीम को लेकर एसएसपी ऑफिस का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर दोषियों पर सही कार्रवाई नहीं हुई वह अपने समाज के साथ यहां पर बड़ा आंदोलन करेंगे।

बीडीएमएम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता आयोजित

मेरठ। बीडीएमएम गर्ल्स डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद में प्राचार्या प्रो. गीता यादवेंद्र के संरक्षण व समाजशास्त्र विभागध्यक्ष डॉ. नम्रता प्रसाद के निर्देशन में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय समाजशास्त्र में अगस्त कॉम का योगदान था। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में विशेषकर बीए प्रथम वर्ष की नवप्रवेशित छात्राओं में समाजशास्त्र विषय के प्रति अच्छी समझ और रुचि को प्रोत्साहित करना था। छात्राओं के उत्साहपूर्ण उपस्थिति से प्रतियोगिता अपने उद्देश्य में सार्थक होती हुई दिखाई दी। प्रतियोगिता में कुल 63 छात्राओं ने प्रतिभाग किया जिनमें बीए प्रथम वर्ष से लेकर एमए तक की छात्राएं शामिल थी। प्रतियोगिता की संयोजिका डॉ. पिंकी यादव ने प्रतियोगिता के नियमों एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्राओं में अध्ययनशीलता और प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ एवं सकारात्मक ऊर्जा निरंतर प्रभावित होती रहती है। छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं

का मूल्यांकन समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉ. नम्रता प्रसाद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ममता भारद्वाज ने अत्यंत सावधानी और बारीकी से करते हुए निष्पक्ष रूप से परिणाम घोषित किया जिसमें प्रथम स्थान पर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा कशिश चौहान, द्वितीय स्थान पर बीए प्रथम वर्ष की अर्शी मिर्जा, तृतीय तान्या श्रीवास्तव तथा चतुर्थ निक्की श्रीवास्तव रही।

संक्षिप्त खेल समाचार

मैकलॉघलिन लेवरोन ने 42 साल पुराना चैंपियनशिप रिकॉर्ड तोड़ा

टोक्यो, वार्ता। अमेरिका की सिडनी मैकलॉघलिन-लेवरान ने गुरुवार को यहां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे लंबे समय तक चले आ रहे इवेंट रिकॉर्ड को तोड़कर दिन का सबसे यादगार पल बनाया, जबकि महिलाओं के ट्रिपल जंप फाइनल में हर्नांडेज ने चार बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक खिताबधारी वेनेजुएला की युलिमार रोजास को हराया। दो बार की ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ चैंपियन मैकलॉघलिन-लेवरोन ने महिलाओं के 400 मीटर फाइनल में 47:78 सेकंड में जीत हासिल की, और 1983 में पहली विश्व चैंपियनशिप में चेकोस्लोवाकिया की जर्मिला द्वारा बनाए गए 47:99 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड से 0.21 सेकंड कम समय में जीत हासिल की।

धीमी ओवर गति पर ऑस्ट्रेलिया पर लगा 10 प्रतिशत जुर्माना

न्यू चंडीगढ़, वार्ता। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम पर भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए मैच का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी द्वारा लगाया गया। मंगलवार को खेले गये दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित समय से दो ओवर कम फेंके थे। मैदानी अंपायर वृंदा व जननी, तीसरे अंपायर लॉरेन व चौथे अंपायर गायत्री ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर धीमे ओवर रेट का आरोप लगाया था। खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2-22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर- रेट संबंधित अपराध के लिए खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

वह सिर्फ संदेशवाहक थे: एंड्री

दुबई, वार्ता। 2025 एशिया कप को लगभग पटरी से उतारने वाले विवाद के केंद्र में रहे आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को 14 सितम्बर को भारत-पाकिस्तान मैच के टॉस से कुछ मिनट पहले ही बताया गया था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। उस समय, उन्होंने खुद को निर्देश देने के बजाय संदेश देने वाला समझा।

इसके बाद, पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर आईसीसी के नियमों और क्रिकेट भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग की गई। 14 और 17 सितम्बर को पाकिस्तान द्वारा खेले गए दो मैचों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आने लगी है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, यह विवाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में 'टॉस से चार मिनट पहले' शुरू हुआ। जैसे ही पाइक्रॉफ्ट मैदान पर पहुंचे, उन्हें एसीसी स्थल प्रबंधक ने बताया कि बीसीसीआई ने उन्हें-भारत सरकार की अनुमति से - सूचित कर दिया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा के बीच हैंडशेक नहीं होगा।

● **पाकिस्तान को टॉस से 4 मिनट पहले बताया, हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया**

पीसीबी अधिकारियों ने तर्क दिया कि पाइक्रॉफ्ट को इस असामान्य अनुरोध के बारे में आईसीसी को सूचित करना चाहिए था। ऐसा माना जा रहा है कि पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अगर पर्याप्त समय होता, तो वह आईसीसी से सलाह लेते। इसके बजाय, टॉस से कुछ क्षण पहले, उन्होंने आग़ा को स्थिति के बारे में बताया, यह सोचकर कि अगर आग़ा सूर्यकुमार से हाथ मिलाने गए, तो वह सार्वजनिक रूप से शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होने से बचा रहे थे। पाइक्रॉफ्ट के इस फ़ैसले को आईसीसी ने किसी भी समय आचार सं.हता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई के रूप में देखा, जो उन्हें खेल के प्रबंधन के लिए नियुक्त एक मैच अधिकारी के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह मुद्दा बुधवार को तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के यूएई के खिलाफ होने वाले जरूरी मैच को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए और पीसीबी ने धमकी दी कि अगर इस मैच के लिए चुने गए पाइक्रॉफ्ट की जगह कोई और मैच रेफरी नियुक्त नहीं किया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तानी टीम के शीर्ष अधिकारियों के बीच आनन-फानन में हुई एक स्पष्ट बैठक के बाद आखिरकार एक घंटे की देरी के बाद मैच शुरू हुआ। पीसीबीने एक बयान में दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने ष्पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है, हालांकि स्थिति से परिचित सूत्रों का कहना है कि यह माफी नहीं थी, बल्कि घटना के बारे में 'गलतफहमी और गलत संचार पर खेद की अभिव्यक्ति' थी। पीसीबी ने भारत से पाकिस्तान की हार के बाद रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच आईसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम खान को एक आधिकारिक शिकायत भेजी थी। इसमें बोर्ड ने टॉस से पहले की घटनाओं का क्रम बताया और पाइक्रॉफ्ट पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

ओमान के खिलाफ सैमसन को ओपनर बनाएगा भारत

● **संजू सैमसन के अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के आंकड़ें बताते है कि वे ओपनिंग में सबसे प्रभावशाली होते है**

नई दिल्ली, वार्ता। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतार सकती है। टीम प्रबंधन बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने पर विचार कर सकती है। संजू सैमसन फिलहाल भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और नंबर पांच पर खेलते हैं। उन्हें आज के मैच में ओपनिंग का अवसर मिल सकता है। संजू सैमसन के अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के आंकड़े बताते हैं कि वे ओपनिंग में सबसे प्रभावशाली होते हैं। ओपनर के रूप में 14 पारियों में सैमसन ने 512 रन बनाए हैं, औसत 39-4 और स्ट्राइक रेट 182.2 के साथ, जिसमें उनका उच्चतम टी-20 स्कोर 111 भी शामिल है। वहीं, नंबर पांच पर खेलते हुए पांच पारियों में स्ट्राइक रेट 131.9 के साथ उन्होंने सिर्फ 62 रन बनाए हैं, जो फर्क साफ दिखाता है। भारत की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ कमाल दिखा चुकी है, लेकिन गिल का सतर्क खेल (सात गेंदों पर 10 रन) चर्चा में रहा। ओमान अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, यह मुकाबला सैमसन को ओप.निंग में आजमाने का सबसे सही मौका देता है, ताकि वह पॉवरप्ले में अपनी ताकत के मुताबिक खुलकर खेल सकें। अगर संजू सैमसन को ओप.निंग मौका मिलता है तो भारत गिल को नंबर तीन या चार पर भेज सकता है, जहां उनका एंकलरग रोल मध्यक्रम को मजबूत कर सकता है। अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग में धमाका किया है और उन्हें अपनी जगह बनाए रखने की जरूरत है, जिससे अभिषेक-संजू की जोड़ी पॉवरप्ले में टीम इंडिया के सबसे आक्रामक विकल्प बन सकती है।

विश्वकप को लेकर हम बहुत उत्साहित है: जोटी

● **हम पिछले कुछ महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे है और उम्मीद करते है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे: निगार जोटी**

ढाका, वार्ता। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी ने शुक्रवार को कहा कि हमने 30 सितम्बर से शुरु हो रहे महिला क्रिकेट विश्वकप 2025 के लिए हमने कड़ी मेहनत की है और इसको लेकर हम बेहद उत्साहित और आशान्वित हैं।

जोटी ने आईसीसी के लिए अपने कॉलम में लिखा कि हम बेहद उत्साहित और आशान्वित हैं, और इस बार हम इसे अपने लिए महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। हम पिछले कुछ महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस शानदार पल में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगे। मैं बांग्लादेश के लोगों और दुनिया भर के प्रशंसकों से दुआओं की उम्मीद करती हूं। तीन साल पहले न्यूजीलैंड में एकदिवसीय विश्व कप खेलने का हमारा पहला अनुभव टीम के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। पिछली बार हमने इतिहास रचा था, पाकिस्तान को एक ऐसे मैच में हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आगामी टूर्नामेंट को लेकर बांग्लादेश की कप्तान ने कहा कि शर्मिन ने हमारे लिए सबसे अधिक रन बनाए।

श्रीलंका के ऑलराउंडर दुनित वेल्लालगे के पिता का निधन

अबु धाबी, वार्ता। श्रीलंका के ऑलराउंडर दुनित वेल्लालगे के पिता सुरंगा वेल्लालगे का गुरुवार 18 सितम्बर को निधन हो गया। यह वही दिन था जब दुनित ने अबु धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप का ग्रुप बी मैच खेला था। 22 वर्षीय वेल्लालगे को अपने पिता की मृत्यु की खबर मैच के बाद ही पता चली, जिसे श्रीलंका ने छह विकेट और आठ गेंद शेष रहते जीतकर टूर्नामेंट के सुपर-4 दौर में जगह बनाई। मैच खत्म होते ही वह घर के लिए रवाना हो गए। इस शोक के कारण वेल्लालगे के एशिया कप में आगे भाग लेने पर संदेह पैदा हो गया है।

श्रीलंका की नजर चौथी जीत पर

● **एशिया कप 2025: बांग्लादेश उलटफेर की कोशिश में**

दुबई, वार्ता। श्रीलंका एशिया कप 2025 के सुपर फ़ोर में एक ऐसी टीम के रूप में प्रवेश करेगा जिसने अब तक ज्यादातर चीज़ें सही की हैं। तीनों लीग मैच जीतने के बाद सबसे ताजा जीत अफग़ानिस्तान पर छह विकेट से मिली। चरित असालंका की टीम कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश से भिड़ने के लिए खुद को प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित कर चुकी है। बांग्लादेश ने अपनी ओर से, एक तनावपूर्ण अंत में अफग़ानिस्तान को हराकर क्वालीफाई करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया है। लिटन दास जानते होंगे कि अगर उन्हें ऐसी लय में चल रहे प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देनी है, तो उनके खिलाड़ियों को अपनी बल्लेबाजी में निरंत.रता लानी होगी और मैदान पर अनुशासन का भी पालन करना होगा। पथुम निसंका के प्रतियोगिता में 124 रन और पिछले मैच में कुसल मेंडिस के 74 रन, शीर्ष क्रम को दर्शाते हैं जो स्थिर दिखता है। कुसल परेरा और कामिंडु मेंडिस और स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा मध्य और निचले क्रम को गहराई प्रदान करते हैं। नई गेंद से दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा की अगुवाई में और बीच के ओवरों में हसरंगा और महेश थीक्षाना के सहयोग से श्रीलंका का आक्रमण एक भरोसेमंद इकाई रहा है। बांग्लादेश को अपने पिछले मैच में तंजीद हसन और सैफ हसन की सलामी जोड़ी से हौसला मिलेगा। मुस्तफिजुर रहमान के तीन विकेट और नसुम अहमद का किफायती स्पेल श्रीलंका के बल्लेबाजों पर लगाम लगाने के लिए उनकी गेंदबाजी के महत्व को दर्शाता है।

अश्विन हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होंगे

हांगकांग, वार्ता। क्रिकेट हांगकांग, चीन ने गुरुवार को घोषणा की कि दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आगामी हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के एक प्रमुख सदस्य होंगे, जो इस साल 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाला है।

आधुनिक क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले अश्विन के शामिल होने से इस तेज-तर्रार, एक्शन से भरपूर वैश्विक टूर्नामेंट में टीम इंडिया के अभियान में अपार गहराई, अनुभव और स्टार पावर जुड़ गया है। अपनी असाधारण मैच जिताने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले अश्विन की उपस्थिति प्रशंसकों को रोमां.चत करेगी और अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी।

संन्यास की घोषणा के बाद यह शायद उनका पहला टूर्नामेंट होगा, और प्रशंसकों को क्रिकेट के सबसे तेज प्रारूप में उनकी जादुई क्षमता देखने को मिलेगी। इस घोषणा पर, हांगकांग क्रिकेट के अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा कि हमें हांगकांग सिक्सेस 2025 में आर अश्विन का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। टीम इंडिया में उनकी उपस्थिति इस टूर्नामेंट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे इस युग के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों और कलाकारों में से एक हांगकांग में आएगा। सिक्सेस नवाचार, मनोरंजन और विश्व स्तरीय प्रतिभा का प्रतीक है, और अश्विन इन सभी गुणों के प्रतीक हैं।

एन थंगराजा ने जीता चेन्नई ओपन

● **सीपीसीएल के अंतिम दिन कड़े संघर्ष के बाद 1 ओवर 73 का स्कोर बनाकर खिताबी जीत हासिल की**

चेन्नई, वार्ता। श्रीलंकाई एन थंगराजा ने चेन्नई के कॉस्मो टीएनजीएफ गोल्फ कोर्स में खेले गए एक करोड़ रुपये के इनामी टूर्नामेंट, चेन्नई ओपन 2025 पावर्ड बाय सीपीसीएल के अंतिम दिन कड़े संघर्ष के बाद एक ओवर 73 का स्कोर बनाकर खिताबी जीत हासिल की। एन थंगराजा (69-66-63-73), जो कल रात एक शॉट से आगे चल रहे थे, आखिरी दिन एक शॉट से आगे निकल गए और उन्होंने पूरे हफ़्ते 17-अंडर 271 का स्कोर बनाया।

44 वर्षीय कोलंबो निवासी थंगराजा की यह छठी पीजीटीआई जीत और सीजन की दूसरी जीत थी, जिसके साथ उन्हें 15 लाख रुपये का विजयी पुरस्कार मिला, जिससे वह 2025 पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 12वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गए। नोएडा के अमरदीप मलिक (68-71-67-66), जिन्होंने ईगल के साथ दिन का समापन किया, दिल्ली के शौर्य भटाचार्य (67-65-69-71) और गुरुग्राम के मनु गंडास (66-68-65-73) की तिकड़ी कुल 16-अंडर 272 के स्कोर के साथ संयुक्त उपविजेता रही। डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब, गुरुग्राम के हनी बैसोया (72) 14-अंडर 274 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे। एन थंगराजा ने दिन की धीमी शुरुआत की और पांच पार और उसके बाद छठे होल पर एक बोगी की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शौर्य भटाचार्य और मनु गंडास ने शुरुआती बढ़त हासिल की। हालांकि, कठिन पिन पोजीशन के बावजूद, थंगा ने इसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और 14वें होल तक ग्रीन्स के बीच में हिट करते रहे और दो-पट लगाकर पार बनाए। इसके बाद थंगा ने पार-3 के 15वें होल पर एक बेहतरीन टी शॉट लगाया और उसके बाद एक महत्वपूर्ण पांच फुट का बर्डी कन्वर्ज़न लगाकर एक बार फिर शीर्ष दावेदार बन गए। अंत में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों की गति कम होने के साथ, 16वें होल पर थंगा की बोगी का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और उन्होंने 18वें होल पर जीत के लिए महत्वपूर्ण छह फुट का पार पट लगाया। 2022 चेन्नई ओपन के उपविजेता थंगराजा, जो कॉस्मो टीएनजीएफ गोल्फ कोर्स में भी खेले थे, ने कहा कि आज पिन पोज़शिन इस हफ्ते की सबसे कठिन थी और यही उच्च स्कोर की वजह है।

महिला क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत 'ब्रिंग इट होम' जारी

नई दिल्ली, वार्ता। महिला क्रिकेट की शक्ति, एकता और अदम्य उत्साह का जश्न मनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आज आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक कार्यक्रम गीत 'ब्रिंग इट होम' लॉन्च किया, क्योंकि इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट से पहले उत्साह लगातार बढ़ रहा है।

प्रशंसित भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत यह गीत लय, सुर और भावनाओं का एक ऊर्जावान मिश्रण है, और इसका उद्देश्य दुनिया भर के प्रशंसकों को एकजुट करना है। तारिकिता तारिकिता तारिकिता ढोम जैसे आकर्षक गीतों और दिल की धड़कनों से प्रेरित धक धक, वी ब्रिंग इट होम के साथ, यह गीत विश्व मंच पर कदम रखने वाली हर महिला क्रिकेटर के जोश और सपनों को दर्शाता है। गीत दृढ़ संकल्प और एकता का जश्न मनाते हैं, सपनों और दृढ़ता की शक्ति के माध्यम से

● **भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत यह गीत लय सुर और भावनाओं का एक ऊर्जावान मिश्रण है**

महिला क्रिकेट की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हैं। पत्थर पिघलाना है, एक नया इतिहास बनाना है। की पंक्तियां सभी बाधाओं के बावजूद समर्पण और धैर्य की अटूट शक्ति को उजागर करती हैं। श्रेया घोषाल ने कहा कि महिला क्रिकेट की भावना, शक्ति और एकता का जश्न मनाने वाले आधिकारिक कार्यक्रम गीत के माध्यम से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का हिस्सा बनना एक अद्भुत अनुभव रहा है।

मैं अपनी आवाज देकर और उस पल का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं जो खेल के प्रति प्रेम के माध्यम से लोगों को एक साथ लाता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रशंसकों को प्रेरित करेगा।

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी

● **इस दौरे के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम अपने तीन मैच ऑस्ट्रेलिया जूनियर महिला टीम से खेलेगी**

नई दिल्ली, वार्ता। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कैनबरा स्थित राष्ट्रीय हॉकी केंद्र में पांच मैचों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने को पूरी तरह तैयार है।

यह श्रृंखला 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2025 तक खेली जाएगी। मैच 26 सितंबर, 27 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितम्बर और 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इस दौरे के दौरान, भारत अपने पहले तीन मैच ऑस्ट्रेलिया जूनियर महिला टीम के खिलाफ खेलेगा, उसके बाद स्थानीय टीम कैनबरा चिल के खिलाफ दो मैच खेलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया की हॉकी वन लीग में प्रतिस्पर्धा करने वाला एक क्लब है। यह भारतीय जूनियर महिला टीम के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव दौरा होगा क्योंकि वे एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 की तैयारी जारी रखेंगे, जिसकी मेजबानी इस साल दिसंबर में चिली के सैंटियागो में की जाएगी। यह श्रृंखला भारतीय टीम को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को परखने और ऑस्ट्रेलियाई जूनियर महिला टीम के खिलाफ बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय मैच का अनुभव हासिल करने का मौका देगी, जो अपनी तेज-तर्रार और शारीरिक हॉकी के लिए जानी जाती है। कई खिलाड़ियों के लिए, यह जूनियर स्तर पर उनका पहला विदेशी अनुभव भी होगा, जो उनके विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इस दौरे को लेकर, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के कोच तुषार खांडेकर ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के इस अवसर के लिए आभारी हैं, जो दुनिया के सबसे मजबूत हॉकी खेलने वाले देशों में से एक है। उनके खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी श्रृंखला खेलने से हमारे खिलाड़ियों को बहुमूल्य अनुभव मिलेगा, हमें सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, और टीम को इस साल के अंत में होने वाले जूनियर विश्व कप की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यह श्रृंखला हमारी अब तक की तैयारियों की असली परीक्षा होगी।

हमारा ध्यान मैच के मिजाज को बेहतर बनाने, विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और दबाव में अपनी रणनीतियों को लागू करने पर होगा। मेरा मानना है कि यह अनुभव टीम के आत्मविश्वास और विश्व कप के लिए उसकी तैयारी को आकार देने में बहुत मददगार साबित होगा।

उम्मीद है एशेज के पांचों टेस्ट में खेलूंगा: कमिंस

सिडनी, वार्ता। पीठ की समस्या से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस एशेज के सभी पांच टेस्ट मैचों में खेलना चाहते है। कमिंस ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस कार्यक्रम में खेल क्लबों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बने रहने के लिए संघीय सरकार ने 50 मिलियन डॉलर के अनुदान की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान कमिंस ने स्वीकार किया कि एशेज से पहले वह पूरी तरह से प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति है। कमिंस ने कहा कि लक्ष्य पांच टेस्ट मैच है। हर गर्मियों में आप पांच टेस्ट मैच खेलने का लक्ष्य रखते हैं। यह मैच थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि आप बाकी मैचों से थोड़े अलग अंदाज में आ रहे हैं।

भारतीय महिला टीम घरेलू धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीतने उतरेगी

नई दिल्ली, वार्ता। भारतीय महिला टीम ने शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले निर्णायक मुकाबले में घरेलू धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी । एलिसा हीली की कप्तान वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम पलटवार करना चाहेगी।

स्मृति मंधाना ने शानदार फॉर्म में चल रही है और उन्होंने पिछले मैच में 77 गेंदों में 117 रनों की पारी खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और ढूंढे कर रन बटोरे। दीप्ति शर्मा ने 40 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने 292 रन बनाए। डार्सी ब्राउन ने तीन विकेट लेकर कड़ी मेहनत की, लेकिन मंधाना की पारी का कोई जवाब नहीं था। मंधाना ने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपने पिछले तीन एकदिवसीय मैचों में दो शतक और एक अर्द्धशतक बनाए है।

वह वो खिलाड़ी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में आउट करना चाहेगा। हरमनप्रीत कौर की टीम उसी एकादश पर भरोसा बनाए रखेगी, जेमिमा रोड्रिग्स की उपलब्धता पर ही सवालिया निशान है। प्रतीका रावल, हरलीन देओल, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा टीम में गहराई लाएंगी, जबकि राणा, राधा और क्रांति गेंदबाजी में रेणुका का साथ देंगी। भारतीय गेंदबाजों की बात की जाये तो रेणुका सिंह ठाकुर ने शुरुआत में ही शानदार प्रदर्शन किया, क्रांति गौड़ ने तीन विकेट लेकर कमाल कर दिया, और स्पिनरों स्नेह राणा, राधा यादव और दीप्ति शर्मा ने दबाव बनाया। ऑस्ट्रेलिया 190 रनों पर ढेर हो गया।

यह एकदिवसीय इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार थी, और 13 मैचों की उनकी जीत का सिलसिला भी टूट गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को अभी कम मत आंकना चाहिए। एलिसा हीली की टीम लगातार दो मैच शायद ही कभी गंवाती है। अगर फोबे लिचफील्ड वापसी करती हैं, तो एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड और हमेशा खतरनाक एश्ले गार्डनर के साथ शीर्ष क्रम मजबूत नज़र आता है। उनकी गेंदबाजी में अभी भी दम है।

सच्चाई आए सामने

शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को फिर से घेरा है। एक्स वीडियो पर उन्होंने क्लिप शेयर की, केपशन में लिखा कि चार बजे उठो, छत्तीस सेकेंड में दो वोटर मिटाओ फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। गुरुवार को भी अपनी एक प्रेस कान्फ्रेंस में वह चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं तब उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं और अपनी बात को मजबूती प्रदान करने लिए उन्होंने कनार्टक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटरों को भी पेश किया, जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई। जहां तक बात चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया की है, वह केवल यह कहकर पल्ला झाड़ता दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है। सरकार भी राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर घेरती दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कह भी डाला कि राहुल गांधी हताशा में हैं। वह कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे, कभी जेन-जी की बात करेंगे। असल में शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे। लो. कतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूं। भाजपा के नेता उनके इस बयान को उनके माओवादी होने के सबूत में पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फणडवीस ने कहा भी कि यह वोट चोरी का मामला नहीं है राहुल का दिमाग चोरी हो गया है और जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो वह इसी तरह करता है। उन्होंने कहा कि राहुल की देश के संविधान के प्रति आस्था नहीं है। वह सारी व्यवस्था को नकार रहे हैं और अब तो उन्हें शहरी माओवादी होने का सबूत भी दे दिया है। जाहिर है राजनीति में इस तरह की प्रतिक्रिया तो चलती रहती है, राहुल गांधी कितना सच कह रहे हैं कितना झूठ कह रहे हैं, यह अलग बहस का विषय हो सकता है और इसका पता भी जब चल सकता है, जब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। यह देखना किसी विडंबना से कम नहीं है कि जांच की आवाज किधर से भी नहीं आ रही है। न तो चुनाव आयोग ही जनता को यह आश्वासन दे पा रहा है कि वह इस पूरे मामले की जांच करा पाएगा, वैसे होना यही चाहिए था कि अगर कहीं से गड़बड़ी की खबर आ रही है तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए था कि वह इस सच का पता लगाएगा। ठीक उसी तरह सरकार को भी इस तरह के आरोपों पर चिंता जाहिर करनी चाहिए थी। लेकिन हो इसके उलट रहा है। चुनाव आयोग तमाम आरोपों को सिरे से ही नकार रहा है और केंद्र सरकार इस तरह की गड़बड़ी पर चिंता जाहिर करने के बजाए चुनाव आयोग का पूरी तरह बचाव करती दिखाई दे रही है बल्कि उससे भी आगे जाकर, इतना बचाव तो खुद चुनाव आयोग अपना नहीं कर पा रहा है। जाहिर है इस तरह के व्यवहार से जनता में एक गलत संदेश ही जाएगा और चुनाव आयोग की साख ही प्रभावित होगी। यह उस देश के लिए जरा भी ठीक नहीं है, जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लो. कतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में मर्यादा व मूल्यों की बहुत गरिमा होती है। इसकी रक्षा होनी ही चाहिए।

वीरता हथियार के आकार की बात नहीं

पाकिस्तान को लगता था कि अचानक किए गए आतंकी हमलों से हम डर जाएंगे, वो ये नहीं जानते कि भारत का हर सैनिक देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं कर सकता, पीएम मोदी ने ठान लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाने की ठानी, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते, मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की बहादुरी ने आसल उत्तर की लड़ाई में अकेले ही पाकिस्तान के कई टैंकों को बर्बाद कर दिया था, हमारे बहादुर वीर अब्दुल हमीद ने हमें सिखाया कि वीरता हथियार के आकार की बात नहीं है, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए, जब पहलगाम हमला हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को सबक सिखाने का फैसला किया था।

-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

पीर अली खानः आजादी के इतिहास का अमर स्तम्भ

वीरेश तरार

1857 का संग्राम भारतीय स्वतंत्रता की पहली प्रचंड ज्वाला था। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि जनता के हृदय में लंबे समय से धधक रही उस चिंगारी का विस्फोट था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार गहराई से हिला दिया। इस संग्राम में जहां मेरठ और दिल्ली से लेकर कानपुर, झांसी, बरेली, लखनऊ, अवध और पूरे उत्तर भारत के अनेक सेनानी अमर हुए, वहीं बिहार की धरती पर एक ऐसा नायक खड़ा हुआ, जिसकी शहादत आजादी के इतिहास का अमिट स्तंभ है। यह नायक थे पीर अली खान।

पीर अली खान का नाम हमारे इतिहास में उस वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक है, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की नींव मजबूत की, लेकिन दुखद यह है कि आजादी की उस लंबी लड़ाई के कई सच्चे नायकों की तरह पीर अली खान को भी इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वह अधिकारी थे। आज जब हम स्वतंत्र भारत की सांस लेते हैं और अपनी मातृभूमि की आजादी पर गर्व करते हैं, तब पीर अली खान जैसे बलिदानियों को याद करना न केवल आवश्यक है, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है।

पीर अली खान का जन्म सन 1812 के आसपास माना जाता है। वह मूल रूप से एक साधारण परिवार से थे। जीविका के लिए उन्होंने पटना में किताबों की जिल्दबंदी और किताबों की दुकान का काम शुरू किया। उस समय किताबें केवल ज्ञान का साधन ही नहीं थीं, बल्कि विचारों और संदेशों का माध्यम भी थीं। पीर अली खान की दुकान पटना में किताबों के प्रेमियों के लिए एक सामान्य स्थल थी, लेकिन धीरे-धीरे यह दुकान अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त योजनाओं का केंद्र बनने लगी। किताबों की जिल्दों और पन्नों के बीच से वे स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे, संदेश और गुप्त पत्र सिपाहियों और क्रांतिकारियों तक पहुंचाने लगे। उनके संपर्क डेनापुर छावनी के उन भारतीय सिपा. हियों से भी थे, जिनके मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा था। जब मई 1857 में मेरठ से विद्रोह की चिंगारी फूटी और दिल्ली में बहादुरशाह जफर को सम्राट घोषित कर स्वतंत्रता का बिगुल बजा, तो इसकी गूंज पटना तक पहुंची। बिहार की धरती पहले से ही शोषण, अन्याय और अत्याचार से त्रस्त थी। किसानों और स्थानीय जनता से कठोर कर वसूली, अंग्रेज अधिकारियों की तानाशाही और उनके नस्लीय अहंकार ने जनता के मन में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। ऐसे माहौल में पीर अली खान जैसे साहसी और निडर व्यक्ति के लिए यह दुकान मात्र व्यवसाय नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता का गुप्त अड्डा बन गई। अंग्रेज प्रशासन की निगाहें बहुत जल्द उनकी गतिविधियों पर पड़ गईं। उन्हें शक था कि पीर अली खान केवल किताबें बेचने और जिल्दबंदी करने वाले नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को संदेश पहुंचाने वाले भी हैं। 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने पीर अली खान को उनके 33 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं। उनसे बार-बार पूछा गया कि उनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन सैनिकों से उनका संपर्क है, वे क्रांतिकारी पर्चे कहां से लाते हैं। लेकिन पीर अली खान ने किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने अपने साथियों के साथ विश्वासघात करने के बजाय अपने प्राण न्योछावर करना स्वीकार किया।

अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें डराने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए। उन्हें यह लालच भी दिया गया कि यदि वे अपने साथियों के नाम बता दें तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन पीर अली खान अडिग रहे। उन्होंने कहा कि वे मरना पसंद करेंगे, पर अपने साथियों का भेद नहीं बताएंगे। यही उनका चरित्र था, यही उनकी सच्ची राष्ट्रभक्ति थी।

7 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। पटना के अंग्रेज कलेक्टर के आवास के सामने, सार्वजनिक रूप से, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि जनता यह .श्य देखकर भयभीत हो, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। लोगों के मन में पीर अली खान के लिए श्रद्धा और अंग्रेजों के लिए घृणा और अधिक गहरी हो गई। उनकी निर्भीकता का यह आलम था कि अंतिम क्षणों में उन्होंने निर्भय स्वर में कहाकृहतुम मुझे फांसी दे सकते हो, लेकिन मेरे विचारों और मेरे साथियों की चेतना को नहीं मार सकते। यह वाक्य आज भी स्वतंत्रता की उस अमर भावना का प्रतीक है, जो किसी भी शक्ति से दबाई नहीं जा सकती। पीर अली खान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उनकी किताबों की दुकान और पुस्तकालय को तहस-नहस कर दिया। उनके सहयोगियों को भी कड़ी सजाएं दी गईं। लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी फांसी ने पूरे पटना और बिहार में क्रांति की लहर को और तेज कर दिया। उनका बलिदान यह सिद्ध कर गया कि स्वतंत्रता केवल सिपाहियों की बंदूक का सपना नहीं था, बल्कि आम जनता के दिल की पुकार थी।

आज जब हम 1857 के संग्राम की चर्चा करते हैं, तो बहादुरशाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे महान नाम सामने आते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पीर अली खान जैसे वीर, जिन्होंने अपने लहू से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके। जबकि उनका योगदान किसी भी तरह कमतर नहीं था। वे इतिहास के उस छिपे हुए पन्ने हैं, जिसे बार-बार पलटकर देखना चाहिए। यह भी विचारणीय है कि आज जब कभी मुस्लिम समाज की राष्ट्रभक्ति पर संदेह जताने की कोशिश की जाती है, तब हमें पीर अली खान की शहादत याद करनी चाहिए। उन्होंने यातनाएं झेलीं, पर अपने साथियों का नाम तक न बताया। उन्होंने राष्ट्रहित में अपने प्राणों का बलिदान दिया। वे इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग ने अपना योगदान दिया। पीर अली खान की शहादत इतिहास का वह आभूषण है, जिसे भुलाना हमारी आजादी की आत्मा को भुलाना होगा। आज पटना में जिस जगह उन्हें फांसी दी गई थी, वहां पीर अली पार्क उनकी स्मृति में मौजूद है। यह केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह गवाही है उस बलिदान की, जिसने स्वतंत्रता की नींव में अपनी जगह हमेशा के लिए बना ली। हर पीढ़ी को वहां जाकर यह समझना चाहिए कि आजादी का यह उपहार हमें सहज नहीं मिला, इसके पीछे पीर अली खान जैसे अनगिनत बलिदानियों की आहुति है।

पीर अली खान की गाथा हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता का इतिहास केवल बड़े राजाओं और प्रसिद्ध सेनानियों का इतिहास नहीं है, बल्कि उन गुमनाम और अल्पज्ञात नायकों का भी इतिहास है, जिन्होंने अपने प्राण देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र भारत का स्वप्न सौंपा। यदि हम ऐसे नायकों को भूल गए, तो हम अपनी आजादी की जड़ों को भूल जाएंगे। इसलिए आज जब कोई भी किसी मुस्लिम की राष्ट्रभक्ति पर संदेह करने की को. शिश करे, तो हमें दस बार पीर अली खान का नाम स्मरण करना चाहिए। यह नाम हमें याद दिलाएगा कि भारत की आजादी की नींव में उनका लहू भी उतना ही शामिल है जितना किसी और का। यह नाम हमें यह भी याद दिलाएगा कि राष्ट्रभक्ति का कोई धर्म नहीं होता, यह केवल त्याग, बलिदान और निष्ठा से उपजती है। पीर अली खान का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमर स्तंभ है। उनकी स्मृति हमारे राष्ट्रीय जीवन में सदैव प्रेरणा देती रहेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गाथा केवल पटना के पार्क तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश की चेतना में अंकित हो। जब तक भारतवर्ष रहेगा, तब तक पीर अली खान की शहादत का गौरव भी जीवित रहेगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

रिश्ते में आ गई हैं दूरियां, कहां बिगड़ रही बात

शितों में बढ़ती दूरियां बातचीत, जिम्मेदारी की कमी और पुराने दर्द को साथी पर थोपने का परिणाम हैं। रिलेशनशिप कोच के अनुसार, परफेक्ट साथी की तलाश और सोशल मीडिया पर दूसरों को गलत साबित करने की बजाय, हमें अपने अंदरूनी घावों को भरने, आत्म-सम्मान बढ़ाने और वचन निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि रिश्तों में सुधार हो।

आज के तेज-रफ्तार दौर में, ज्यादातर लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि उनके रिश्ते क्यों और कहां बिगड़ रहे हैं। रिश्ते में आई दरार के लिए लोग आमतौर पर छोटी-छोटी बातों, बिजी दिनचर्या और हालातों को दोष देते नजर आते हैं, लेकिन समस्या इससे कहीं ज्यादा गहराई में छिपी है। हर दिन जब हम अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते, जाने-अनजाने में उनकी बेइज्जती कर देते हैं और उनके रूठ जाने पर उनसे बात करने की बजाय उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इन सबका नतीजा यह होता है कि हमारा रिश्ता बिखरने लगता है। ऐसे में जरूरत है कि हम हालातों और एक दूसरे को दोष देने की बजाय रिश्ते को ठीक करने के लिए सही कदम उठाएं। रिलेशनशिप कोच और थेरेपिस्ट ने एक पोस्ट में बताया कि आजकल रिश्तों को असल में क्या बिगाड़ रहा है और हमें इसके बजाय क्या करना चाहिए। उन्होंने आसान शब्दों में यह बातें समझाई।

बातचीत, जिम्मेदारी व समझ की कमी, क्या करें?

सोचिए कि कहीं आप अपने पुराने दर्द को अपने साथी पर तो नहीं डाल रहे। कई बार हम वही साथी चुनते हैं जो हमें वैसे ही तकलीफ देता है जैसे बचपन में माता-पिता ने दिया था।

बिल्कुल परफेक्ट साथी की तलाश, क्या करें?

अपने अंदर के घायल हिस्सों को संभालिए। खुद को इतना पूरा महसूस करें कि किसी साथी के बिना भी आप खुश रह सकें।



दूसरों को गलत साबित करने वाले पोस्ट, क्या करें?

अपनी नजर दूसरों पर नहीं, अपने अंदर की हीलिंग पर रखें। समझिए कि कैसे आपकी कुछ आदतें ऐसे लोगों को खींचती हैं जिन्हें आप असल में नहीं चाहते। अपने अंदर छुपे गहरे दर्द और भावनाओं को समझने के लिए आंतरिक काम करें। चार मजबूत आदतों पर ध्यान दें, ताकि बिना सालों तलाश किए आप अपनी रुकावटें दूर कर सकें।

सिर्फ बातें, बिना काम और बिना लगातार कोशिश

जो कहते हैं, उसे निभाने की आदत डालें। अपना वचन निभाने से ही आत्म-सम्मान बढ़ता है।

दिमागी खेल और कंट्रोल की चाह, क्या करें?

खुद का ऐसा जीवन बनाएं जिसमें आपकी जरूरतें पूरी हों। जिन गुणों की आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, उन्हें पहले खुद में लाएं। सोचिए, मैं किसी और की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूं?

गर्माती दुनिया में ठंडक देते वस्त्र

वैश्विक तपन अब कोई दूर का खतरा नहीं रह गया है। यह हमारी जिंदगी, काम और जीने के तरीकों को बदल रहा है। जैसे-जैसे गर्मियां और अधिक गर्म और प्रचंड हो रही हैं, गर्मी में सिर्फ सूती कपड़े पहनना ठंडक के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ठंडक देने के नए उपाय खोजने की मांग बढ़ रही है - ऐसे उपाय जो बिना अधिक बिजली खर्च किए गर्मी से बचा सकें। इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें ठंडक कैसे मिलती है। शरीर को ठंडक मुख्यतरू चार प्रमुख तरीके से मिलती है-

विकिरण- जब गर्मी अदृश्य ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है।

संचरण- जब गर्मी छूने से स्थानांतरित होती है, जैसे गरम तवे को छूना।

संवहन- जब बहती हवा गर्मी को साथ ले जाती है, जैसे ठंडी हवा का झोंका।

वाष्पीकरण- जब पसीना वाष्पित होकर शरीर से गर्मी बाहर ले जाता है। आधुनिक विज्ञान अब ऐसे कपड़े और पहनने योग्य उपकरण बना रहा है, जो इन चारों तरीकों को और ज्यादा असरदार बना सकें।

ठंडक देने वाले स्मार्ट कपड़े

वैज्ञानिक ऐसे खास कपड़े बना रहे हैं, जो सूरज की हानिकारक गर्मी को रोकें और शरीर की प्राकृतिक इन्फ्रारेड ऊर्जा को बाहर निकलने दें। इसके कुछ उदहारण हैं-

नैनोपोरस पॉलीएथिलीन कपड़ा- यह सूती कपड़े से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडा रखता है, क्योंकि यह शरीर की गर्मी को बाहर जाने देता है और सूरज की रोशनी को रोकता है।

मेटाफैब्रिक- यह कपड़ा अलग-अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और शरीर की गर्मी को वायुमंडलीय झरोखे यानी वे किरणें जो अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं के जरिए बाहर निकलने देता है। लेकिन ये कपड़े कभी-कभी शहर की इमारतों और सड़कों से निकलने वाली गर्मी को सोख लेते हैं। इसके अलावा नमी और वायु प्रदूषण भी इनके काम में बाधा डालते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अब विकिरण प्रक्रिया को संवहन और वाष्पीकरण के साथ मिलाकर ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविक परिस्थितियों में भी काम करें।

संचरण और संवहन- संचरण एक कारण है जिससे कुछ कपड़े छूते ही ठंडे लगते हैं। यदि इनमें बोरोन नाइट्राइड जैसे उच्च ऊष्मा चालक कण मिलाए जाएं, तो ए कपड़े त्वचा की गर्मी को जल्दी बाहर खींच लेते हैं। दूसरी ओर, एयरोजेल फाइबर (जो ध्रुवीय भालू के फर से प्रेरित हैं) इंसुलेटर का काम करते हैं और अत्यधिक गर्म माहौल में बाहर की गर्मी को रोकते हैं। संवहन प्रकृति का अपना एयर कंडीशनर है। ढीले, हवादार कपड़े गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और ठंडी हवा को अंदर लाते हैं। कुछ स्मार्ट कपड़े तो ऐसे भी हैं जिनमें नमी-संवेदनशील रेशे होते हैं, जो पसीना बढ़ने पर छोटे-छोटे छिद्र खोल देते हैं और पसीने को तेजी से सुखा देते हैं।

वाष्पीकरण की भूमिका- साधारण कपड़ों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे पसीना सोख लेते हैं और गीले हो जाते हैं, जिससे ए भारी व असुविधाजनक लगते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसे कपड़े बना रहे हैं जो हमारी त्वचा की तरह काम करें - यानी पसीने की बूंदों को बाहर निकाल दें। इससे शरीर सूखा बना रहता है। कुछ कपड़े तो छोटे-छोटे विद्युत आवेश का इस्तेमाल करके पसीने को सक्रिय रूप से बाहर पंप कर देते हैं। इससे न सिर्फ पहनने में आराम मिलता है बल्कि कपड़े की कूलिंग क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि भीगे कपड़े ज्यादा गर्मी सोखते हैं।

पहनने योग्य शीतलक- हमेशा सिर्फ कपड़े ही अत्यधिक गर्मी से नहीं बचा सकते। यहां काम आते हैं पहनने योग्य शीतलक। पंखे से लैस जैकेट और लिक्विड-कूलिंग वेस्ट पहले से मौजूद हैं, लेकिन ए भारी, ज्यादा बैटरी खाने वाले और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए असुविधाजनक हैं।

एक नया विकल्प है किरिगामी-आधारित उपकरण। यह आकार और सतह बदलकर गर्मी को नियंत्रित करता है और लैब टेस्ट में शरीर की आरामदायक सीमा को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। एक और समाधान है सौर ऊर्जा से चलने वाले कपड़े, जो ऑर्गेनिक सोलर पैनल और इलेक्ट्रोकैलोरिक डिवाइस की मदद से जरूरत के हिसाब से शरीर को ठंडा या गर्म रखते हैं। लेकिन अभी इनमें कई चुनौतियां हैं - जैसे बैटरी का जीवन, लचीला. पन और तार की फिटिंग।

कृत्रिम बुद्धि और शीतलन

एक हालिया प्रयास स्मार्ट और निजी कूलिंग सिस्टम्स है। इसमें ऐसे पहनने योग्य सेंसर होंगे जो शरीर का तापमान, पसीना, हार्ट रेट और तनाव के स्तर को मापेंगे। इसके आधार पर एआई खुद ही पहचान लेगा कि शरीर ज्यादा गर्म हो रहा है और तुरंत कूलिंग सिस्टम चालू कर देगा। जल्द ही स्मार्ट कपड़ों में ऐसी तकनीकें भी आ सकती हैं जो खुद शरीर से ऊर्जा पैदा करें। जैसेरू थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, जो शरीर की गर्मी से ऊर्जा बनाएंगे। पिजोइलेक्ट्रिक सिस्टम, जो शरीर की हलचल से बिजली बनाएंगे। मॉइस्चर-इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो पसीने से बिजली पैदा करेंगे, लेकिन सिर्फ तकनीक काफी नहीं है। कूलिंग कपड़े तभी सफल होंगे जब वे रोजाना पहनने योग्य हों मजबूत और धोने योग्य हों पर्यावरण के अनुकूल हों ताकि प्रदूषण न फैले। पर्सनल कूलिंग सिर्फ आराम का सवाल नहीं है। धूप में काम करने वाले मजदूरों, किसानों, डिलीवरी कर्मचारियों और फायरफाइटर्स जैसे लोगों के लिए यह जीवन और मौत का फर्क साबित हो सकता है। वहीं एथलीट्स और साहसी यात्रियों के लिए भी ऐसे कपड़े मददगार होंगे, जो आपको गर्मी से बचाएं और ज्यादा ऊर्जा भी न खाएं।

-स्रोत फीचर्स

फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ पांच लाख लोग जुटे

स्कूली बच्चों ने हाईवे ब्लॉक किए, पत्थरबाजी हुई, 80 हजार पुलिसकर्मी तैनात, 141 गिरफ्तार

पेरिस। फ्रांस में बजट कटौती को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को हड़ताल की अपील की थी, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। पेरिस, लियोन, नांतेस, मार्सिले, बोर्डो, टूलूज और कैएन जैसे शहरों में सड़कें जाम हो गईं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन प्रदर्शनों में 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, जबकि यूनियनों ने संख्या 10 लाख बताई है। सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 141 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। कई जगह स्कूली बच्चों ने भी हाईवे ब्लाक किए। फ्रांस की सरकार ने 2026 के बजट में करीब 52 अरब डालर की कटौती का प्लान बनाया है। इसमें पेंशन फ्रीज करना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटना और दो राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना शामिल है। सरकार का कहना है कि देश का घाटा यूरोपीय यूनियन के 3 प्रतिशत मानक से दोगुना है, और कर्ज जीडीपी का 114 प्रतिशत हो गया है। लेकिन लोग इसे अमीरों के लिए राहत और गरीबों पर बोझ मानते हैं। यूनियनों का कहना है कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ। महंगाई से पहले ही जिंदगी मुश्किल हो गई।

प्रदर्शन की प्रमुख 4 वजह

राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां

जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं।

बजट में कटौती

सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता खासकर मध्यमवर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा।

2 साल में 5 पीएम

हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह दो साल से भी कम समय में पांचवें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए।

ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन

वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सबकुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। इन विरोध प्रदर्शनों को वामपंथी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबाउड ने अगस्त में ही इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब इससे अन्य वामपंथी दल भी जुड़ गए। सोशलिस्ट पार्टी ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। वहीं, न्यू पापुलर फ्रंट (एनपीएफ) और नेशनल रैली (आरएन) जैसे दल, जिन्होंने संसद में बजट के खिलाफ वोट देकर पिछली सरकार गिराई थी। वे दल भी यूनियनों के साथ सड़कों पर हैं, और अमीरों पर ज्यादा टैक्स की मांग कर रहे हैं।

देश के सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। ये आंदोलन नई सरकार के लिए बड़ा खतरा हैं। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को अब बजट पास करने में मुश्किल होगी। संसद बंटी हुई है और किसी के पास बहुमत नहीं है। प्रदर्शन से ट्रेन, बस, मेट्रो रुक गई है, स्कूल बंद करने पड़े हैं और बिजली उत्पादन 1.1 गीगावाट कम हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और सरकार पर बजट बदलने का दबाव बढ़ेगा।

रूसी परमाणु पनडुब्बियों ने किया मिसाइल परीक्षण

व्लादीवोस्तोक। रूस के प्रशांत फ्लीट की दो परमाणु पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में नौसैनिक अभ्यास के दौरान सफलतापूर्वक क्रूज मिसाइल दागी। प्रशांत फ्लीट ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। फ्लीट ने अपने बयान में कहा कि बहुउद्देशीय सबमरीन क्रास्नोयार्स्क और ओम्स्क ने अपने 250 किलोमीटर दूर समुद्री लक्ष्य पर ओनिक्स तथा ग्रनिट नाम की क्रूज मिसाइलें दागीं। तकनीकी निंगरानी आधारित डाटा के मुताबिक मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। परीक्षण के दौरान लक्ष्य क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रशांत सागर बेड़े के जहाजों और नौसेना विमानन इकाइयों को तैनात किया गया था।

उत्तराखंड। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र के एक गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ के बाद बचाव अभियान के दौरान एसडीआरएफ के जवान।

गाजा में मानवीय पहुंच प्रस्ताव पर अमेरिका ने लगाया वीटो

संयुक्त राष्ट। मेरिका ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनजीसी) के उस मसौदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसमें इजरायल से गाजा में मानवीय पहुंच और आपूर्ति पर सभी प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की मांग की गई थी।

> ■ सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस मसौदे को 15 सदस्यीय परिषद में से 14 मतों से समर्थन मिला

मसौदे में गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थाई युद्धविराम के साथ-साथ हमास एवं अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की बिना शर्त, सम्मानजनक और तत्काल रिहाई की भी मांग की गई थी। सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस मसौदे को 15 सदस्ईय परिषद में से 14 मतों से समर्थन मिला। परिषद के स्थाई सदस्य अमेरिका के पास वीटो शक्ति है। अमेरिकी वीटो की सुरक्षा परिषद में व्यापक आलोचना हुई। अल्जीरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमर बेंडजामा ने कहा कि मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 14 परिषद सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत के आह्वान को दोहराते हुए विवेक से काम लिया है। उन्होंने कहा कि यह परिषद फिर से विफल रही कि मानवता की अंतरात्मा पर एक और धब्बा। उन्होंने कहा कि खुली आंखों के सामने हो रहे नरसंहार के सामने यह शर्मनाक है। बेंडजामा ने कहा इस समय, कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। हममें से प्रत्येक को या तो नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी, या फिर इसमें शामिल लोगों में गिना जाना होगा। सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अबुकर दाहिर उस्मान ने कल के मतदान परिणाम को 'एक गंभीर नैतिक विफलता' बताया। उन्होंने कहा कि यह मसौदा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भाषा और भावना पर आधारित है, जिसका पालन करने की सभी सदस्य देशों ने शपथ ली है।

संक्षिप्त समाचार

बलूचिस्तान में बम विस्फोट, छह लोगों की मौत

इस्लामाबाद। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के दक्षिणी-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक विस्फोट में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। यह विस्फोट पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर चमन जिले के एक टैक्सी स्टैंड पर हुआ है। रेस्क्यू 1122 के अनुसार पीड़ितों को जिला मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती किया गया है। चमन में सरकारी चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र 1122 के प्रभारी गफूर उर रहमान ने बताया कि घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच जारी है। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

थाईलैंड सम्राट ने नए मंत्रिमंडल को दिया समर्थन

बैंकॉक। थाईलैंड के सम्राट महा वजीरालोंगकोर्न ने प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकु के नेतृत्व में बने नए मंत्रिमंडल को अपना समर्थन दिया है। एक शाही आदेश से शुक्रवार को इसकी पुष्टि हुई। आधिकारिक शाही गजट के अनुसार सम्राट ने प्रधानमंत्री अनुतिन द्वारा चुने गए 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल को नियुक्त किया, जिसमें छह उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में उनके समर्थन के बाद यह नियुक्ति की गई है।

ऊंची इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत

लागोस। नाइजीरिया की व्यावसायिक राजधानी लागोस में एक ऊंची इमारत में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो में सात मंजिला अफ्रिलैंड टावर्स के निवासी आग लगने के समय तीसरी और चौथी मंजिल से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित कर्मचारी जो इमारत के अंदर फंस गए थे, जहां शहर की अधिकांश व्यावसायिक कंपनियां और अन्य संगठन स्थित हैं।

ईरानी चाबहार पोर्ट से जुड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाएगा अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दी गई खास छूट गुरुवार को रद्द कर दी। यह भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह बंदरगाह भारत का बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। 29 सितम्बर 2025 से इस बंदरगाह को चलाने, पैसे देने या उससे जुड़े किसी काम में शामिल कंपनियों पर अमेरिका जुर्माना लगा सकता है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी है। अमेरिका ने कहा: हम ईरान की गलत हरकतों को रोकना चाहते हैं। जब तक ईरान हमले आतंकवाद और अशांति फैलाने में पैसा लगाएगा, हम उसे रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'मैक्सिमम प्रेशर' पालिसी का हिस्सा है, जो फरवरी 2025 में शुरू हुई थी। चाबहार को 2018 में अफगानिस्तान की मदद और

> ■ कंपनियों को 10 दिन में पोर्ट को मिली छूट खत्म होगी, ये भारत के पास 10 साल लीज पर

विकास के लिए छूट मिली थी। अब इसे खत्म कर दिया गया है। भारत इस बंदरगाह को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि पाकिस्तान से न गुजरना पड़े। भारत ने 2024 में चाबहार को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इसके तहत भारत यहां 120 मिलियन डालर निवेश करेगा और 250 मिलियन डालर का क्रेडिट लाइन (सस्ता कर्ज) देगा। अमेरिका का कहना है कि अब हालात बदल गए हैं। पहले अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार थी और चाबहार खाने-पीने की चीजें और सामान भेजने का रास्ता था।

वैश्विक डाक संघ की प्रशासन परिषद के लिए फिर चुना गया भारत

नई दिल्ली। भारत को दुबई में आयोजित वैश्विक डाक संघ (यूपीयू) के 28वें अधिवेशन में यूपीयू की प्रशासन परिषद (सीए) और डाक संचालन परिषद (पीओसी) के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश मंत्रालय ने इस सफलता की सराहना करते हुए सदस्य देशों का आभार जताया है। दूरसंचार मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूपीयू के निकायों के लिए भारत का पुनः निर्वाचित भारतीय डाक के नेतृत्व, सुधारों और नवीन डिजिटल पहलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को दर्शाता है। भारत 1876 से यूपीयू का सदस्य रहा है और वैश्विक डाक नेटवर्क को मजबूत बनाने में निरंतर योगदान देता रहा है।

जैश के बाद लश्कर के आतंकी ने बयां की ऑपरेशन सिंदूर से तबाही की कहानी

पाकिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई में हुए नुकसान को नकारता रहा है

इस्लामाबाद। जैश के बाद लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। लश्कर कमांडर कासिम ने माना कि सात मई सुबह किए गए हमले में मुरिदके स्थित लश्कर मरकज को तबाह कर दिया गया था।

उसने यह भी कहा कि इस आतंकी शिविर का पुनर्निर्माण हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई में हुए नुकसान को नकारता रहा है। कासिम ने कैमरे के सामने खड़े होकर इस सच को कबूल किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लश्कर कमांडर कासिम कहता नजर आ रहा है कि मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जो भारतीय हमले में नष्ट हो गया था। इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। यह मस्जिद पहले से भी बड़ी बनाई जाएगी। वायरल हो रहे वीडियो में कासिम एक निर्माणाधीन जगह के

पास खड़ा दिखाई दे रहा है। जिसमें वह कह रहा है, मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जो हमले में नष्ट हो गया था। इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। कासिम आगे यह भी कबूल करता है कि इस मस्जिद में कई मुजाहिदीन और तलबाने प्रशिक्षण हासिल किया और विजय हासिल की। मुरिदके, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखूपुरा जिले में स्थित एक शहर है। वीडियो में कासिम एक अधूरे निर्माण स्थल के सामने खड़ा दिख रहा है और कहता दिख रहा है, मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जिसे (भारत के) हमले में नष्ट कर दिया गया था। अब इसका फिर से निर्माण हो रहा है। अल्लाह की रहमत से यह मस्जिद पहले से बड़ी बनेगी। कासिम ने यह भी कबूला कि इस नष्ट की गई मरकज तैयबा मस्जिद में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें मुजाहिद और तलबा (छात्र) शामिल थे और वे यहां से फतह (जीत) के लिए निकले। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया था कि जिस इमारत को नष्ट किया गया, वह अब आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। एक और वीडियो में लश्कर के इस आतंकी ने पाकिस्तान के युवाओं से अपील की कि वे मुरिदके में मरकज तैयबा में होने वाले 'दौरा-ए-सुफ्फा' नाम के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों।

रूस के कामचटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप

सुनामी का अलर्ट जारी, बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 4 भूकंप आए

मॉस्को। रूस के कामचटका के पूर्वी तट पर शुक्रवार सुबह 7.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसके बाद 5 आफ्टरशाक महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 5.8 मापी गई। इसके बाद सुनानी की चेतावनी जारी की गई। तट पर 30 से 62 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गईं।

कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने बताया कि सभी आपातकालीन सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस क्षेत्र में आज आए भूकंप समेत 4 बड़े भूकंप 7.0 या उससे अधिक तीव्रता के दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए भूकंप के वीडियो में घरों में फर्नीचर और लाइटें हिलती हुई दिखाई दीं। झटके इतने तेज थे कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी हिलती नजर आईं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 128 किलोमीटर दूर, जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। रूस की स्टेट जियोफिजिकल सर्विस ने बताया कि बाद में तीव्रता घटकर 7.4 हो गई। गवर्नर ने टेलीग्राम पर कहा-आज (19 सितम्बर) की सुबह एक बार फिर कामचटका के लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। कामचटका के पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। जनता को सतर्क किया जा रहा है। भूकंप के बाद सामाजिक संस्थानों और रिहायशी इमारतों में नुकसान की जांच शुरू कर दी गई है। कुरिल द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस और पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने अलास्का के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की सलाह जारी की थी, जिसे बाद में हटा लिया गया।

चीन ने महिला विकास की उन्नति पर जारी किया श्वेतपत्र

बीजिंग। चीन में राज्य परिषद् सूचना कार्यालय द्वारा 'नए युग में महिलाओं के सर्वांगीण विकास में चीन की उपलब्धियां' शीर्षक से एक श्वेतपत्र जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पांच अध्यायों वाला यह श्वेतपत्र बीजिंग में आयोजित होने वाली 2025 की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर वैश्विक नेताओं की बैठक के मद्देनजर है। यह श्वेतपत्र नए युग में लैंगिक समानता और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने में चीन के दर्शन, सिद्धांतों और नवीन परिपाटियों का परिचय प्रदान करता है। यह श्वेतपत्र चीनी महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित करते हुए महिलाओं की उन्नति के लिए वैश्विक प्रयासों में शामिल होने की चीन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। श्वेतपत्र लैंगिक समानता की खोज को एक महान कार्य बताता है और इस बात पर बल देता है कि चीनी महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और अपने सपनों को साकार करने के इतने व्यापक अवसर पहले कभी नहीं मिले थे।

नेपाली पीएम सुशीला बोलीं: हम जीरो स्टेट की स्थिति में

काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिंह दरबार में 9 सितम्बर को हुई भयानक आगजनी ने देश के सरकारी ढांचे को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर है कि नेपाल की नई अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने शपथ लेते ही कहा कि हम शून्य स्थिति (जीरो स्टेट) में हैं। उनके पास कैबिनेट है, लेकिन मंत्रालयों के पास न तो इमारतें बची हैं और न ही जरूरी कागजात।

सिंह दरबार परिसर, जो कभी भव्य महल और 20 से ज्यादा मंत्रालयों का केंद्र था, अब मलबे का ढेर बन चुका है। आग की लपटों ने संसद, भ्रष्टाचार विरोधी विशेष अदालत, और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को नष्ट कर दिया।

न इमारतें बची और न ही डॉक्यूमेंट्स, जेन-जी आंदोलन की आग में सब राख

सरकारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, कंपनी रजिस्ट्रेशन, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मूल कागजात जलकर राख हो गए। अकेले सुप्रीम कोर्ट की 60 हजार से ज्यादा फाइलें राख हो गईं। जेन-जी आंदोलन के दौरान सिंह दरबार से डाक्यूमेंट्स बाहर फेंक दिया गया। संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, भ्रष्टाचार विरोधी अदालत और स्थानीय सरकारों की 300 से अधिक इमारतें भी आग की भेंट चढ़ गईं। पीएम कार्की ने कहा देश चलाने वाली सभी संस्थाएं और दस्तावेज नष्ट हो गए हैं।

अमेरिका ने बीएलए पर बैन के प्रस्ताव को किया वीटो

यूएन में पाकिस्तान-चीन का प्रस्ताव रोका, पिछले महीने यूएस ने ही आतंकी संगठन किया था घोषित

न्यूयॉर्क। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठक में रखा था। दोनों देशों ने बीएलए को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी।

यूएनएसी की बैठक में पाकिस्तान ने दावा किया कि बीएलए, मजीद ब्रिगेड, अल-कायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और सीमा पार हमले कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान से फैल रहा आतंकवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इससे पहले अमेरिका ने ही पिछले महीने बीएलए

बलूच आर्मी पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार हमले करती रहती है

और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन (एफटीओ) घोषित किया था। बलूच आर्मी पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार हमले करती रहती है। इनमें कई आत्मघाती हमले भी होते हैं। अमेरिका ने कहा है कि बीएलए को अल-कायदा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध सूची में नहीं डाला जा सकता। इस सूची में आने पर किसी भी संगठन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार खरीदने पर रोक लग जाती है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथारिटी काम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया गया था। इन्हीं आरोपों का हवाला देते हुए अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया था। बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे।